



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2011 (भाद्रपद 12, 1933)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2011 (BHADRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अगस्त 2011

सं. ओ.दो. 5719/2011-डी.-4-कार्मिक--श्री, प्रदीप कुमार, उप
कमाण्डेंट (ईरला-5719), 113 बटालियन, के.रि.पु. बल का सरकारी
सेवा से त्याग पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के
परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक
19.07.2011 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की
नफरी से दिनांक 19.07.2011 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 4054/2011-डी.ए.-4-कार्मिक--श्री, बी. एन. सिद्ध, उप
कमाण्डेंट (ईरला-4054), 37 बटालियन, के.रि.पु. बल का सरकारी
सेवा से स्वीच्छक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार

कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार
दिनांक 01.05.2011 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस
बल की नफरी से दिनांक 01.05.2011 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. ओ.दो. 3882/11-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी,
डॉ. प्रणबज्योति ठेका को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेषज्ञ
चिकित्साधिकारी (उप कमाण्डेंट) (पेटालजि) के पद पर वेतन बैंड
रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान (साथ में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन)
में अस्थायी रूप से दिनांक 02.08.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष
नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, जम्मू में तैनात
किया जाता है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 3640/2011-कार्मिक--भारत सरकार ने श्री चिरंजीव प्रसाद, भा.पु.से. (एम. एच. : 96) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति पर रु. 37,400--67,000/- के वेतन बैंड (पी.बी.-4) तथा ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 08.08.2011 (पूर्वाह्न) को ग्रहण कर लिया है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 5828/2011-डी.ए.-4-कार्मिक--श्री पी. के. हरी कुमार, उप कमाण्डेंट (ईरला-5828), 206 कोबरा बटालियन का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 02.07.2011 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनको दिनांक 02.07.2011 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 3876/11-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. संध्या एन. एस. को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 11.07.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच. पल्लीपुरम के.रि.पु. बल, में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 3875/11-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. सचिन कुमार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 21.06.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 9 बटा. के.रि.पु. बल, में तैनात किया जाता है।

आर. एन. मिश्रा,
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 11 अगस्त 2011

सं. प्रशा. (सि.ले.)-17-2(लेपअ) भाग-VII/1030 {सं. प्रशा. (सिले.)-17-2 (लेपअ) भाग-VII/914}--दिनांक 28.07.2011 द्वारा सूचित का.आ.ग. 420 दिनांक 28.07.2011 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक

लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य वेतन ग्रेड रु. 5,400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :-

अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
श्री विचित्रानन्द बिशवाल	01.08.2011 (पूर्वाह्न)

आर. के. दास
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. ए-19018/1787/2010-ए- (जी)--विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यरत श्री मनोहर लाल, सहायक निदेशक, ग्रेड-1 (आईईएस)सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2011 को अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

महिंदर सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. ए-19011/537/2011-स्था. ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एल. एच. छांगटे, सहायक खान नियंत्रक को भारतीय खान ब्यूरो, बंगलोर में दिनांक 27.07.2011 (अपराह्न) से वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ए-19011/614/2011-स्था. ए.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री जयकिष्णा बाबु वारीगोंडा, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29.06.2011 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय खान नियंत्रक के पद पर नियुक्ति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ए-19011/202/2010-स्था. ए. पी. पी.--डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, क्षेत्रीय खनन भू-विज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त

होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.04.2011 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ह./- अपठनीय
सहायक प्रशासन अधिकारी

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

मुंबई-400094, दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. पऊनिप/प्रशा./1/77/212--राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती राजश्री हृषिकेश पै को दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (पऊनिप) में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. कृष्णन
मुख्य प्रशासन अधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. आरआरकेट/प्रशा./2011/भ-805/960--राष्ट्रपति, निम्नांकित वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी : 4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) को दिनांक 01.07.2011 की पूर्वाह्न से पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी : 4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	सं. संख्या	नाम	प्रभाग/अनुभाग
1	2	3	4
सर्वश्री/डॉ./श्रीमती			
1.	5	पी. सी. जैन	सी एण्ड एस प्रभाग
2.	60	वी. के. भटनागर	एसीडीएफ अनुभाग
3.	65	पी. रेणुकानाथ	पीएसएआई प्रभाग
4.	174	बीना जैन	एलबीएआईडी
5.	323	वाई. बी. एस आर. प्रसाद	एलपीडी
6.	382	आर. के. गुप्ता	आईओएपीडी प्रभाग
7.	486	प्रशान्त खरे	सीसीडीएस
8.	516	के. रंगनाथन	एसएसएलडी
9.	558	अविजीत चौधरी	प्रशिक्षण विद्यालय
10.	750	डी. वी. घोड़के	पीएलएससी प्रभाग
11.	791	विलास साठे	यूएचवीटीडी
12.	803	अभय कुमार	आईएमएस

1	2	3	4
13.	804	अपोलो कासलीवाल	पीएसआईएडी
14.	805	आलोक दुबे	एलबीएआईडी
15.	815	के. एस. बर्तवाल	एलएमडीडीडी
16.	816	एम. के. बडापांडा	आरएफएसडी
17.	941	विनीत कुमार	एसीबीडीडी
18.	943	ओम प्रकाश	एलएसईएस
19.	953	एस. एस. तोमर	कम्प्यूटर प्रभाग
20.	1070	तापस गांगुली	आईएसयूडी
21.	1091	एम. बी. बोरगे	पीएसआईएडी
22.	1166	के. के. पन्त	एसएसएलडी
23.	1385	अपर्णा चक्रवर्ती	आईएसयूडी

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स केपको प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 19 फरवरी 2011

सं. 560(5)/011086--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केपको प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विन्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 अप्रैल 2011

सं. 560(3)/185904--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स विन्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्सलड शीपस्किन एण्ड लैदर कोट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 21 अप्रैल 2011

सं. 560(5)/109294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्सलड शीपस्किन एण्ड लैदर कोट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेस्ट फालिया सर्ज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जून 2011

सं. 560(5)/177844--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेस्ट फालिया सर्ज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्टरलेकन प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00359--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्टरलेकन प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेरमेट प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेरमेट प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्यूचर बॉड्स एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/006778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्यूचर बॉड्स एण्ड होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शक्ति विकास सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. 560(5)/023676--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शक्ति विकास सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैन्थर मशीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. 560(5)/036676--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैन्थर मशीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सनफ्लैग फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. 560(5)/00403--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनफ्लैग फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पॉवरग्रीड आई एल एण्ड एफ एस
ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 560(5)/170796--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉवरग्रीड आई एल एण्ड एफ एस ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्यास फायनान्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्यास फायनान्स एण्ड लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नैनो कोर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00032--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नैनो कोर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेटलएक्सपोर्ट-एस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/178455--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेटल-एक्सपोर्ट-एस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीवन धारा नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/179116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जीवन धारा नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विनानु टेक्नोलॉजीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/185904--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विनानु टेक्नोलॉजीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री साई सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011.

सं. 560(5)/181219--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री साई सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वरूप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/093070--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वरूप इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ए एस पी यू सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/087405--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए एस पी यू सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दिलकुश फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/048027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिलकुश

फायनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स निओल रिटेल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/147572--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निओल रिटेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्युबलीस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/182477--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्युबलीस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स करीना इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00114--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स करीना इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रांड स्पीड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/102230--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रांड स्पीड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जी एम जे आईटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00108--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जी एम जे आईटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स यूनिकॉन सेल्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/183855--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिकॉन सेल्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडवार्ड इनवेस्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/065998--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडवार्ड

इनवेस्ट एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीन एग्रो फोरेस्ट्री लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/058309--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीन एग्रो फोरेस्ट्री लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडसेप्ट वैलथ केयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/182865--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडसेप्ट वैलथ केयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माल्मगटोली मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(5)/187543--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स माल्मगटोली मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मल्लिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. एच. टेक्नोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अगस्त 2011.

सं. 560(5)/163248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. एच. टेक्नोबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रीटेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अगस्त 2011

सं. 560(5)/113897--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रीटेक इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बुडकॉक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अगस्त 2011

सं. 560(5)/178382--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बुडकॉक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इलास्टोमर टेक्नोलॉजिस एण्ड कंसल्टिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 560(5)/159967--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इलास्टोमर

टेक्नोलॉजिस एण्ड कंसल्टिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मिलन इवेन्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00339--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मिलन इवेन्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मैरीगोल्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 560(5)/078828--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैरीगोल्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अरावली एग्रोफूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. 560(5)/177194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अरावली एग्रोफूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिबल प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 9 अगस्त 2011

सं. 560(5)/018216--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिबल प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. कर/दिल्ली/560(5)/ईईएस/2010/भाग-II/7424--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	061190	मैसर्स स्ट्रूप-एन-मेटल मशीनरी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
2.	056663	मैसर्स योगंज इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	122341	मैसर्स यक्ष बायोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	015651	मैसर्स ओमेगा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	043178	मैसर्स इंस्टैंट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	032571	मैसर्स जैको इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
7.	052674	मैसर्स जागरूक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	062892	मैसर्स रिट्रीट एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	014808	मैसर्स न्यू इरा फायनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
10.	066688	मैसर्स प्रविक होल्डिंग्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	075978	मैसर्स रेलिएंट फिनलीज लिमिटेड
12.	030094	मैसर्स सहयोग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	026939	मैसर्स सुमंगल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
14.	071109	मैसर्स सीधा बाबा फायनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
15.	073200	मैसर्स झंकार लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	066318	मैसर्स सोलिड फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
17.	066234	मैसर्स काजला फिनवेस्ट लिमिटेड
18.	057676	मैसर्स हरिंद्र लीजिंग एण्ड फायनांस लिमिटेड
19.	056653	मैसर्स मुद्रा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	039217	मैसर्स गिराज क्रेडिट्स लिमिटेड
21.	083211	मैसर्स तनुश्री वेस्टर्न फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	016519	मैसर्स मैक्सवर्थ टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
23.	069980	मैसर्स सौम्या स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
24.	066263	मैसर्स सिल्वरलाईन फायनांशियल सर्विसिस लिमिटेड
25.	058778	मैसर्स विचित्र इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. 560(5)/ईईएस/भाग-II/7425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	089118	मैसर्स सर्वोदय कम्प्यूटर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
2.	124992	मैसर्स श्याम मिल्क प्राईवेट लिमिटेड
3.	124909	मैसर्स दास रेस्टोरेंट्स एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	163863	मैसर्स माँ मेडीकेयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	103439	मैसर्स पानासॉफ्ट इन्फो.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
6.	144053	मैसर्स कोन ट्रेवल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	039205	मैसर्स हिमालया सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	083393	मैसर्स सूरज मुखी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	103931	मैसर्स वेबकुइटी ई-मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	066007	मैसर्स टीम फॉर होस्पिटैलिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	028762	मैसर्स एशिया टेस्टिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	128124	मैसर्स आदित्या क्रिएशंस प्राईवेट लिमिटेड
13.	024654	मैसर्स न्यू वेव लीजिंग लिमिटेड
14.	033743	मैसर्स टेक्नोगार्ड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	083826	मैसर्स जी. जी. फायनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	126199	मैसर्स नंदीतास डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	115708	मैसर्स विन्मैक्स डाइरेक्ट सेल्लेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	120236	मैसर्स धन रक्षा सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	121689	मैसर्स रियल वैल्यू ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड
20.	023625	मैसर्स गौतम कोछर कंसल्टेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	141383	मैसर्स स्ट्रेट ड्राईव ई-सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	121253	मैसर्स काल शिफ्ट बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	114124	मैसर्स एम. सी. प्रिंट्स मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
24.	057013	मैसर्स शेल्ली एसोसिएट्स लिमिटेड
25.	124576	मैसर्स श्री कृष्ण टॉवर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	090665	मैसर्स एन. आर. के. माइक्रोइलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	050321	मैसर्स एओन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
28.	012166	मैसर्स समयुक्ता इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
29.	140398	मैसर्स सिद्धांत आर्युवैदिक मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
30.	136895	मैसर्स एवरेस्ट बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
31.	173405	मैसर्स ई राइट्स कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
32.	111259	मैसर्स करन गैस्ट्रोनोमी प्राईवेट लिमिटेड
33.	062433	मैसर्स डंगसंस मर्केन्टायल प्राईवेट लिमिटेड
34.	091053	मैसर्स कोशारमीत फायनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	051037	मैसर्स भारतीय उद्योग लिमिटेड
36.	050799	मैसर्स क्लौड एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
37.	115918	मैसर्स हाईड्रोनिक्स एनर्जी जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड
38.	105791	मैसर्स एल्फाटेक सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	100146	मैसर्स समृद्ध इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
40.	104328	मैसर्स डिलीजेंट डाटा सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	096754	मैसर्स चोपड़ा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
42.	115811	मैसर्स श्री ललितअम्बिका इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	086291	मैसर्स लोट्स ग्रीन वेल्लिज एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
44.	115149	मैसर्स मेकेम टेक्नो एयर इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	129644	मैसर्स बज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
46.	077638	मैसर्स एक्सिस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
47.	051161	मैसर्स सतनाम गैस सर्विस लिमिटेड
48.	118841	मैसर्स सत्यासाई टेक्नीकल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
49.	155116	मैसर्स वी. ओ. एस. कांटेक्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	109241	मैसर्स एस्टर कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	168367	मैसर्स फ्यूजन होल्डिंग (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
52.	037778	मैसर्स कॉसमोस ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	100097	मैसर्स एस्सेक्स एल्यूमिनियम सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
54.	156285	मैसर्स एवरस्मार्ट टेक्नो सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
55.	097299	मैसर्स अल्टीमेट डाटा सिस्टम्स सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	098587	मैसर्स दिवा मैन्युफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	040871	मैसर्स जेनी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
58.	151579	मैसर्स एल. वी. डी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
59.	172012	मैसर्स अराजी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
60.	015026	मैसर्स वैन्सन चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
61.	040967	मैसर्स सिकरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	036917	मैसर्स टी. आर. मार्केटिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
63.	041792	मैसर्स प्रेम नाथ इंजन प्राईवेट लिमिटेड
64.	090539	मैसर्स एक्च्यूरीज पैनोरमा प्राईवेट लिमिटेड
65.	028933	मैसर्स शांता इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	094010	मैसर्स ऐस एक्जिम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
67.	107044	मैसर्स वर्षा इन्फोटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
68.	031227	मैसर्स बिशनदास स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	168813	मैसर्स ग्लोबल ट्रेवेलको (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
70.	159830	मैसर्स विन्टेक सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
71.	120527	मैसर्स गार्ड्स-24-सिक्योरिटी एण्ड फैसेलिटी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
72.	014065	मैसर्स गीतांजली लैदर्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	150825	मैसर्स फर्स्ट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	035273	मैसर्स मलिक आईस एण्ड फूड इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
75.	116685	मैसर्स के. बी. रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	053881	मैसर्स महाजन कैपिटल एण्ड फायनांसिंग प्राईवेट लिमिटेड
77.	091331	मैसर्स एन. एफ. सी. इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
78.	067647	मैसर्स हरिकृष्णा कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	109314	मैसर्स ए. एन. एम. ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
80.	092518	मैसर्स ओरिएंटल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड
81.	118831	मैसर्स जैड मैन पावर सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	102782	मैसर्स हाई-केयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
83.	166310	मैसर्स साल्वो इण्डिया ओवरसीज ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
84.	089541	मैसर्स रेंडेजवस ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
85.	114599	मैसर्स उपल ट्रैवल्स एण्ड होलिडेज प्राईवेट लिमिटेड
86.	128005	मैसर्स विस्ता टूर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
87.	128167	मैसर्स डी. जी. एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
88.	073369	मैसर्स संयोग फिनलिज एण्ड सिक्वोरियेज़ प्राईवेट लिमिटेड
89.	168053	मैसर्स कृष्णा इन्फ्रासोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
90.	116157	मैसर्स प्रो मीडिया एक्जुपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
91.	127491	मैसर्स एक्सला मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
92.	174512	मैसर्स सुरभि एनिमेशन प्राईवेट लिमिटेड
93.	086801	मैसर्स डिस्नी रिसोर्ट्स लिमिटेड
94.	078275	मैसर्स दोगमा ऑटो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
95.	132875	मैसर्स गोल्डेन वैली विन्टर प्राईवेट लिमिटेड
96.	031332	मैसर्स सीज़न्स चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	112746	मैसर्स युवराज कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
98.	153979	मैसर्स मयूर मूवीज़ प्राईवेट लिमिटेड
99.	171555	मैसर्स ए. डी. सोलर प्राईवेट लिमिटेड
100.	097541	मैसर्स बत्रा एप्लायन्सेज़ लिमिटेड

पी. एल. मलिक

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विभुती चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 मई 2011

सं. 560(5)/031502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विभुती चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

अनिता क्लेर

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एलिगेन्ट गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00398--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के

अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलिगेन्ट गोल्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

अशोक कुमार बहल

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ब्रिकरेड कंसलटेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. 560(3) एमसीए/आर.ओ.सी.-दिल्ली (सीजीओ)/धारा 560/2011/00391--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रिकरेड कंसलटेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

अशोक कुमार बहल

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कुनुरुन इण्डिया फायर्नेस लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/144223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुनुरुन इण्डिया फायर्नेस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सेठी प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/028555--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेठी प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. कर/ईईएस-2010/560(5)/4390--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	एस आर एन संख्या SRN	सी आई एन संख्या
1	रिलायन्स इन्फोकॉम मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	A87375382	U72900MH2000PTC127501
2	मेट्रो सैन्थेटिक प्रा.लि.	A87598017	U24300MH1988PTC047217
3	आयोनिह होटल्स प्रा.लि.	A87601266	U55200MH1990PTC058600
4	ब्यू रोज़ इनवेसमेंट प्रा.लि.	A87564860	U67120MH2006PTC162405
5	अटलांटा कॉस्मेटिक्स प्रा.लि.	A88075999	U24246MH1997PTC110675
6	पी एंड ओ इनफरमेशन सिस्टमस् प्रा.लि.	A88199591	U74999MH2003PTC139913
7	एमजेएफटी टेकनॉलॉजी एन्ड सोल्युशन प्रा.लि.	A88300587	U72900MH2001PTC131064
8	कासाब्लांका रिसॉर्टस् प्रा.लि.	A88629381	U55100MH1998PTC117562
9	सिक्वियर इनवेसमेंट एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	A88646146	U67190MH2000PTC126111
10	कॉन्टीइन्फार्मैटीक्स इंडिया प्रा.लि.	A88722301	U72200MH2000PTC129478
11	लिओ टैप्स प्रा.लि.	A88909817	U25199MH2002PTC135305
12	प्रमोदिया ऑडिओ व्हिडीओ प्रा.लि.	A88933684	U52335MH2004PTC148276
13	एम सन्स इंजिनिअरिंग लि.	A88958863	U99999MH1982PLC026986
14	क्लिक पॉवर लि.	A89053029	U67120MH1987PLC043934
15	रतन फाइनटेक प्रा.लि.	A89083018	U67120MH1996PTC102077
16	टिडीएस फार्मा प्रा.लि.	A89061352	U24230MH2003PTC139745
17	अक्टिव फार्मा प्रा.लि.	A89291132	U51397MH1997PTC107983
18	अडवाणी ब्रदर्स होल्डींगस् प्रा.लि.	A89462857	U65990MH1982PTC026983
19	सोल्ल बायो व्हेचर प्रा.लि.	A89611560	U74140MH2005PTC155305
20	सिंफोनी होम्स प्रा.लि.	A89708523	U70101MH1992PTC068650
21	स्टार वॉर इनवेसमेंट प्रा.लि.	A89724256	U67120MH1995PTC091018
22	ओनेक्स सिक्वियरिटीज प्रा.लि.	A89663132	U65993MH1995PTC093996
23	एमजेपी बाईलस इकॉनॉमीस सुपरहोटस प्रा.लि.	A89905772	U74210MH1976PTC018835

24	श्रीपती इपेक्स प्रा.लि.	A89937239	U51900MH1992PTC067153
25	सुधिर कन्सलटन्स प्रा.लि.	A89936298	U74140MH1997PTC109023
26	ओपेक्स ट्रेडिंग प्रा.लि.	A89941017	U51900MH1998PTC115485
27	के एस केमिकल्स प्रा.लि.	A89903611	U24100MH1999PTC121231
28	जेल इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा.लि.	A90066051	U51909MH1997PTC107325
29	ओपी अग्रो इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	A90126525	U29290MH1988PTC047611
30	डान्झाझस् फाईट इंडिया प्रा.लि.	A90229550	U60300MH1992PTC065178
31	बिपिन कोरा शेअर एन्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा.लि.	A90278318	U67120MH2002PTC137517
32	सत्यगिरी आयओ इंटरनैशनल प्रोजेक्ट प्रा.लि.	A90296120	U45200MH2005PTC152653
33	युरो एशिया फायनांस लि.	A90343385	U65900MH1998PLC117260
34	आरतीक्युलर ट्रेडिंग प्रा.लि.	A90356080	U51310MH2007PTC171800
35	विधाता टेक्सटाईल प्रा.लि.	A90425836	U17120MH1982PTC027869
36	रिअलटेक व्हेन्चर कैपिटल प्रा.लि.	A90448721	U74999MH2000PTC126925
37	रिलायंस ब्रॉडकॉम प्रा.लि.	A90449299	U64200MH2000PTC127626
38	नेटिझन उत्तर प्रदेश प्रा.लि.	A90447707	U72900MH2000PTC128377
39	फायर्स एन्ड मोअर इंडिया प्रा.लि.	A90390592	U74999MH2003PTC138744
40	ई सर्कल टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा.लि.	A90448358	U74999MH2000PTC126805
41	समिरा मनोर्स प्रा.लि.	A90431297	U45200MH2008PTC178056
42	समिरा बाय कंपनी प्रा.लि.	A90429812	U63032MH2008PTC177966
43	आर डी केमिकल्स कन्सलटन्ट प्रा.लि.	A90518630	U99999MH1982PTC026746
44	प्रमको फायनांशियल इनवेसमेंट एन्ड कन्सलटन्सी प्रा.लि.	A90458662	U65990MH1982PTC029001
45	सावनी इपेक्स प्रा.लि.	A90484668	U51900MH1983PTC029972
46	योगेंद्रा इंजिनिअरिंग एन्ड प्लास्टिक प्रा.लि.	A90512989	U28920MH1987PTC044191
47	बीबीसी फुटस् एन्ड व्हेजिटेबल कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.	A90529488	U63022MH2002PTC136439

48	माटे कन्स्ट्रुवेल् प्रा.लि.	A90538109	U70101MH2003PTC140647
49	पैरीयस बेयरिंग लि.	A90551243	U29130MH1972PLC015893
50	पार्क इनवेसमेंटस् प्रा.लि.	A90606872	U65990MH1976PTC018930
51	ल्विस फार्म प्रा.लि.	A90545799	U05004MH1984PTC032282
52	प्रगति प्रॉपर्टिज एन्ड टेडर्स प्रा.लि.	A90602129	U70100MH1988PTC048311
53	शांती कॅपीटल सर्विसेस प्रा.लि.	A90562554	U67120MH1995PTC091888
54	माटे ग्रीन मेडॉस् प्रा.लि.	A90623273	U70101MH2003PTC140631
55	माटे रिआलीटीज प्रा.लि.	A90620410	U70101MH2003PTC140652
56	कॉकोदास इन्फोर्मेटिक इंडिया प्रा.लि.	A90545252	U72900MH2004PTC145508
57	सुरेश केमिकल्स प्रा.लि.	A90632811	U24110MH1975PTC018159
58	एचव्हायडी—एअर मैग्नेटस् प्रा.लि.	A90699323	U27100MH1981PTC025565
59	वेस्ट कॉस्ट इस्टेट इंडिया प्रा.लि.	A90712175	U45200MH1989PTC050475
60	लोढा एन्ड कानगो प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	A90711128	U45200MH1992PTC064822
61	डार्क हाउस अॅडव्हरटायझिंग प्रा.लि.	A90703273	U74300MH1994PTC076397
62	ब्रबंतिया कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रा.लि.	A90711805	U51909MH2004PTC148574
63	लाइट हाउस बिल्डर्स प्रा.लि.	A90709221	U70100MH2005PTC155577
64	धन—रत्ना हाउसिंग फायनांस लि.	A90779893	U65922MH1992PLC067447
65	आकाश सिक्युरिटीज प्रा.लि.	A90867516	U67120MH1991PTC064553
66	मिरा सिक्युरिटीज प्रा.लि.	A90867086	U67120MH1991PTC064561
67	अमोबा सिल्क मिल्स प्रा.लि.	A90990581	U99999MH1987PTC045113
68	नवजीवन इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	A90913039	U99999MH1991PTC059792
69	वैतरणा टेक्सटाईल प्रा.लि.	A90891912	U17110MH1997PTC107959
70	एनर्जी एमपॉवर प्रा.लि.	A90928185	U74910MH2005PTC154109
71	जी पी झेड बेअरिंगस् प्रा.लि.	A91080564	U29130MH1968PTC014135
72	पॅरमिक्स टेक्नॉलॉजीस् प्रा.लि.	A91063263	U72200MH2000PTC123614
73	एंडलेस डेवलपर्स प्रा.लि.	A91034710	U45102MH2005PTC158193

74	कॉन्टीनेंटल युनिवर्सल लॉजीस्टिक लि.	A91117416	U74999MH2007PLC166845
75	बासार कौकीट प्रा.लि.	A91082834	U74999MH2007PTC172127
76	लुब्रिट-अंडलर इंडिया अंडव्हाइस प्रा.लि.	A91046110	U67190MH2008PTC177578
77	गोवा प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्रा.लि.	A91113811	U45203MH2007PTC176482
78	कॉसमीन होमीओपैथीक फार्मसी प्रा.लि.	A91209130	U24100MH1982PTC028877
79	स्पेकसीम इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	A91132290	U74210MH2004PTC043938
80	झेनित कन्सल्टंटस प्रा.लि.	A91161695	U65990MH1988PTC049120
81	स्टिमलाईन इंजिनिअरिंग कंपनी प्रा.लि.	A91198929	U28920MH1989PTC051169
82	अक्टीस् असेट रीकस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.	A91160093	U65999MH2004PTC147345
83	मारुतीनंदन बिल्डकॉन प्रा.लि.	A91130831	U45200MH2005PTC150999
84	तोरुक्यु मोटरसायकल प्रा.लि.	A91128348	U34200MH2006PTC158963
85	फाईअर्थ इक्युपमेंट प्रा.लि.	A91219048	U99999MH2006PTC159321
86	वेलकेअर इनवेसमेंट प्रा.लि.	A91267542	U67120MH1992PTC064997
87	जोरांदा सोल्युशन प्रा.लि.	A91223032	U65990MH1992PTC066081
88	निरवजा अंडव्हाइरी सर्विसेस प्रा.लि.	A91294702	U74140MH2006PTC159832
89	युनिफोर अग्रोपैक इंडिया प्रा.लि.	A91307918	U74950MH2006PTC161338
90	अकोला केमिकल्स एन्ड इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	A91322073	U24110MH1982PTC028995
91	न्युकलीअस इनवेसमेंट लि.	A91399584	U67120MH1992PLC065670
92	फूसीप प्रॉडक्ट प्रा.लि.	A91379156	U15137MH2003PTC139166
93	सिंघल प्रेस्टीसाईड प्रा.लि.	A91369009	U24219MH1999PTC119250
94	लिपि सिक्युरिटीज प्रा.लि.	A91369322	U67120MH2007PTC169012
95	इन्वोवेशन इंटरनैशनल इंडिया प्रा.लि.	A91321661	U67190MH2007PTC171996
96	ट्रस्टओर्थी इनवेसमेंट एन्ड फायनांस लि.	A91554683	U99999MH1987PLC042818
97	चंदन एक्झीम इंडिया प्रा.लि.	A91505073	U51900MH1997PLC111321
98	खंबाला रिजन रियलटर्स प्रा.लि.	A91491662	U70102MH2007PTC176670

99	मंगलम खंबाला हिल रियलटी प्रा.लि.	A91492520	U70102MH2007PTC176707
100	अनीक -केम प्रा.लि.	A91661397	U24246MH1982PTC026272
101	योग अग्री कमोडिटीज प्रा.लि.	A91642371	U15130MH2004PTC146977
102	जय प्रकाश सुधिर प्रा.लि.	A91665190	U16002MH1954PTC009358
103	ऑलीड टेक्नो सर्विसेस इंडिया। प्रा.लि.	A91665406	U24110MH1966PTC013449
104	वनवैभव फार्मस प्रा.लि.	A91681981	U70101MH1989PTC051041
105	पीआर सुपरमार्केट इंडिया। प्रा.लि.	A91719880	U52190MH1998PTC115703
106	लिटील मोअर एज्युकेशन प्रा.लि.	A91704411	U80100MH2004PTC150064
107	वेवकॉम टेक्नोलॉजीस प्रा.लि.	A91750745	U72200MH2005PTC155518
108	एल्फीस्टन मेटल रोलिंग मिल्स प्रा.लि.	A91813113	U27100MH1971PTC015507
109	बेड ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर प्रा.लि.	A91760736	U71110MH1983PTC031514
110	बॉम्बे अजंठा शोरुम प्रा.लि.	A91779645	U51394MH1997PTC111246
111	किरण पत्की इंटीरीअर आर्किटेक्ट प्रा.लि.	A91858746	U74300MH1998PTC112879
112	एसजी रायटिंग इन्स्ट्रुमेंट प्रा.लि.	A91847046	U36991MH1998PTC117361
113	प्रकाश स्विमींग पुल एन्ड हेल्थ क्लब प्रा.लि.	A91857938	U53209MH2000PTC130026
114	एलफीना बायोटेक लि.	A91781344	U24239MH2001PLC130918
115	मॅक्टीक्स आउटसोर्सिंग सर्विसेस प्रा.लि.	A91770396	U72900MH2001PTC133918
116	वन-धना हॉर्टिकलचर प्रा.लि.	A91892489	U45202MH1989PTC051726
117	सनराज गारमेंट्स प्रा.लि.	A91923037	U18101MH1994PTC078874
118	पार्थ पॉलीमर्स प्रा.लि.	A91960179	U24200MH1998PTC114402
119	ऑकुन्युज ऑडव्हॉयझिंग प्रा.लि.	A92021831	U74300MH1984PTC034083
120	कारपोरेट फायनांशियल अक्वीन्युज इंडिया। प्रा.लि.	A92020981	U67190MH1993PTC071615
121	सायबर रिज़ल्वेशन सिस्टम प्रा.लि.	A92037704	U63040MH2002PTC137638
122	चेरी स्वीट्स प्रा.लि.	A92045954	U15110MH2002PTC134591
123	हल्दीराम'स शिवा ऑडव्हॉस फुड टेक्नोलॉजी प्रा.लि.	A92046143	U15200MH2002PTC136965

124	असीस रिसर्च एन्ड कन्सलटिंग प्रा.लि.	A92043322	U74130MH2004PTC146091
125	अमृता फोटो ऑफसेट प्रा.लि.	A92118884	U22100MH1986PTC040242
126	रेणुका इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92096692	U65910MH1986PTC040855
127	विधाता पेपर मिल्स प्रा.लि.	A92109172	U21010MH1987PTC042705
128	लिब्सोजेम रसायन प्रा.लि.	A92146273	U24110MH2003PTC055652
129	इमीनेंट साइन्टीफीक इन्स्ट्रुमेंट प्रा.लि.	A92087535	U33125MH1995PTC085707
130	ग्रेमॅटर कन्सलटंट प्रा.लि.	A92143692	U74140MH1995PTC087963
131	एचएनडी डेडिंग एन्ड फायनांस कंपनी प्रा.लि.	A92095710	U51900MH1996PTC099331
132	अगराज फाईनेज प्रा.लि.	A92101203	U67110MH1998PTC115121
133	नीक डिझाईंग प्रा.लि.	A92126002	U36911MH1999PTC121798
134	हिमा डायकेम डेडिंग प्रा.लि.	A92081488	U51490MH2005PTC151310
135	अॅडव्हॉस टुर्स एन्ड ट्रायवल्स प्रा.लि.	A92056316	U63040MH2005PTC154181
136	बिनिता होल्डिंग्स प्रा.लि.	A92204692	U65900MH1991PTC060017
137	जयवृद्धि इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92207844	U65990MH1991PTC064081
138	संदीप मुक्तीज प्रा.लि.	A92208909	U92110MH1992PTC066975
139	केएमस् डायमंड प्रा.लि.	A92165505	U27205MH2002PTC136816
140	दातुस्को टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	A92178656	U72100MH2006PTC161023
141	जेनोम इन्फो टेक प्रा.लि.	A92208776	U72200MH2007PTC169877
142	गुरु गणेश एटरटेन्मेंट प्रा.लि.	A92202381	U92190MH2008PTC178168
143	बि बि फुडर इस्ट लि.	A92299882	U99999MH1982PLC028345
144	प्रिति लॅमीनेटीज लि.	A92303114	U99999MH1988PLC049352
145	अॅटलॅटीज इंपेक्स प्रा.लि.	A92294719	U72200MH1997PTC106929
146	स्विफ्ट शेअर एन्ड स्टॉक प्रा.लि.	A92270974	U65990MH2000PTC125077
147	प्यूडर्येन्सी इन्फोवे प्रा.लि.	A92267186	U72900MH2000PTC126679
148	ग्रीवेल इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92259084	U65990MH2007PTC169327

149	इलीबीट इंडिया बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	A92303320	U45400MH2007PTC172776
150	फोरटेक्स रेमेडिज प्रा.लि.	A92435114	U24230MH1981PTC025463
151	राजीव लिङ्गींग लि.	A92420728	U65910MH1984PLC033632
152	होटल जैयपुर इंटरनैशनल लि.	A92441732	U55100MH1999PLC117750
153	मयुरेश टेडिंग इंडिया प्रा.लि.	A92444710	U51228MH2000PTC129413
154	अक्वारियस इंपोर्ट्स इंडिया प्रा.लि.	A92380823	U51430MH2003PTC141186
155	अमेरिकन स्कॉलर स्टेशनरी इंडिया प्रा.लि.	A92378587	U36991MH2004PTC149267
156	सेसील इनवेसमेंट एन्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92379999	U67120MH1980PTC023094
157	एल एन्ड टी इन्फ्रा एन्ड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रा.लि.	A92444454	U70102MH2007PTC176291
158	जैनसन केबलस् प्रा.लि.	A92363431	U31300MH2007PTC176742
159	उध्दराम बिल्डर्स प्रा.लि.	A92438175	U45202MH2008PTC180504
160	वंडर लैंड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	A92452861	U99999MH1990PTC055365
161	नुरु ऑग्रैनिक्स प्रा.लि.	A92540483	U24110MH1991PTC062167
162	लोकपात्र पब्लीकेशन प्रा.लि.	A92572445	U22120MH1991PTC062222
163	विनको पॉली-टेक्स प्रा.लि.	A92565134	U17110MH1995PTC090742
164	पुनमिया बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	A92558865	U70100MH1995PTC092642
165	सावंत मेडीकल सिस्टम प्रा.लि.	A92513209	U33100MH1996PTC099316
166	आयकॉन प्रोजेक्ट कन्सलटंस प्रा.लि.	A92479427	U74140MH1997PTC110300
167	फ्लेअर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	A92478890	U70100MH1997PTC110612
168	पि आर टिम्बर प्रा.लि.	A92515154	U20221MH1999PTC119385
169	सर एडवर्ड डनलॉप कॉकण हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर लि.	A92504364	U85110MH2001PLC133002
170	एक्वायरस बायोव्हेचर प्रा.लि.	A92459874	U74999MH2003PTC138529
171	रिह्ल्यूएशन अग्रो प्रा.लि.	A92582444	U01110MH2006PTC160149
172	प्रोटोन लॉजीस्टिक सोल्यूशन प्रा.लि.	A92488261	U63010MH2007PTC171750
173	मुरडीया एन्ड कंपनी प्रा.लि.	A92610807	U67200MH1973PTC016567

174	अश्विन कन्सलटंट एन्ड बिजनेस सर्विसेस प्रा. लि.	A92692300	U65990MH1982PTC026243
175	संतराम टेकस्टाइल्स प्रा.लि.	A92627561	U17110MH1982PTC026748
176	मल्लीनाथ प्रॉपर्टिज एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92603802	U45200MH1993PTC073265
177	त्रिमुर्ति साउंड प्रा.लि.	A92639772	U32300MH1995PTC088540
178	जुविना कॉस्मेटिक ग्रुप प्रा.लि.	A92592963	U24246MH1995PTC089707
179	कुलदिप एक्सपोर्ट प्रा.लि.	A92638378	U51900MH1996PTC097093
180	आरबीएम ट्रेडिंग एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92593813	U74140MH1997PTC106799
181	महाराष्ट्र अल्युमिनीयम स्टिल एन्ड अलाउज लि.	A92685734	U51420MH1998PLC114886
182	हरिशिल टेकस्टाइल प्रा.लि.	A92683580	U99999MH1999PTC123391
183	इझी क्लोदिंग कंपनी प्रा.लि.	A92666361	U18101MH2001PTC133132
184	स्कार्लेट टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	A92591825	U30007MH2003PTC139273
185	गणेश डायम प्रा.लि.	A92645415	U36910MH2005PTC151292
186	इन 3डी सेस्टोस्कोपी प्रा.लि.	A92621929	U74300MH2005PTC155655
187	सिम इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	A92760362	U99999MH1987PTC044044
188	राकेश सिध्दीविनायक डेवलपर्स प्रा.लि.	A92706100	U70100MH1989PTC054226
189	कॉस्मो एक्सपोर्ट एन्ड इंपोर्ट प्रा.लि.	A92711472	U51900MH1990PTC055267
190	एसीआय एक्सप्रेस प्रा.लि.	A92756154	U60300MH2003PTC058358
191	मेगादी सर्विसेस प्रा.लि.	A92704808	U52322MH1994PTC077684
192	निर्मला गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन प्रा.लि.	A92755099	U99999MH1994PTC079562
193	केशबिंद ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92738004	U51900MH1995PTC093401
194	सुंदर बेकरी अमरावती। प्रा.लि.	A92699198	U15410MH1997PTC105501
195	ब्यु ब्लेंड इनवेसमेंट अंडव्हाइजर प्रा.लि.	A92702521	U20210MH1999PTC119923
196	नेफयुसन टेक्नॉलॉजी इंडिया। प्रा.लि.	A92706720	U72900MH2000PTC125980
197	ऑकॉर्ड नेटवर्क इंडिया। प्रा.लि.	A92757095	U72900MH2000PTC126465
198	मुंबई इंग्लंड पैसेंजर वॉटर ट्रांसपोर्ट कंपनी लि.	A92720077	U63012MH2003SGC140110

199	कोल्हापुर सिटी रोड डेवलपमेंट कंपनी लि.	A92724707	U45203MH2004SGC144697
200	लुविन रिस्टक्वरींग मैनेजमेंट कन्सलटंट प्रा.लि.	A92736040	U74140MH2004PTC145148
201	सखी फुडस् प्रा.लि.	A92729847	U15100MH2004PTC148463
202	सिटीलाईन ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92734565	U51909MH2005PTC153286
203	तर्जनी ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92757855	U51420MH2005PTC155537
204	क्रेसंट माइनींग प्रा.लि.	A92699461	U14200MH2008PTC177811
205	रग्गबी माइनींग प्रा.लि.	A92700319	U14200MH2008PTC178422
206	कॉन्ट माइनींग प्रा.लि.	A92700004	U14200MH2008PTC179161
207	राउंड माइनींग प्रा.लि.	A92699891	U14200MH2008PTC178668
208	बॉस कम्युनिकेशनस् प्रा.लि.	A92833771	U32200MH1987PTC043251
209	खैरा ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92849173	U51100MH1987PTC043762
210	त्रिशाला डेवलपर्स प्रा.लि.	A92849850	U45200MH1991PTC063979
211	रजत इन्फ्रा-कॉन प्रा.लि.	A92849108	U45200MH1992PTC069057
212	पटेल शिप एन्ड ऑफशोर रिपेअर्स लि.	A92817287	U35112MH1993PLC074877
213	गरोडिया एनर्जी सिस्टम प्रा.लि.	A92833631	U74999MH1994PTC078851
214	पारुल ऑक्सीजन सर्विसेस प्रा.लि.	A92851146	U74999MH1994PTC082323
215	होपवेल सिक्युरिटीज एन्ड फायनांस प्रा.लि.	A92836121	U67120MH1994PTC083406
216	वॉलटर बुशनेल मार्केटिंग प्रा.लि.	A92834720	U51900MH1995PTC088522
217	इंदुज ऑटो व्हेइकल प्रा.लि.	A92765973	U34100MH1995PTC092227
218	मधुकमल टाईवल प्रा.लि.	A92763705	U63040MH1995PTC093972
219	अंगुलर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	A92814102	U99999MH1998PTC113514
220	मोंटेक्स रायटिंग इन्स्ट्रुमेंटस् लि.	A92804681	U36991MH1999PLC121183
221	संघानी सिक्युरिटीज प्रा.लि.	A92814292	U67120MH2000PTC124157
222	समथिंग डिफरेंट एन्ड डायनामिक कॉन्स्पेक्ट प्रा.लि.	A92832773	U51909MH2001PTC133582
223	नोबेल ऑफशोर इंजिनिअर्स इंडिया प्रा.लि.	A92812825	U74999MH2003PTC139360

224	डी-पाम सिक्युरिटेज प्रा.लि.	A92810050	U67120MH2004PTC150063
225	रेडकॅनॉन सॉफ्टवेअर इंडिया प्रा.लि.	A92811967	U72200MH2005PTC152905
226	एम बी सी टी लर्निंग सिस्टम प्रा.लि.	A92789684	U45200MH2005PTC156980
227	एमएसए कन्सलटंट। प्रा.लि.	A92939297	U74140MH1970PTC014930
228	कुलकर्णी स्टिल एन्ड अलाउ कास्टिंग प्रा.लि.	A92926716	U99999MH1974PTC017767
229	युनिवर्सल सीटान्स लि.	A92950369	U99999MH1977PLC020046
230	सरिता इनवेसमेंट एन्ड एजन्सी लि.	A92905702	U65910MH1978PLC020541
231	विदर्भ सोलव्हेट प्रा.लि.	A92967652	U99999MH1979PTC021680
232	एडवॉंस शेअर ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92974872	U51900MH1979PTC021793
233	लमंदा इंजिनिअरिंग प्रा.लि.	A92941962	U29198MH1979PTC022003
234	खदिजा इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92941574	U99999MH1981PTC025623
235	जयंती फरनासीस् प्रा.लि.	A92914613	U31200MH1981PTC025741
236	स्पेशलीटी फोईल्स लि.	A92905405	U28120MH1981PLC025874
237	विजया मर्चंडाईज प्रा.लि.	A92971167	U99999MH1982PTC028339
238	ओसीएल केमिकल्स प्रा.लि.	A92963537	U24100MH1984PTC033375
239	निसान केमिकल्स प्रा.लि.	A92891431	U24100MH1985PTC035351
240	वॉसमार कन्सलटंट प्रा.लि.	A92953249	U74210MH1985PTC035623
241	विबग्योर फिल्मस् प्रा.लि.	A92940857	U70200MH1985PTC036276
242	श्रीनीक इनवेसमेंट एन्ड फायनांशीअल कन्सलटंसी प्रा.लि.	A92963974	U67120MH1985PTC037666
243	सनम मार्केटिंग कंपनी प्रा.लि.	A92927276	U28932MH1985PTC038359
244	रीटा आर्यन एन्ड स्टिल कंपनी लि.	A92960442	U27100MH1986PLC039549
245	फायरपॉवर एनर्जी इंडिया प्रा.लि.	A92975226	U99999MH1986PTC040361
246	शहा कंप्यूटर एन्ड कम्युनिकेशन प्रा.लि.	A92970474	U30007MH1987PTC042990
247	अनसाब डेरी फार्मस प्रा.लि.	A92929777	U01210MH1987PTC045257
248	एमपॉवर मार्केटिंग प्रा.लि.	A92927151	U70100MH1988PTC046610
249	जॉन अंशली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.	A92974864	U32200MH1989PTC050248

250	शक्ती व्हायब्रेटरी इक्युपमेंट कंपनी प्रा.लि.	A92941095	U74999MH1989PTC050607
251	इगल मुक्की प्रॉडक्शन एन्ड स्टुडीओ प्रा.लि.	A92921360	U92100MH1989PTC053308
252	हाय टेक हिट टिटर प्रा.लि.	A92949643	U99999MH1989PTC053965
253	अॅडलॅक्स फायनांस प्रा.लि.	A92910116	U65990MH1990PTC055265
254	सरस्वती बल्क कॅरीअर प्रा.लि.	A92964147	U60100MH1990PTC057869
255	गांधी एन्ड असोसीएट इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92951466	U65990MH2004PTC057960
256	आर्टिक मेटल इंडिया प्रा.लि.	A92925767	U27200MH1991PTC062768
257	कोसीवाला एक्सपोर्ट प्रा.लि.	A92939685	U51900MH1991PTC063796
258	श्री काजल आर्ट्स प्रॉडक्शन प्रा.लि.	A92947506	U92111MH1991PTC063814
259	कॉरोनेशन अॅसेटस् एन्ड कॅपिटल मैनेजमेंट प्रा.लि.	A92963842	U67120MH1992PTC064709
260	सन व्हॅली रिसॉर्ट्स प्रा.लि.	A92920065	U55101MH1992PTC068079
261	नयनस्वप्ना लिझिंग एन्ड फायनांस कंपनी प्रा.लि.	A92938927	U65910MH1992PTC068218
262	रेन्बो अॅक्झिलरीज़ एन्ड पेन्युमेंटीक इंजिनिअरिंग सर्विसेस प्रा.लि.	A92969880	U74140MH1992PTC068364
263	रॅलीया सिल्क मिल्स प्रा.लि.	A92909381	U99999MH1992PTC068703
264	दामीनी टेडिंग प्रा.लि.	A92955392	U99999MH1992PTC069830
265	सुलोक फायनांस एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92950971	U65990MH1993PTC070492
266	आर के भाटिया फायनांस प्रा.लि.	A92972298	U99999MH1993PTC072480
267	मालिनी एक्सपोर्ट प्रा.लि.	A92971845	U51900MH1993PTC073323
268	व्हिला टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92957950	U51900MH1993PTC073447
269	लिटोलियर रियल इस्टेट प्रा.लि.	A92949304	U70101MH1993PTC074642
270	मनिला इनवेसमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	A92973973	U67120MH1994PTC077263
271	विराज होल्डिंग्स प्रा.लि.	A92958172	U45200MH1994PTC078362
272	एमकेएम सिक्युरिटीज प्रा.लि.	A92928019	U67120MH1996PTC078884
273	खराज एंटरप्राइजेस प्रा.लि.	A92961515	U67120MH1994PTC083306
274	कंप्यूटर मिडीयाप्रॉडक्ट लि.	A92933423	U65990MH1994PLC083324

275	हायटेक बॉल्स एन्ड रोलर्स प्रा.लि.	A92888593	U99999MH1995PTC085412
276	अंकलेश्वर कन्सलटंसी प्रा.लि.	A92973460	U67120MH1995PTC085864
277	वैभव लाइफलाइन लि.	A92926583	U65910MH1995PLC086780
278	श्री खिडकाळेश्वर लैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	A92970235	U70100MH1995PTC087050
279	हलार मेरीटाईम एजन्सी लि.	A92953033	U63090MH1995PLC088647
280	अशोक कारपेट एन्ड फॅब्रिक्स प्रा.लि.	A92939222	U17220MH1995PTC088848
281	अनुसुया इनवेसमेंट प्रा.लि.	A92939420	U67120MH1995PTC089322
282	अल्टीमेट प्लैस्टिक एन्ड पैकिंग लि.	A92908961	U25202MH1995PLC090546
283	सिग्मा पोर्टफोलिओ लि.	A92933407	U65910MH1995PLC091691
284	डेल्टा कंप्यूटर सर्विसेस प्रा.लि.	A92869940	U72900MH1995PTC092266
285	राजतिलक लैंड एन्ड डेवलपमेंट प्रा.लि.	A92947084	U65923MH1995PTC092352
286	जे व्ही डायकेम प्रा.लि.	A92962869	U24110MH1995PTC092695
287	सोलर प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	A92947407	U45200MH1995PTC093380
288	गॅमेक एक्सपोर्ट प्रा.लि.	A92955376	U36912MH1995PTC095686
289	तत्काल कारपोरेट फायनांस सर्विसेस लि.	A92974922	U67190MH1996PLC096301
290	केसर इक्विटी प्रा.लि.	A92938356	U67120MH1996PTC098926
291	निजी हेल्थकेअर प्रा.लि.	A92947860	U33100MH1996PTC098945
292	लिंक्स ऑरो ट्रांसपोर्ट प्रा.लि.	A92932037	U63000MH1996PTC099329
293	केडीजय कॉनफीन प्रा.लि.	A92960947	U65990MH1996PTC099679
294	टॉप इन फैशन इंडिया लि.	A92925817	U99999MH1996PLC101797
295	सिपांकित रिअल इस्टेट प्रा.लि.	A92944263	U45200MH1997PTC107338
296	श्रीनाथ हायड्रोलिक्स प्रा.लि.	A92947209	U27200MH1997PTC108401
297	काल झेस ऑप्टिकल इंडिया प्रा.लि.	A92933233	U33200MH1997PTC109046
298	स्नेहल फायनांस एन्ड इनवेसमेंट इंडिया लि.	A92960871	U65990MH2003PLC110273
299	कैलीपर टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	A92951565	U51900MH1997PTC110684

300	नटवर टेडस् एन्ड एजन्सी प्रा.लि.	A92910520	U99999MH1997PTC111547
301	गेमकॉम इट सोल्युशन प्रा.लि.	A92973247	U70200MH1997PTC111916
302	पंचवटी लैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	A92962125	U45200MH1998PTC113767
303	दर्शक चिट्स प्रा.लि.	A92957034	U65992MH1998PTC114607
304	आरके फिनस्टॉक लि.	A92938984	U65990MH1998PLC116706
305	हर्षनील होल्डिंग प्रा.लि.	A92950310	U67120MH1998PTC117402
306	सर्जिटेक इक्युपमेंट प्रा.लि.	A92881028	U33110MH1998PTC117417
307	सेल इन्फोटेक सर्विसेस प्रा.लि.	A92938026	U72200MH2000PTC123924
308	अॅडो होल्डिंग्स प्रा.लि.	A92974914	U67120MH2000PTC124437
309	इ-मर्जिंग ऑनलाईन सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.	A92857416	U64200MH2000PTC124521
310	लॅनोव्हे लॅक्स प्रा.लि.	A92951540	U24240MH2000PTC124891
311	माधुरी एंटरटेनमेंट लि.	A92956010	U92130MH2000PLC125037
312	मोना फुटीस्टिस टेलीकॉम प्रा.लि.	A92958669	U32209MH2000PTC126052
313	प्रिमीयर मर्कनटाईल एन्ड सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.	A92955772	U51900MH2000PTC127189
314	साईमों मार्केटिंग प्रा.लि.	A92943471	U74992MH2000PTC129474
315	एसबीजी मार्केटिंग एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	A92919448	U74999MH2001PTC131272
316	फॅटसिया अंडररटायझिंग प्रा.लि.	A92948397	U74300MH2001PTC131819
317	एमबीसीएस कन्सलटंसी प्रा.लि.	A92944909	U74140MH2001PTC133769
318	व्हिडीओकॉन व्हीसीआर सिक्युरिटीज लि.	A92885870	U67120MH1995PLC133952
319	इस्ट सूर्या मेडिकल प्रा.लि.	A92965730	U33110MH2002PTC135315
320	पी.के. अण्णा पाटिल टेडिंग कंपनी लि.	A92928480	U51909MH2002PLC135513
321	नौका शिपिंग एन्ड लॉजिस्टिक प्रा.लि.	A92962653	U63090MH2002PTC135629
322	माधव प्रकाशन प्रा.लि.	A92973254	U22120MH2002PTC135772
323	फोरसाईट इन्फ्रास्टक्चर लि.	A92921618	U45202MH2002PLC136110
324	गुजराल सिक्युरिटी एन्ड सर्विसेस प्रा.लि.	A92919356	U67120MH2002PTC136665

325	ऑफ़रच्युन मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	A92964642	U74100MH2002PTC137361
326	एआरके फ़्लोरल टेड प्रा.लि.	A92949502	U51909MH2002PTC137432
327	पिलर हेल्थकेअर इंडिया प्रा.लि.	A92877356	U33110MH2002PTC137787
328	मेदवाईज हेल्थ सायन्स प्रा.लि.	A92891779	U24230MH2003PTC140262
329	फोरच्युन लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रा.लि.	A92937978	U51909MH2003PTC141561
330	नेटवर्क अलाईड ऑव्हीएशन प्रा.लि.	A92961523	U63013MH2003PTC141831
331	डेंट्रिक्स सोल्युशन प्रा.लि.	A92927284	U72900MH2003PTC142100
332	प्लैनेट प्लास्टिक टेडिंग प्रा.लि.	A92959170	U51495MH2003PTC142314
333	रंका फेरो एन्ड अलाउ प्रा.लि.	A92964410	U27100MH2004PTC145479
334	जीव्हीकेएन ज्वेलरी प्रा.लि.	A92915222	U36911MH2004PTC145672
335	एमरिसर्च सेंथेटीक प्रा.लि.	A92970565	U73100MH2004PTC147300
336	पार्वती ऑटोमाबाईल्स प्रा.लि.	A92959766	U34100MH2004PTC147573
337	यश कॅनप्लास्ट पैकेजिंग प्रा.लि.	A92973346	U28129MH2004PTC147896
338	ब्लैकगोल्ड प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	A92932326	U70100MH2004PTC147997
339	जीबीएस ब्रेव्हेरेजेस एन्ड फुडस् प्रा.लि.	A92932656	U27100MH2004PTC148036
340	किशनाम फाईन फॅब प्रा.लि.	A92967827	U17120MH2004PTC150062
341	स्पा स्टार्च एन्ड केमिकल्स प्रा.लि.	A92934207	U24100MH2005PTC152313
342	टेक्नो अम्युज़मेंट इंडिया प्रा.लि.	A92938422	U45200MH2005PTC152560
343	घरकुल रिअलटर प्रा.लि.	A92972744	U70100MH2005PTC152637
344	जयकुल हाउसिंग प्रा.लि.	A92971852	U45200MH2005PTC156950
345	परिसा प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	A92968775	U45200MH2005PTC157174
346	टेस्ट वन ब्रेव्हेरेजेस प्रा.लि.	A92932334	U15540MH2005PTC157318
347	सीटीअस एनर्जी लि.	A92915479	U40110MH2005PLC157403
348	ईवाईज इंडिया प्रा.लि.	A92960574	U72200MH2000PTC127496
349	स्पाईस रुट्स फुड्स प्रा.लि.	A92939404	U15111MH2005PTC158055

350	तिश्या ज्वेलरी प्रा.लि.	A92938471	U51398MH2006PTC160087
351	लिटोलिअर होटल्स एन्ड रिसॉर्ट प्रा.लि.	A92948835	U55101MH2006PTC163162
352	गिसा इंडिया प्रा.लि.	A92961671	U29199MH2006PTC165024
353	आर एन डिलर्स प्रा.लि.	A92949585	U52393MH2006PTC163215
354	ब्रिजवेस्ट कन्सलटंट प्रा.लि.	A92957729	U74140MH2006PTC163988
355	ऑफटॉन कन्सलटंट प्रा.लि.	A92938802	U72200MH2007PTC167295
356	ऑस्ट्ल इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	A92909035	U45201MH2006PTC165379
357	टमी टाईम फुड प्रा.लि.	A92947423	U15132MH2007PTC167799
358	अनीटेल मार्केटिंग प्रा.लि.	A92941442	U74900MH2007PTC169542
359	विश लक्झरी एन्ड लाईफस्टाईल प्रा.लि.	A92950484	U18109MH2007PTC170785
360	गोरक्ष लैंड डेवलपमेंट प्रा.लि.	A92973171	U01211MH2007PTC170838
361	एमव्ही रीटेल प्रा.लि.	A92950500	U70102MH2007PTC170410
362	ओरीऑन ऑईल मिल्स प्रा.लि.	A92972660	U15142MH2007PTC171715
363	इन्फोसॉफ्ट रिक्रुमेंट सोल्युशन प्रा.लि.	A92973411	U72200MH2007PTC176097
364	तनुष इन्फोटेक प्रा.लि.	A92963685	U72900MH2007PTC172798
365	इंडो एमीरेट्स बिल्डिंग सिस्टम प्रा.लि.	A92957711	U45202MH2007PTC173666
366	घै फुडस प्रा.लि.	A92904010	U15122MH2007PTC175797
367	वॉनलेस प्रॉपर्टी होल्डिंग प्रा.लि.	A92891571	U70102MH2007PTC175976

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुंबई-400002, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. कर/ईईएस-2011/560(5)/4392--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	एस आर एन संख्या SRN NO	सी आई एन संख्या
1	राधेश्याम बन्सल इंजिनिअरस् इंडिया। प्रा.लि.	B02052165	U28920MH1997PLC110280
2	रोमेल होममार्कस् प्रा.लि.	B02055606	U70102MH2003PTC140780
3	देओरीज फायनांस एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B02289874	U65990MH1995PTC090714
4	आन होल्डिंग एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B02252021	U45200MH2005PTC155623
5	ऑरोव्स्टार इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि.	B02377810	U31500MH1998PTC117214
6	आनंद मेहता रिअल इस्टेट प्रा.लि.	B02348118	U70102MH2007PTC168254
7	आरोही सेंथेटीक प्रा.लि.	B02468544	U17120MH1985PTC037614
8	बेस्ट बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B02464527	U70101MH1991PTC059796
9	ऑल-वेदर इनवेसमेंट प्रा.लि.	B02463222	U67120MH1992PTC065309
10	टेकलाईन मशीन टुल्स प्रा.लि.	B02434108	U29290MH1994PTC076307
11	सहयोग सिक्युरिटी प्रा.लि.	B02443018	U67120MH1994PTC077541
12	शिवनंदन अंग्रो लि.	B02454098	U01100MH1995PLC091904
13	एनआरआय शेअर्स एन्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रा.लि.	B02460244	U67120MH1996PTC100460
14	चिझर्स फुड लि.	B02552149	U99999MH1987PLC043303
15	रिचमैन रिऑलीटीज प्रा.लि.	B02576965	U70200MH1995PTC088730
16	पल्स इनफरमेशन सिस्टम प्रा.लि.	B02579225	U72100MH1995PTC091502
17	हार्डफैक्टस् कन्सलटंट प्रा.लि.	B02559094	U74140MH1999PTC123080
18	पी एम डेरी फार्म प्रा.लि.	B02505899	U15209MH2007PTC172434
19	महर्षी अंग्रो प्रा.लि.	B02728517	U01110MH1989PTC052895
20	परीमल केडीज सुपरस्टोअर प्रा.लि.	B02686970	U45200MH1990PTC056331
21	अपेक्षा शेअर रजिस्ट्री प्रा.लि.	B02639755	U67120MH1993PTC072005
22	स्नब्रिज कारपोरेट सोल्युशन प्रा.लि.	B02686376	U74130MH2005PTC155481
23	आडीअल ग्लोबल प्रा.लि.	B02679454	U65190MH1995PTC092294
24	मैप डिस्ट्रीब्यूटरस प्रा.लि.	B02670578	U51901MH2006PTC158724
25	जीएमएमओएस शिपिंग सर्विसेस प्रा.लि.	B02744639	U35110MH1989PTC051494
26	सोमनाथ लैंड डेवलपर्स प्रा.लि.	B02752145	U45200MH1991PTC063886
27	कन्सोलीडेटेड सर्विसेस एन्ड सिक्युरिटीज इंडिया। लि.	B02816353	U65910MH1993PLC075265
28	छोटा बाईट टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	B02768554	U72200MH2000PTC129974
29	कैज़न स्मार्ट डिस्पेन्सरीज प्रा.लि.	B02742799	U29299MH2007PTC172702
30	अंशलर डेवलपर्स प्रा.लि.	B02852432	U45200MH1989PTC054676
31	तेजभारती इनवेसमेंट एन्ड फायनांस कन्सलटंसी प्रा.लि.	B02852143	U67190MH1991PTC060591
32	एल पी टैकल एन्ड व्हील्स प्रा.लि.	B02915544	U99999MH1997PTC106997
33	इनटेको ऑटो कॉर्ड्स एन्ड रोपस् प्रा.लि.	B02861987	U27104MH1998PTC112872
34	सराह प्लास्ट टेक प्रा.लि.	B02903425	U25200MH1999PTC122236
35	मिशन हेल्थ केअर प्रा.लि.	B02926582	U85110MH2006PTC163034
36	वॉटनवबे वेब पब्लिशिंग प्रा.लि.	B02916880	U72200MH2006PTC165992
37	अनोखी देखिंग प्रा.लि.	B03010998	U51900MH1994PTC080392
38	अलंकार शेअरडील प्रा.लि.	B02991644	U65923MH1995PTC085025
39	कॉन्टीनेंटल सिक्युरिटी प्रा.लि.	B02933349	U67120MH1995PTC086991
40	इटलीनेट सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	B03009453	U72200MH1999PTC121785
41	होनेश रीक्यूटमेंट कन्सलटंसी लि.	B02945632	U74999MH2002PLC135545

42	आनंद डेवलपर्स प्रा.लि.	B03014180	U70102MH2007PTC167406
43	हरीसन्स ग्लास सेल प्रा.लि.	B03088853	U26100MH1979PTC021611
44	सीमपॉवर इंजिनिअरींग प्रा.लि.	B03036217	U40101MH1985PTC035581
45	टोवा रिबॉन्स प्रा.लि.	B03078151	U30007MH1986PTC041712
46	हिरानंदानी एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B03044047	U51900MH1988PTC048342
47	रघुकुल टेकस्टाईल प्रा.लि.	B03092061	U17120MH1992PTC065700
48	इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग वर्क डॉबिवली। प्रा.लि.	B03046950	U99999MH1995PTC094473
49	लॉर्डस् शेल्टर लि.	B03065190	U45200MH1996PLC096350
50	शिव गंगा फायनांस लि.	B03035649	U65921MH1996PLC101939
51	सीओएक्स एन्ड किंग्स इंटरनेशनल करन्सी एक्चेंज प्रा.	B03085024	U99999MH1997PTC112386
52	आर्ट्स फार्मासिट्युकल एन्ड केमीकल्स प्रा.लि.	B03088846	U24233MH1998PTC112845
53	विदीशा कन्स्ट्रक्शन एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B03064797	U45200MH1998PTC116541
54	बि.व्ही.सी होल्डिंग प्रा.लि.	B03062544	U67120MH2001PTC131318
55	होम प्लस डेवलपर्स प्रा.लि.	B03090826	U70101MH2003PTC139262
56	अप्टेक मैनपॉवर सर्विसेस लि.	B03072287	U74910MH2005PLC158450
57	सनसाई अलाउ केम प्रा.लि.	B03027075	U27100MH2006PTC160717
58	रखा कन्स्ट्रक्टर प्रा.लि.	B03119716	U99999MH1979PTC021566
59	माणके डेवलपर्स प्रा.लि.	B03129210	U70101MH1985PTC037959
60	मंगौरी केमीकल्स प्रा.लि.	B03100310	U24220MH1988PTC049671
61	फ्रेंडली होम अप्लाइन्सेस प्रा.लि.	B03127651	U52324MH1991PTC063518
62	आरको प्रेटोप्रॉडक्ट प्रा.लि.	B03113560	U25200MH1991PTC064370
63	हिमगीरी इस्टेट एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B03127198	U45202MH1994PTC080616
64	समदर्शी अंग्रेटेक प्रा.लि.	B03106705	U01119MH1995PTC084419
65	ब्ल्यू स्काय अंग्रेटेक प्रा.लि.	B03114204	U01111MH1995PTC084420
66	परंपरा अंग्रेटेक प्रा.लि.	B03116472	U01111MH2004PTC084421
67	गोलाता स्पुनटेक्स लि.	B03118627	U17120MH1997PLC111236
68	अनु मलिक म्युझिकल प्रोड्यूसर प्रा.लि.	B03116134	U92110MH1999PTC118586
69	प्राची मर्कटाईल एन्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B03115383	U51900MH1999PTC121997
70	सलासर फोरव्युन मार्केटिंग इंडिया। प्रा.लि.	B03133550	U51430MH2001PTC132836
71	शुभम क्रियेशन प्रा.लि.	B03126356	U17291MH2005PTC153507
72	आयओपीएस इंजिनिअरींग सर्विसेस प्रा.लि.	B03136132	U74210MH2005PTC154886
73	शीला राज केमीप्लास्ट टेडर्स प्रा.लि.	B03142155	U51496MH1992PTC066989
74	शार्प प्रोटेक्ट प्रा.लि.	B03142023	U74999MH1993PTC073525
75	एडकॉन मर्कटाईल लि.	B03148350	U65990MH1995PLC095345
76	टिलिंग मार्केटिंग प्रा.लि.	B03235413	U51900MH1985PTC037694
77	फ्लोरोसंट टयुब्स एक्सपोर्ट इंडिया। प्रा.लि.	B03192663	U31200MH1991GAT061824
78	श्री सॉफ्टवेयर एन्ड अलाईड इंडस्ट्रीअल सर्विसेस प्रा.लि.	B03213063	U72100MH1992PTC068410
79	साजन प्लास्टिक प्रा.लि.	B03186624	U25209MH1994PTC079714
80	कोरडे टेक्निकल सर्विसेस प्रा.लि.	B03189180	U74220MH1994PTC083769
81	स्विटटैक रिलटी प्रा.लि.	B03194032	U70100MH1995PTC095430
82	जोसेफ फायबर ग्लास प्रा.लि.	B03219730	U26102MH1996PTC098448
83	इंदम टेलीकॉम कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	B03173754	U64200MH1997PTC112225
84	क्विनस इंडस्ट्रियल फॅब्रिक प्रा.लि.	B03205630	U18101MH1998PTC116803

85	मेगा मोशन इन्फोटेक प्रा.लि.	B03173390	U72100MH2000PTC129227
86	ओरीओन होम मेकर्स बिल्डकॉन प्रा.लि.	B03214509	U45102MH2001PTC130310
87	फोकल टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	B03184504	U72900MH2001PTC132509
88	मेगा मोशन स्टयुडीओ प्रा.लि.	B03175338	U92132MH2001PTC133328
89	नेटीव्यु इन्फोटेक प्रा.लि.	B03215126	U72900MH2005PTC155474
90	कारपोरेट डेन्टल प्रैक्टिस प्रा.लि.	B03188679	U85120MH2007PTC171584
91	डी एन श्राफ एन्ड कंपनी प्रा.लि.	B03297413	U51109MH1947PTC005699
92	बॉम्बे लाइन्सड मेश्युअरस लि.	B03250834	U74140MH1964PLC012855
93	दत्त टेडर्स प्रा.लि.	B03271095	U24100MH1964PTC012890
94	कुर्ला कॅप्स एन्ड क्लोजर्स प्रा.लि.	B03301314	U21010MH1981PTC024403
95	मायको मेकॅनीकल इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	B03248309	U29290MH1982PTC028948
96	ऑरेंज मिडिया प्रा.लि.	B03296779	U74999MH1983PTC031276
97	गोदावरी प्रॉपर्टि ओनर्स प्रा.लि.	B03258274	U70100MH1986PTC041630
98	कॉन्स्टे-टेक नाशिक प्रा.लि.	B03317393	U70100MH1988PTC050039
99	नवीन कंटेनर लाईन्स प्रा.लि.	B03329224	U60210MH1992PTC066778
100	इम्बु लिझींग एन्ड फायनांस प्रा.लि.	B03312485	U65910MH1993PTC075323
101	योली फार्मस एन्ड रिसॉर्ट लि.	B03265865	U45202MH1994PLC076110
102	निर्सग टायवल प्रा.लि.	B03293214	U63040MH1994PTC076373
103	टिट बिट स्पाईस इंडिया। प्रा.लि.	B03280369	U15130MH1994PTC083579
104	आवा कम्युनिकेशन इंडिया। प्रा.लि.	B03327152	U64200MH1995PTC091225
105	टेक्निकॉम इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि.	B03317138	U64200MH1995PTC092376
106	प्रेमा कैरिअर्स प्रा.लि.	B03298114	U63010MH1995PTC092840
107	जीनेसीस इंटीग्रेटेड सर्विसेस प्रा.लि.	B03294279	U74300MH1995PTC093461
108	केझन कम्युनिकेशन प्रा.लि.	B03306107	U92110MH1995PTC095025
109	विनिमन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड स्टिल कंपनी लि.	B03328416	U99999MH1996PLC103014
110	लहरी डिस्ट्रिब्यूटर प्रा.लि.	B03314473	U29210MH1998PTC114629
111	पारको इन्फोटेक प्रा.लि.	B03304672	U72100MH1999PTC122111
112	अविस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	B03290210	U67190MH1999PTC123085
113	सिमलेस कनेक्शन इंडिया। प्रा.लि.	B03330529	U64200MH2000PTC127600
114	प्लॅनेट बी4बी कॉम प्रा.लि.	B03327764	U72200MH2000PTC129735
115	कॅट सोल्युशन इंडिया। प्रा.लि.	B03239381	U72200MH2000PTC130146
116	मारकुएस्ट शिपिंग सर्विसेस प्रा.लि.	B03302361	U63012MH2001PTC132179
117	निसर्गस् पॅराडाईज सफारी प्रा.लि.	B03259991	U63034MH2002PTC137789
118	उनाडकट कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B03263019	U45200MH2004PTC146307
119	नाशिक विंडफार्मस लि.	B03316817	U40100MH2004PLC146661
120	श्री एस चौधरी टायवल प्रा.लि.	B03299906	U63040MH2004PTC149499
121	लक्ष्मी मेरीटाईम कन्सलटंसी प्रा.लि.	B03250149	U74210MH2005PTC150700
122	12इनेट इंडिया। प्रा.लि.	B03309176	U64200MH1999PTC121526
123	श्री ज्वेलरी टेडिंग प्रा.लि.	B03274065	U52393MH2006PTC162870
124	इनलो इंडस्ट्रीअल टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	B03332087	U25209MH2008PTC177295
125	दुवर्थ सिक्युरिटी एन्ड इनवेसमेंट लि.	B03309945	U65993MH2008PLC179074
126	पुमेड रिअलटर्स प्रा.लि.	B03305034	U45202MH2008PTC177594
127	उर्जाकुर किसान विर पॉवर कंपनी लि.	B03306065	U40101MH2008PLC180289
128	पी एस इपेक्स प्रा.लि.	B03403557	U51900MH1982PTC027591

129	मैग्नम स्तिलस प्रा.लि.	B03384047	U27106MH1983PTC031014
130	पराग सेल्स प्रा.लि.	B03350048	U51900MH1988PTC049266
131	रेड बुड डेवलपर्स प्रा.लि.	B03371564	U92400MH1988PTC049367
132	निकुंज बिल्डर्स प्रा.लि.	B03417953	U45202MH1989PTC052808
133	मास्टर सिंटेक्स प्रा.लि.	B03426343	U17120MH1990PTC057833
134	प्रमोद ओवरसीज प्रा.लि.	B03343068	U51900MH1992PTC068622
135	पेनीनसुला होल्डिंग एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B03419298	U67120MH1994PTC077016
136	कुसुम इनफीन प्रा.लि.	B03344587	U45200MH1994PTC080075
137	मैग्नम सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	B03389368	U01120MH1995PTC090669
138	प्रतिक इन्फोटेक प्रा.लि.	B03347788	U51505MH1996PTC100376
139	सेझ प्रोजेक्ट लि.	B03399557	U67190MH1996PLC101326
140	कार्ला होलीडे रिसॉर्ट प्रा.लि.	B03404290	U55101MH1996PTC104234
141	इंडिया फ्लोअर केअर एन्ड अप्लाएन्सेस लि.	B03396942	U29304MH1997PLC107701
142	सेठी कमोडिटीज प्रा.लि.	B03418084	U92200MH1997PTC109659
143	आडियल ऑटोटेक सर्विसेस प्रा.लि.	B03388709	U50100MH1998PTC115470
144	प्रमोद टेकस्टाईल इंडिया प्रा.लि.	B03351012	U51311MH1999PTC120135
145	इशी डायमंड प्रा.लि.	B03361177	U36912MH2000PTC126053
146	कपुर एन्ड कौशिक इंटरटेनमेंट प्रा.लि.	B03407046	U92110MH2000PTC128246
147	मैजीक मिडिया केबल नेटवर्क प्रा.लि.	B03404043	U72900MH2000PTC129511
148	सारन कर्मशीअल सेंटर प्रा.लि.	B03383890	U51311MH2001PTC131104
149	अलटेक्स पेंट एन्ड पैकेजिंग प्रा.लि.	B03371028	U21014MH2001PTC134081
150	शिवम् एक्झीम प्रा.लि.	B03366309	U51909MH2004PTC145993
151	लाईफब्रीज हेल्थ एन्ड बायोटेक प्रा.लि.	B03386976	U24230MH2004PTC148552
152	वननेचर व्हेचर प्रा.लि.	B03333747	U74999MH2005PTC151383
153	श्रेयी सैन्थेटीक प्रा.लि.	B03406667	U17120MH2005PTC155595
154	हेझयागॉन ऑईलको प्रा.लि.	B03402666	U11200MH2005PTC157813
155	स्केलर सॉफ्टवेयर सोल्युशन प्रा.लि.	B03350923	U72900MH2006PTC159226
156	व्हीआरए1 डेवलपर्स प्रा.लि.	B03417821	U45200MH2006PTC160997
157	नाटय मंदार प्रा.लि.	B03406519	U92140MH2007PTC170541
158	डल्यूएससी व्ही पुने बार रियलटी इंडिया प्रा.लि.	B03408614	U70200MH2007PTC166926
159	फोरसाइट टेक्निकल्स प्रा.लि.	B03411915	U67120MH2007PTC175290
160	डी.बेन्टली वॉच एन्ड ज्वेलरी प्रा.लि.	B03365087	U33300MH2008PTC179982
161	दायडंट मेटल प्रोफाईल्स प्रा.लि.	B03473741	U27200MH1973PTC016232
162	रिद्धि सिद्धि टेकस्टाईल लि.	B03504735	U17120MH1973PLC017029
163	रिमा स्ट्रेंप्स प्रा.लि.	B03499712	U33302MH1982PTC027740
164	पी.एस.ऑफशोर इंटरलैंड सर्विसेस प्रा.लि.	B03438918	U74210MH1982PTC028211
165	म्युलटॉनिक्स प्रा.लि.	B03503026	U32200MH1989PTC050903
166	चेतना हाउसिंग फायनांस कंपनी प्रा.लि.	B03498789	U65922MH1989PTC051527
167	महाराष्ट्र ऑरगॅनो केमिकल्स प्रा.लि.	B03511615	U24100MH1993PLC072084
168	कॉव्हिना एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	B03490794	U51900MH1993PTC074322
169	तोबायज इनवेस्टमेंट प्रा.लि.	B03494002	U65990MH1993PTC075118
170	गगनगिरी रियलटर्स बॉम्बे प्रा.लि.	B03448024	U45200MH1994PTC076815
171	इंटीडोक्शन एक्सपोजन प्रा.लि.	B03501079	U74300MH1994PTC080442

172	सदाकन प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B03473279	U70101MH1994PTC080650
173	ओमभारती ऑटोबेस प्रा.लि.	B03471927	U01110MH1995PTC087071
174	सरोवर स्टक्चर्स प्रा.लि.	B03452158	U45200MH1995PTC087251
175	ऐनीटाईम मनी कॅपीटल एन्ड फायनांस लि.	B03463379	U65923MH1995PLC092775
176	आर्डी इक्विफीन प्रा.लि.	B03477627	U67120MH1995PTC092980
177	फोकस व्युह प्रा.लि.	B03461894	U92110MH1995PTC093156
178	लक्ष्मणराव यादव लिझिंग एन्ड फायनांस कंपनी प्रा.लि.	B03502150	U65920MH1995PTC094119
179	बिंदर इनवेस्टमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	B03468303	U65990MH1997PTC106014
180	इनवेस्टार न्युज सर्विसेस प्रा.लि.	B03471190	U22120MH1997PTC112181
181	स्पीडलिक शिपिंग एजन्सी प्रा.लि.	B03496452	U63090MH1998PTC113407
182	कार्बन इन्स्पेक्ट इंडिया प्रा.लि.	B03455151	U73100MH1999PTC118185
183	अदविका कारपोरेट सर्विसेस प्रा.लि.	B03518305	U99999MH1999PTC119392
184	अशोका शुगर मिल्स प्रा.लि.	B03524402	U15420MH1999PTC121523
185	विनस बैरल सप्लाय कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03475746	U28129MH1999PTC121559
186	मास्टर माइन्ड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B03479987	U74300MH2000PTC128562
187	इन्टेलप्रो एज्युकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03519998	U72200MH2001PTC132335
188	ऑटोस्क्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03449410	U24223MH2003PTC143352
189	राजदेवी ऑटो सप्लाय लिमिटेड	B03501913	U50500MH2004PLC144765
190	कस्प अंडरव्हायरजींग प्राइवेट लिमिटेड	B03441987	U74300MH2004PTC147551
191	राज अंवीशन इंडिया लिमिटेड	B03503315	U63033MH2005PLC154069
192	विनव फूड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	B03518222	U99999MH1984PLC033607
193	श्रीराज फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03506698	U99999MH2005PTC158062
194	रोमन पॅकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03470291	U51102MH2006PTC164174
195	एस के डी शिपींग एजन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B03431921	U61100MH2007PTC170345
196	एमटीएम एन्टरटेनमेन्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03489614	U52100MH2007PTC173371
197	शाहफाया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03502259	U52300MH2007PTC174871
198	अजंता प्रिन्ट आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03465614	U22219MH2007PTC176277
199	सनशाइन मेटल अन्ड अलॉइज इंडस्ट्रीज प्राइवेट	B03562097	U27200MH1980PTC022499
200	फिट्रीट ट्रेडिंग अन्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03538501	U65990MH1980PTC022784
201	चोखानी मशीनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03557147	U29290MH1981PTC024590
202	प्रेस्टो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03604113	U25209MH1981PTC025899
203	मासूम इन्वेस्टमेन्ट अन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03570678	U67120MH1984PTC033462
204	वॉटर एंड इंजिनिअर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03585015	U29120MH1985PTC037084
205	विडीयोझोन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	B03611639	U67190MH1986PTC041284
206	मार्वल ग्लोबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03618675	U99999MH1986PTC041781
207	फिन ओ केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03585296	U99999MH1988PTC048257
208	सुर्या कान्ती सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B03567732	U24292MH1989PTC053461
209	जयंत वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03586450	U27200MH1989PTC054022
210	श्रेयस कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03611167	U36911MH1990PTC055149
211	प्लास्टकॉन इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	B03604188	U74210MH1991PTC061189
212	मधु मार्क प्रॉडक्ट्स अन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03559374	U65990MH1991PTC061292
213	सरन ऑटो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03611456	U01110MH1991PTC063392
214	महेश्वरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03620689	U15200MH1992PTC065162
215	खारा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03590742	U51900MH1992PTC066595

216	सीता सिक्युरिटीज अँड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03575248	U74920MH1994PTC080463
217	साई शिरडी ली फिन प्राइवेट लिमिटेड	B03619871	U65990MH1994PTC083346
218	व्रीजल बिझिनेस सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03545217	U67120MH1995PTC093991
219	बॉम्बे गॅस केबलकॉम प्राइवेट लिमिटेड	B03538469	U51900MH1995PTC095553
220	इबीस मार्केटींग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03573268	U51109MH1996PTC098792
221	विदर्भा अल्कोहल लिमिटेड	B03558905	U99999MH1997PLC105553
222	शंभू मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B03544327	U51900MH2000PTC124546
223	विआर टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	B03612942	U72200MH2000PTC129138
224	ऑलवेर पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड	B03623543	U65993MH2004PTC132095
225	ज्युपीओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	B03612900	U72900MH2001PTC132316
226	कार्टेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03617537	U36911MH2002PTC136236
227	केन्स टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	B03582376	U30009MH2002PTC138012
228	इन्डास्ट आयएमडब्ल्यू शिपार्ड प्राइवेट लिमिटेड	B03550175	U35110MH2003PTC139008
229	एसीसी इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	B03595238	U72900MH2003PTC139519
230	श्रीपती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03624806	U51909MH2004PTC147058
231	मेटाडायनॅमीक्स लाइफ सायन्सेस लिमिटेड	B03611787	U24230MH2004PLC148134
232	सोलाना क्वाण्टस प्राइवेट लिमिटेड	B03618808	U74994MH2005PTC155008
233	पॅनोरामा फाउंडेशन एज्युकेशन प्राइवेट लिमिटेड	B03610102	U80200MH2005PTC155981
234	ठक्कर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03579182	U70100MH1983PTC029725
235	धंगाला इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03595394	U65990MH1990PTC057943
236	जबी लॉजीस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03589033	U61200MH2007PTC176119
237	सिल्वर स्पून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	B03642279	U15410MH1985PTC035728
238	जिप्सी फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03639457	U36100MH1986PTC041962
239	युरो ग्लास मशीनरीस प्राइवेट लिमिटेड	B03643145	U29290MH1991PTC061827
240	मैंगी मेरीटाइम कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03627270	U74140MH1991PTC061840
241	नाम ऑक्टेटेक्चर अँड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड	B03637360	U74300MH1999PTC117852
242	गोपीया इन्टैरीयर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03640471	U74210MH1999PTC122119
243	इनोवीजन्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	B03639671	U72200MH2000PTC126748
244	फलेमींगो इन्टरनॅशनल प्राइवेट लिमिटेड	B03636487	U51900MH2000PTC127665
245	इन्टरनॅशनल एक्सप्रेस कन्टेनर्स लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03631025	U99999MH2001PTC134187
246	कॅटलीस्ट डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03633914	U72300MH2002PTC136897
247	नरेन्द्रा एन पंकज रोलर बेरींग्स प्राइवेट लिमिटेड	B03650942	U99999MH1980PTC023432
248	स्वस्तीक वायपर प्राइवेट लिमिटेड	B03654712	U51900MH1991PTC062612
249	लक्ष्मी पती इन्वेस्टमेन्ट्स अँड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	B03654001	U65990MH1991PTC063440
250	सुमंगल फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03654597	U65944MH1991PTC063441
251	सत्यम फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03654969	U65944MH1991PTC063467
252	क्योसेरा साउंडप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03644366	U25209MH1991PTC063790
253	रिदी सिद्धी फिन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03654506	U67120MH1991PTC064410
254	लोटस फिन्वेस्ट बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	B03653821	U67120MH1991PTC064411
255	ओजस फिनान्स अँड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03654415	U65910MH1991PTC064566
256	ब्लैन्को ऑसेटस अँड कॅपिटल मैनेजमेन्ट प्राइवेट	B03653326	U67120MH1992PTC064710
257	निर्मोह इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03654290	U65990MH1992PTC064833
258	निखर्व इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03654175	U67120MH1992PTC065160

259	चारुदत्ता फिनान्स अँड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03653482	U99999MH1992PTC065174
260	रॉयल स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03654381	U36998MH1999PTC123158
261	वर्तक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03655271	U51900MH2000PTC123453
262	साल्ज क्लब बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	B03655321	U85190MH2002PTC135534
263	स्मीत आउटसोर्सिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03646221	U72900MH2004PTC144269
264	गुजराल ऑटो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	B03647278	U51410MH2005PTC155874
265	आय2आय सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03655396	U30007MH2003PTC141229
266	साइआस्था कमोडीटीज अँड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03650975	U74930MH2007PTC171434
267	सैम नीटस प्राइवेट लिमिटेड	B03752748	U18100MH1977PTC019944
268	कोरेगाँव पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड	B03706637	U25200MH1982PTC027341
269	डायकॉन टेक्नॉकॉटस प्राइवेट लिमिटेड	B03783990	U74210MH1982PTC027816
270	मार्क सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03778396	U51496MH1986PTC038653
271	सिगनेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03737194	U28920MH1986PTC039081
272	मुरुगन शिपींग प्राइवेट लिमिटेड	B03744554	U17120MH1986PTC041645
273	मेरी मॅगडालेन हाउसींग कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03775343	U99999MH1987PTC042617
274	मार्कस कन्ट्रोल्स अँड एक्वीपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03728888	U32100MH1987PTC043805
275	स्पेक्ट्रम अँडमार्क प्राइवेट लिमिटेड	B03768108	U72300MH1988PTC048025
276	मोनाली कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03740693	U45200MH1989PTC050343
277	प्रेम बिल्डवेल टेक्नोक्रेटस प्राइवेट लिमिटेड	B03760584	U70102MH1989PTC052624
278	मर्चेंट शु बाज़ार प्राइवेट लिमिटेड	B03688082	U51310MH1990PTC057538
279	चंद्रप्रभा टेक्नीकल अँड फिनान्सीयल कन्सलटन्ट्स	B03776713	U67190MH1992PTC070150
280	चॅनेल फिनान्सीयल कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03771136	U67190MH1993PTC072717
281	एन्चीको एक्सपोर्ट्स हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03776135	U51900MH1993PTC074805
282	सन्तक्रीपा कन्स्ट्रक्शन अँड हाउसींग डेवलेपर्स कंपनी	B03748910	U45202MH1993PTC075706
283	तवीशा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03770302	U51900MH1994PTC076162
284	रश्मी झवेरी कॉपिटल कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B03682572	U74140MH1994PTC079728
285	एक्सप्रेस सिक्युरिटीज लिमिटेड	B03755329	U67120MH1994PLC082883
286	बत्रा गुलाटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	B03717451	U85622MH1995PLC085622
287	घनेशनिवास प्रॉपर्टीज बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	B03738705	U70101MH1995PTC085814
288	मास्टरबिल्ड कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03722907	U45200MH1995PTC086283
289	कार्वेल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03717972	U45200MH1995PTC086314
290	येनॉम कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03723418	U70100MH1995PTC086346
291	तकीला कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03723178	U70100MH1995PTC088087
292	आहन फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03780723	U67190MH1995PTC089124
293	वस्त्र मार्केटींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03784444	U33204MH1995PTC089945
294	भैरव फॅशनस प्राइवेट लिमिटेड	B03778214	U18100MH1995PTC090355
295	शाइना एक्झीम प्राइवेट लिमिटेड	B03739455	U51909MH1995PTC090487
296	प्रसाद टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड	B03768827	U64200MH1995PTC090864
297	प्रॉस्पेरस मर्कन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड	B03725694	U51900MH1995PTC091586
298	वसुदेव प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03689718	U70100MH1995PTC091851
299	अप्लाय कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03777729	U74300MH1995PTC093174
300	मेट्रो रिऑलिटी प्राइवेट लिमिटेड	B03689361	U70100MH1995PTC093758
301	तृप्ती ट्रेवेल हाउस लिमिटेड	B03761012	U60220MH1996PLC102665
302	न्यु लाइफ स्टील स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03735008	U99999MH1996PTC103553

303	श्रीराम स्टॉक अँड शेअर ब्रोकर्स लिमिटेड	B03743259	U67120MH1997PLC105335
304	ऑगस्ट हॉलीडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03777703	U55100MH1997PTC109696
305	निशान्त बॉल बेअरींग्स प्राइवेट लिमिटेड	B03783412	U24130MH1998PTC115436
306	आव्रो ऑडीयो कंसटस प्राइवेट लिमिटेड	B03701307	U32300MH1998PTC115497
307	ट्रान्सपैक कॅरीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03749496	U63090MH1999PTC120142
308	अमृता एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03776119	U51900MH1999PTC121698
309	युनिटी अडवर्टायज़िंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03755899	U74300MH1999PTC121952
310	क्नाव कन्सलटींग प्राइवेट लिमिटेड	B03754025	U74140MH1999PTC122201
311	एरोकेअर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	B03769197	U63090MH1999PTC122264
312	रिगल मिलेनियम मर्कडाइज प्राइवेट लिमिटेड	B03747631	U51900MH2000PTC125349
313	इन्टेलीसीस इंडिया लिमिटेड	B03706975	U52392MH2000PLC126150
314	मल्टीलिंग इन्डसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03780293	U72200MH2000PTC128547
315	बिल्डकॉन सोल्युशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03690344	U72200MH2000PTC129033
316	एन एस शेट्टी लॉजीस्टीकस प्राइवेट लिमिटेड	B03729738	U63090MH2001PTC132290
317	पूजा बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03782141	U15412MH2001PTC132709
318	ट्रेडी फिनान्स कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03775236	U67190MH2003PTC138941
319	श्रद्धा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	B03773256	U51398MH2004PTC145319
320	आहना डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03775426	U45200MH2004PTC146072
321	सन्सॉफ्ट मर्कन्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03767027	U51909MH2004PTC149244
322	ट्रयु गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03767308	U51909MH2004PTC149371
323	सुमधुर हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03753290	U55100MH2005PTC152388
324	रुतु फुड्स प्राइवेट लिमिटेड	B03770567	U15100MH2005PTC155266
325	बायोसीक डायबेटीस केअर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03677317	U85195MH2002PTC137667
326	ट्रावेलमेट रीप्रेजेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड	B03700622	U63040MH2006PTC160754
327	गेटवे फंड अँडवीजर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03688066	U74140MH2006PTC160948
328	प्रॉल टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	B03707569	U74300MH2006PTC164148
329	एचएन टेक प्राइवेट लिमिटेड	B03712957	U72900MH2006PTC165493
330	कल्पवृक्ष डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03695467	U45201MH2006PTC166356
331	ऑपेरा वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03779865	U15532MH2007PTC170025
332	भन्साली एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	B03778446	U15543MH2008PTC178802
333	स्कील टुरीजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	B03725579	U63040MH2007PTC169606
334	स्कील वॉटर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03724879	U74999MH2007PTC170546
335	एज वेब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03702883	U72900MH2007PTC176692
336	हिन्दुस्तान मॅटेरीअल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03840196	U29280MH1954PTC009209
337	बॉम्बे ऑटो अँन्सीलरी अँड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03872280	U29130MH1976PTC019000
338	देवांग टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03867710	U17100MH1978PTC020240
339	ला टेकनीक इंजिनिअर्स अँड कन्सलटन्ट्स प्राइवेट	B03885969	U99999MH1982PTC026195
340	इरीस एक्सपोर्ट्स अँड प्लेसमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट	B03841665	U51900MH1983PTC030486
341	ब्रॉडवे इन्वेस्टमेन्ट अँड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03822103	U67120MH1984PTC033704
342	भावेश पॉली-प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03897972	U25200MH2004PTC034031
343	सन्जू इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03878378	U67120MH1986PTC039168
344	दीपडील प्राइवेट लिमिटेड	B03847662	U99999MH1987PTC045266
345	दत्तानी इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03891132	U65990MH1988PTC045852

346	राजेन्द्रा पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड	B03807336	U22100MH1988PTC046989
347	संजय फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03886819	U17110MH1988PTC049082
348	मनीष पॉलीस्टर फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03893013	U17120MH1989PTC050410
349	ओगले मेटलटेक प्राइवेट लिमिटेड	B03892536	U28930MH1989PTC052220
350	आहुरा माझदा कॉम्प्यु-कीएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03850237	U99999MH1990PTC056739
351	मनीषा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03820107	U65990MH1990PTC056927
352	म्हनीत एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03887288	U51900MH1990PTC057559
353	कानमूर फूड्स लिमिटेड	B03861788	U15100MH1991PLC060075
354	दालचंद ट्रेडिंग अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03851656	U51900MH1991PTC060244
355	सुरुची प्लास्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03891934	U25200MH1991PTC063090
356	वैद्य कन्स्ट्रक्शन्स बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड	B03889995	U45200MH1992PTC065038
357	आर्यन कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03840741	U74210MH1992PTC065362
358	मास्टरपीस अंडव्हाटायजींग प्राइवेट लिमिटेड	B03829330	U74300MH1992PTC065992
359	रोशन सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B03800661	U65990MH1993PTC070389
360	म्हो-केबल अक्सेसरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03789781	U31300MH1993PTC071350
361	ऑमटेक कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03892858	U45200MH1993PTC071575
362	बी अँड अे केमिकल्स लिमिटेड	B03822087	U24110MH1993PLC073067
363	इफटेक्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03872629	U51900MH1994PTC077988
364	नेस्को इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03847126	U67120MH1994PTC081371
365	ज्वेल प्लैन्टेशन्स लिमिटेड	B03829157	U01110MH1994PLC082478
366	श्री सर्वेश फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	B03865458	U01220MH1995PTC085451
367	कॉम्प्युकार्ट फर्नीचर्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B03893807	U36100MH1995PTC087013
368	सीग्मा टेलिकॉम प्राइवेट लिमिटेड	B03868296	U74999MH1995PTC088999
369	नाटेल्को सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B03867298	U99999MH1995PTC089022
370	ओम्नी इंजिनिअरींग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03811460	U28920MH1995PTC089070
371	अमीत कॉलेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03884574	U51900MH1995PTC089219
372	मुन्शी इन्वेस्टमेन्ट्स अँड लिजींग प्राइवेट लिमिटेड	B03817848	U65900MH1995PTC089631
373	श्री धन्तकर्ना फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03820008	U67120MH1995PTC089632
374	राशी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B03859733	U36911MH1995PTC090507
375	नासू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03824513	U70100MH2003PTC096194
376	अॅस्टले फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03811874	U67120MH1996PTC100302
377	इन्द्रापुरी मेडीकल डायग्नोसीस अँड रिसर्च प्राइवेट	B03839941	U99999MH1996PTC103782
378	कुलकर्णी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03798303	U70100MH1997PTC105967
379	भायन्ट ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड	B03884236	U72100MH1998PTC115339
380	जॅम-ए-जमशेद पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03848421	U22129MH1998PTC115478
381	अमर बिल्ट कॉन प्राइवेट लिमिटेड	B03866944	U70100MH1999PTC118099
382	प्युअर फलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03871662	U28920MH1999PTC122156
383	प्रथम मिडीया एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03878501	U92140MH1999PTC123025
384	रॉयल मिलेनियम मर्कन्टाइज प्राइवेट लिमिटेड	B03840162	U51900MH2000PTC125353
385	मॅटीज रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03800943	U70100MH2000PTC125394
386	बिएसअे एक्विडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03785607	U17120MH2000PTC126779
387	प्रथमेश रेसिडन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B03819042	U70100MH2000PTC126885
388	सुयश क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड	B03868858	U80903MH2000PTC129191
389	एम सी एस एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	B03880119	U63090MH2002PTC134911

390	अलायन्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	B03883931	U51909MH2002PTC135833
391	जय हस्ती लैन्ड डेवलेपर्स अँड बिल्डर्स प्राइवेट	B03866746	U45201MH2002PTC136919
392	ब्लुओम मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B03839313	U51909MH2002PTC137203
393	निकेता मार्क कॉनसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03880507	U51909MH2002PTC137755
394	मिडीयेटर्स पॉवर डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	B03857968	U31200MH2003PTC141034
395	नीश गेम्स प्राइवेट लिमिटेड	B03864790	U51398MH2003PTC141248
396	मँजीक मिडीया कन्जुमर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03864733	U74300MH2003PTC142402
397	श्री अंश ब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03860012	U26910MH2003PTC143104
398	ओबेडीयन्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03807815	U45200MH2004PTC144696
399	ग्लोरीया शिपींग प्राइवेट लिमिटेड	B03805686	U35100MH2004PTC145522
400	एक्सपो स्टीलेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03866639	U27100MH2004PTC146754
401	नाशिक लाइफ-स्कैन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	B03814522	U85195MH2004PTC146964
402	विदेश इन्फोटेक लिमिटेड	B03810504	U72900MH2004PLC148593
403	वलजी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B03843018	U67120MH2004PTC149309
404	राजयोग रेस्टोरन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03883881	U55100MH2004PTC150081
405	अन्नपूर्णा हॉस्पिटैलीटीज प्राइवेट लिमिटेड	B03832110	U55100MH2005PTC152301
406	मेटीस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	B03890324	U30000MH2005PTC154063
407	सिस्टम्स अंशुरन्स इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	B03875218	U72900MH2005PTC154692
408	वैल्यूअड्ड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	B03821964	U92100MH2005PTC154737
409	सिरा लैब प्राइवेट लिमिटेड	B03834561	U51397MH2005PTC155235
410	सगुण गेम अँड एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03842275	U92190MH2005PTC156538
411	नाइल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड	B03866415	U51228MH1999PTC120546
412	मान बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03831294	U45200MH2002PTC137657
413	अर्नव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03813433	U51900MH2006PTC159016
414	प्रोजोन थाने डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03877560	U70100MH2006PTC159710
415	प्रोजोन मॉल मैनेजमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03877057	U70100MH2006PTC160957
416	स्वॉन मेरीटाइम सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03840980	U93090MH2006PTC164575
417	समर्थ अल्कलीज अँड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03805074	U24232MH2007PTC170643
418	बाबा गोल्ड डिजीटल सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड	B03867157	U74900MH2008PTC180107
419	पावशे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03909264	U51900MH1977PTC019581
420	मनिक्य एक्सपोर्ट्स अँड कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03912615	U51900MH1980PTC022243
421	कॅनमोर इन्वेस्टमेन्ट अँड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	B03916533	U65990MH1981PTC025023
422	झुफार कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03908902	U45200MH2004PTC028359
423	रतनटेक्स फॅब्रीक्स लिमिटेड	B03906583	U99999MH1985PLC035843
424	सइमेग हाय-टेक फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03898285	U29290MH1989PTC053343
425	टिफनी डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03919545	U99999MH1994PTC076748
426	अल-तारा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	B03907831	U45201MH1995PTC085612
427	पिपल्स प्लैनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03911633	U74910MH1997PTC109388
428	बलबीर इंजिनिअरींग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	B03923521	U29100MH1997PTC112528
429	ज्युनिअरबड्स कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03916921	U72900MH2000PTC129737
430	नायसा कॉम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03902202	U52392MH2004PTC145756
431	राइटशॉप मर्कन्टाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B03911690	U51909MH2005PTC152618
432	एमबीएम मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B03914834	U51900MH2006PTC159407

433	रिअल एक्सोटीका ज्युसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03921301	U15134MH2007PTC174216
434	हरबन्सलाल अगरवाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03962792	U51900MH1947PTC005890
435	दी सिलीकॉटस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03964202	U24130MH1954PTC009245
436	कमुंजा फिल्डस प्राइवेट लिमिटेड	B04042859	U99999MH1950PTC010476
437	अलाइड पेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	B04015863	U24100MH1981PTC024191
438	के एस जे फूड्स अँड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04044053	U15410MH1981PTC024235
439	सायबरटेक अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	B03996378	U27100MH1982PTC026002
440	आशा कन्स्ट्रक्शन अँड इंजिनिअरींग कंपनी प्राइवेट	B03950748	U45200MH1983PTC029825
441	सुरज वेवर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04013736	U17120MH1984PTC032430
442	निकू टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03930427	U99999MH1985PTC035272
443	मखिजा प्लास्टोपैक प्राइवेट लिमिटेड	B04020376	U99999MH1985PTC036694
444	थापर सन्स कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03998903	U99999MH1985PTC037595
445	दी बैरन केमटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B03927134	U29250MH1986PTC038672
446	हायटेक टेप्स प्राइवेट लिमिटेड	B03989381	U99999MH1986PTC040639
447	राज एक्झुक्युटिव हॉटेल्स लिमिटेड	B03943123	U45200MH1987PLC042877
448	प्रो-फिट गारमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04016689	U18101MH1987PTC043778
449	लिजेंड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड	B04012613	U36900MH1987PTC044912
450	शांघवी ट्रेड लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04002838	U24710MH1987PTC045469
451	अजित अर्थ मूवर्स अँड सिविल इंजिनिअर्स प्राइवेट	B04027645	U99999MH1988PTC046649
452	मार्टागॉन इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04017166	U28920MH1988PTC047494
453	पंच-रत्न चित्रा प्राइवेट लिमिटेड	B03955812	U92110MH1988PTC048820
454	केशर फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	B03985959	U51909MH1988PTC049649
455	एप्रो बायो-टेक्नॉलाजीज लिमिटेड	B04021663	U15140MH1989PLC050997
456	अक्षर मार्बल अँड टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03995651	U26940MH1989PTC052812
457	सिलीकॉन डिवायसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04039574	U99999MH1989PTC053134
458	एन्टरनेट फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड	B04025300	U24239MH1989PTC054109
459	डहाणू मेटल प्राइवेट लिमिटेड	B04031662	U28920MH1990PTC054818
460	एक्वीफीन इंडिया लिमिटेड	B04033270	U99999MH1990PLC055963
461	अलीबाग खन्ना हॉटेल्स अँड रेस्टोरन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03953403	U99999MH1990PTC056838
462	श्री शिवलिंग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03975679	U99999MH1990PTC057148
463	हरदेव इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03940624	U99999MH1990PTC057490
464	ड्रम्फ होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	B03953130	U65990MH1990PTC057514
465	टॉमटीट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03976065	U99999MH1990PTC057645
466	प्रतीमा प्रापर्टीज अँड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04027009	U45200MH1990PTC058876
467	रीशी बिज़नेस फॉर्मस लिमिटेड	B03966819	U99999MH1991PLC061714
468	मुक्तदिप इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03940681	U67120MH1991PTC061858
469	एटरनिटी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03985116	U55200MH1991PTC062000
470	विराज फयुएल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04005500	U23010MH1991PTC062034
471	मिडवेस्ट मूवर्स अँड कुरीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04014700	U64120MH1991PTC062349
472	मर्झदी फिनान्स अँड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04002564	U65990MH1991PTC062543
473	कर्वी रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04036711	U36930MH1991PTC063483
474	टेक एज सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03953437	U74200MH1992PTC065011
475	सेलार अँग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	B03970084	U01110MH1992PLC065435
476	निखील पंचेस अँड डाइज प्राइवेट लिमिटेड	B04020608	U99999MH1992PTC067206

477	फ्राइटेनर सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04021978	U60300MH1993PTC071543
478	लक्षवेधी इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03932522	U67120MH1993PTC071643
479	केवल इन्वेस्टमेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	B03972536	U65990MH1994PTC077358
480	शंखेश्वर कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03998747	U45200MH1994PTC077870
481	डब्ल्यू डी कन्सुमर प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03936879	U51900MH1994PTC078793
482	डेक्कन प्युअरवॉटर अँड ब्रीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	B03959103	U71993MH1994PTC079736
483	परीमल कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B03947280	U45200MH1994PTC080749
484	ओम गैसर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03941754	U23201MH1994PTC080753
485	अक्वासागस ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	B03975497	U51905MH1994PTC080849
486	वायरस मार्केटींग ओरीएन्टेशन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03991916	U51900MH1994PTC081336
487	सॅन्डील्या भवन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	B03927233	U45200MH1994PTC082686
488	समुदाई फिनान्सीयल कन्सलटन्सी अँड सर्वीसेस	B03971728	U67120MH1994PTC083538
489	अजिंक्या सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B03976925	U67120MH1994PTC084047
490	युनिस्टार कॅपिटल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03971926	U67120MH1995PTC084271
491	संपत्ती बिल्डर्स अँड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04002739	U45200MH1995PTC085442
492	ब्रामेचा ग्रेप्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03964475	U01110MH1995PTC086428
493	तरल कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04003836	U45200MH1995PTC088740
494	स्वेता ट्रेड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04027363	U17114MH1995PTC089422
495	अॅनाप्लास्ट इन्टेरिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03973724	U36100MH1995PTC091059
496	पॉवर अलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड	B04014304	U27100MH1995PTC091149
497	कॉम्युनिक्स हायटेक प्राइवेट लिमिटेड	B03982436	U72900MH1995PTC093790
498	पायोनिअर काटव प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04018909	U32100MH1995PTC094386
499	चॉइस फास्ट्रॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04018040	U64120MH1995PTC094560
500	राइटचॉइस शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04031928	U70100MH1995PTC094792
501	बीगडील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04034658	U51900MH1995PTC095736
502	बायोटेक्नॉलाजी रिसोर्स सेन्टर लिमिटेड	B03927688	U24129MH1996PLC095904
503	आरती इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B03998580	U51900MH1996PTC095992
504	पार्थ इन्डेन्टस प्राइवेट लिमिटेड	B03997905	U65990MH1996PTC098501
505	अॅल्फस इन्फोवीजन प्राइवेट लिमिटेड	B04026100	U72200MH1996PTC099184
506	फिनान्सीयल अॅवेन्चस प्राइवेट लिमिटेड	B04010823	U74140MH1996PTC099751
507	नास्दाक फिनान्सीयल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड	B03939311	U67120MH1996PLC101133
508	साहील रिअॅलीटी प्राइवेट लिमिटेड	B04017562	U70100MH1996PTC104678
509	मोदी फिल्मस एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	B03993029	U92110MH1997PTC104951
510	नेहापॅन इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04011342	U25201MH1997PTC105145
511	युनितास क्वाट्रिव टेलिवीजन लिमिटेड	B03987559	U99999MH1997PLC105152
512	समता सर्वीसेस काकीनाडा प्राइवेट लिमिटेड	B04034062	U63090MH1997PTC106902
513	अॅपल प्रायमरी सिक्युरिटीज लिमिटेड	B03991155	U99999MH1997PLC108458
514	पी आर गोएल कॅरीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03948247	U63040MH1997PTC109792
515	ओपल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B04043485	U72200MH1997PTC111023
516	चैत्रा स्टोन्स लिमिटेड	B04008751	U26993MH1997PLC112235
517	खोपोली कॉन्क्रीट प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03963055	U26940MH1998PTC113928
518	पॅम एम्प्रेस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03927324	U51200MH1998PTC116782
519	अनमोल अॅग्रो फॉरेस्ट्स लिमिटेड	B04043378	U01100MH1998PLC117612

520	सॅमसन शिपिंग अॅन्ड मरीन कॉन्ट्रक्टर्स इंडिया लिमिटेड	B03957768	U35110MH1999PLC118535
521	एम एम एस अॅसोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04006755	U74210MH1999PTC119537
522	फॅक्समैन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	B03934338	U64200MH1999PTC122951
523	पर्फेक्ट टेल सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03948601	U72300MH1999PTC123329
524	धानु प्रॉपर्टी अॅन्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B03968666	U45200MH2000PTC124268
525	इन्फो अॅव्हेन्यु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03973757	U72900MH2000PTC126170
526	शेल्टर सिधानिया सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04017265	U74300MH2000PTC126604
527	माइन्ड्रोम टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	B03970654	U72200MH2000PTC128549
528	लाहरी मिडीया अॅन्ड एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B03992591	U92130MH2000PTC128973
529	विशाल मारीटाइम प्राइवेट लिमिटेड	B03991767	U11101MH2000PTC128991
530	चॅनेल नेस्ट कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B04015723	U45102MH2000PTC129873
531	चॅनेल स्टार कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B04017059	U45102MH2000PTC129885
532	आय अॅन्ड एस अॅडव्हर्टायजिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04032512	U74300MH2001PTC130499
533	एफ पी मानेकीया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B03982345	U51909MH2002PTC135093
534	मेट्रो ट्रान्सॅक्शन सर्वीसेस लिमिटेड	B03956950	U74999MH2002PLC136380
535	महाराजा मल्टी-करन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B03994415	U65990MH2002PTC136701
536	विजयता टेल-वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04033551	U92100MH2002PTC137308
537	सी अॅन्ड डी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	B03964368	U92100MH2002PTC137321
538	नूराणी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड	B03993524	U92100MH2003PTC138611
539	बाबा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	B04002069	U51909MH2003PTC140047
540	बालथाजार एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	B03954757	U51220MH2003PTC141267
541	जीको इंजीनीअरींग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B04032322	U29219MH1974PTC143842
542	तुका नामा अॅग्रीकल्चर अॅन्ड रिसर्च कंपनी प्राइवेट	B04021101	U73100MH2004PTC144077
543	एम एन एस फॉरेक्स अॅन्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड	B03964723	U63040MH2004PTC145071
544	व्हर्चोसो फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04011748	U17120MH2004PTC145402
545	दीबग नेटवर्कींग सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03969904	U72900MH2004PTC145875
546	रॉयल मुंबई स्टुडीयो रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04042487	U55100MH2004PTC146343
547	पानशेत अॅग्रो प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04006813	U01100MH2004PTC148435
548	न्यु-मेडीफार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04002598	U24230MH2005PTC153255
549	अॅथरस्टोन क्रेडिट सोल्युशन्स लिमिटेड	B04000485	U65923MH2005PLC154420
550	नेचर एस नेकटार ज्युस बार प्राइवेट लिमिटेड	B03951852	U15134MH2005PTC154843
551	लागो इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅन्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04036869	U70100MH2005PTC157878
552	आरजेएन इन्फर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B04022000	U72900MH2006PTC162551
553	बोरोल अॅग्रो बायो-टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03995818	U01110MH2006PTC159790
554	क्वी विटॅलिटी प्राइवेट लिमिटेड	B04026837	U29219MH2006PTC163894
555	पीबीके प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B03972718	U45201MH2006PTC163486
556	वरुण इन्फोटेक पार्क लिमिटेड	B03937158	U72900MH2006PLC162909
557	सुपेरीअर एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B03933314	U23209MH2006PTC166374
558	क्वादरन्ट अॅग्री अॅन्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	B03987492	U01119MH2006PTC166514
559	ट्रींग कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	B03990587	U30005MH2007PTC168556
560	एसपीएल इंडस्ट्रीयल सपोर्ट सर्वीसेस लिमिटेड	B04030623	U93000MH2007PLC173259
561	श्री हेम लाभ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B03979242	U45201MH2007PTC169994
562	मेगास्टोअर लॉजीस्टीक्स पार्कस हरयाणा प्राइवेट	B03984002	U45400MH2007PTC171766
563	न्युमॅग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03932274	U29261MH2007PTC174542

564	ऑलमा मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03933587	U29269MH2007PTC174534
565	बारमँग मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	B03934171	U29253MH2007PTC176977
566	जीवनलाल अग्रो लॉजीस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04031175	U63000MH2008PTC180503
567	इन्टरनॅशनल रेडीयोज अॅन्ड टेलीवीजन प्राइवेट लिमिटेड	B04082061	U92110MH1940PTC003110
568	मोहन-अयर कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B04061651	U74140MH1971PTC015003
569	डब्ल्यु इ कॉक्स अॅन्ड को रीकवरीज एशीया प्राइवेट	B04135489	U65999MH1972PTC015567
570	तोलानी इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04071148	U28920MH1975PTC018135
571	बॉम्बे एज्युकेशनल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04065900	U22100MH1978PTC020252
572	के एम फटीलायजर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04073136	U24120MH1981PTC024076
573	गुप्ता हाउस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B04085106	U70100MH1982PTC027215
574	आवत्रामनी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04130621	U99999MH1982PTC028282
575	लीड कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04141164	U74140MH1983PTC030263
576	हॉरीजन कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04102448	U74140MH1983PTC030644
577	बी नीचलानी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04115200	U65990MH1983PTC030659
578	आर रतन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04081477	U51909MH1983PTC030669
579	मलब्रोस केम-मेटस प्राइवेट लिमिटेड	B04099081	U70100MH1983PTC031196
580	चितवाल्सा इन्वेस्टमेन्ट अॅन्ड फिनान्सेस प्राइवेट लिमिटेड	B04112801	U65990MH1983PTC031493
581	शिवंकुपा पेपर प्राइवेट लिमिटेड	B04070967	U51396MH1984PTC034396
582	श्रीनाथ मेडीकेअर कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04139051	U85100MH1985PTC036440
583	रीमा ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड	B04153367	U51900MH1985PTC036494
584	केटी विन्डफार्म प्राइवेट लिमिटेड	B04157210	U51900MH1985PTC037633
585	सीवील्स कॅरीअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04055547	U63010MH1986PTC038758
586	बिनेंटो डग्ज प्राइवेट लिमिटेड	B04158663	U99999MH1986PTC039316
587	मातुभूमी इन्वेस्टमेन्ट अॅन्ड फिनान्स लिमिटेड	B04115556	U67120MH1986PLC039880
588	सन अप होम प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04093423	U28997MH1986PTC039996
589	पाटकर फेरो अलॉइज प्राइवेट लिमिटेड	B04149928	U27100MH1986PTC040632
590	लोखंडवाला हाउसींग फिनान्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04133922	U65922MH1986PTC041462
591	विदर्भा हाउसींग डेवलपमेन्ट फिनान्स कंपनी लिमिटेड	B04090205	U65922MH1986PLC041909
592	शिंफिल्ड ट्रस्टीशिप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B04136271	U51900MH1986PTC042012
593	सी सल्फॉन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04154183	U24100MH1987PTC043708
594	अमर कार्बन प्राइवेट लिमिटेड	B04060125	U24110MH1987PTC044754
595	श्रुष्टी इंजिनिअरींग अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट	B04099115	U28920MH1987PTC044824
596	संजीवनी इंजिनिअरींग अॅन्ड एजन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	B04099487	U28920MH1988PTC047149
597	शीतल लॅन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04054789	U70100MH1988PTC048246
598	सबनम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड	B04141131	U17110MH1988PTC049500
599	मूनस्टार एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04111803	U51900MH1988PTC049951
600	वेकफॅब इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04155719	U74210MH1988PTC050062
601	सिद्धी ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04119988	U60100MH1989PTC053182
602	हेम्सा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04146031	U51900MH1990PTC054926
603	एकॉन पॉल्युशन कन्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड	B04081287	U74210MH1990PTC055334
604	गाला सीटी स्कॅन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	B04130019	U85195MH1990PTC057454
605	कॅडली टेड एन्ड इन्वेसमेंट प्रा.लि.	B04103941	U99999MH1990PTC057707
606	ल्युमस इन्वेसमेंट प्रा.लि.	B04151478	U65990MH1990PTC057859

607	स्पेक्ट्रॉन थिन फिल्मस प्रा.लि.	B04068508	U29304MH1990PTC059217
608	सनविजय टुरिस्ट सर्विसेस प्रा.लि.	B04105904	U63040MH1990PTC059400
609	अरुम टेडिंग एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04069688	U51900MH1991PTC060070
610	प्रियांका सिल्क इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	B04092631	U17116MH1991PTC060879
611	शांती गृह निर्माण प्रा.लि.	B04063095	U45200MH1991PTC061409
612	सबाज इलेक्ट्रोनीक प्रा.लि.	B04154522	U99999MH1991PTC061988
613	बायरोज टेक्नोसीज एन्ड कंप्यूटर प्रा.लि.	B04130944	U30009MH1991PTC062640
614	चंदन सेंथेटीक प्रा.लि.	B04111019	U17120MH1991PTC063712
615	केदारनाथ स्टोन कशर प्रा.लि.	B04102240	U99999MH1992PTC069178
616	पियुश एन्ड कंपनी प्रा.लि.	B04106654	U51310MH1992PTC069312
617	गोल्डलाईन कर्मशीअल प्रा.लि.	B04148961	U51311MH1993PTC071042
618	मोरजारीया होटल्स एन्ड रिसॉर्ट प्रा.लि.	B04062121	U55101MH1993PTC071437
619	हुसैनी बिल्डर्स प्रा.लि.	B04144887	U45200MH1993PTC075639
620	नार्गाजुना एएमसी लि.	B04093985	U74999MH1994PLC077241
621	व्हिटल व्हेजीटेबल ऑईल्स एन्ड प्रोटीन्स लि.	B04141859	U15142MH1994PLC079578
622	अंनीमोन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B04149175	U45200MH1994PTC079660
623	सीगुल फायनांस एन्ड इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	B04085163	U65990MH1994PTC079838
624	रॉयल पाम्स रिसॉर्ट प्रा.लि.	B04048351	U45200MH1994PTC080339
625	फ्रिज एअर एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04116091	U32109MH1994PTC081451
626	लिजंट डेवलपर्स प्रा.लि.	B04133476	U45200MH1994PTC083589
627	सद्गुरु होटल्स प्रा.लि.	B04090452	U99999MH1994PTC083866
628	समयसार इनवेसमेंट एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B04051264	U45200MH2004PTC084424
629	चमक प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	B04135463	U45200MH1995PTC085525
630	सिने टीम कम्युनिकेशनस प्रा.लि.	B04074316	U99999MH1995PTC085533
631	पामरुची डेवलपर्स प्रा.लि.	B04101903	U45200MH1995PTC085830
632	चैतन्य लक्ष्मी पोर्टफोलीओ सर्विसेस प्रा.लि.	B04155420	U74140MH1995PTC086005
633	जलप्रभात बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रा.लि.	B04153805	U45200MH1995PTC086044
634	वेलवर्थ ज्वेलरी इंडिया प्रा.लि.	B04143251	U36911MH1995PTC086221
635	यंग टेक्नोआर्ट इंडिया प्रा.लि.	B04153904	U99999MH1995PTC086384
636	सिनीमा व्हीजन इंडिया प्रा.लि.	B04127684	U92100MH1995PTC087304
637	हमरुची बिल्डर्स प्रा.लि.	B04111308	U45200MH1995PTC087878
638	श्रृ इनवेसमेंट एन्ड टेडिंग कंपनी प्रा.लि.	B04151700	U65990MH1995PTC089520
639	ऑफ-बेट फायनांस प्रा.लि.	B04082111	U65910MH1995PTC090262
640	सोनी ग्राफीक प्रा.लि.	B04129680	U22200MH1995PTC091801
641	कोठारी ऑटोमॅटीक इंडिया प्रा.लि.	B04091948	U29290MH1995PTC092035
642	डार्ट एनर्जी सर्विसेस प्रा.लि.	B04112546	U28920MH1995PTC092270
643	एव्हरफ्लो कम्युनिकेशन प्रा.लि.	B04160347	U92110MH1995PTC092978
644	टोकेंडीरो इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	B04048062	U65990MH1995PTC093400
645	जीओटोनीक्स इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	B04050381	U74999MH1995PTC093827
646	भुटा टेक्सप्लास्ट प्रा.लि.	B04118279	U24220MH1995PTC094785
647	गोपालसुंदरा टेकस्टाइल मिल्स प्रा.लि.	B04115101	U51900MH1995PTC095445
648	मयश्री टेकस्टाइल मिल्स प्रा.लि.	B04144960	U17110MH1995PTC095515
649	ऑरबीट बिज़नेस सेंटर प्रा.लि.	B04146957	U74999MH1996PTC096215
650	ऑरटविन कारपोरेट सर्विसेस प्रा.लि.	B04138251	U67120MH1996PTC096264

651	मेडिकेअर एन्ड हेल्थ सिस्टम कंपनी प्रा.लि.	B04058731	U33120MH1996PTC096888
652	गुलराज प्रॉपर्टीज एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04071775	U70100MH1996PTC097327
653	प्रोसेस डाटा मैनेजमेंट इंडिया। प्रा.लि.	B04121117	U72200MH1996PTC097675
654	शदीलाल एन्ड सन्स टॉईज लि.	B04117057	U36940MH1996PLC098960
655	इफटेक्स बंकरिंग प्रा.लि.	B04060349	U35112MH1996PTC102738
656	रवराज फुडस् लि.	B04134565	U15100MH1996PLC102773
657	मिरांगी इनवेसमेंट एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	B04048393	U67120MH1996PTC102936
658	शॉडेली होल्डींग प्रा.लि.	B04098901	U99999MH1996PTC104241
659	कैब्रीओलेट इनवेसमेंट एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	B04075685	U67120MH1996PTC104274
660	अंडव्हेट नेटवर्क प्रा.लि.	B04159612	U92114MH1996PTC104460
661	इंद-रिजन शिपिंग प्रा.लि.	B04154019	U61200MH1996PLC104777
662	दायकॉम शेअर एन्ड स्टॉक ब्रोकर प्रा.लि.	B04119756	U67120MH1997PTC105474
663	इनोव्हेटीव आयडीयाज एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04134854	U65990MH1997PTC106230
664	ग्रीन सीटी फायनांस एन्ड इनवेसमेंट कंपनी प्रा.लि.	B04088969	U99999MH1997PLC106405
665	बेवरी सारीज प्रा.लि.	B04156295	U51311MH1997PTC108308
666	स्पास डिझाईन एन्ड आर्किटेक्चर प्रा.लि.	B04135786	U74210MH1997PTC108744
667	विनायक फाईनटेड प्रा.लि.	B04047486	U65921MH1997PTC109926
668	सिद्धि फायनांस एन्ड ट्रेडिंग लि.	B04070488	U67100MH1997PLC112611
669	पावस्कर शिपिंग एन्ड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	B04159760	U35110MH1998PTC112928
670	टान्सवेब सोल्युशन इंडिया। लि.	B04132569	U72100MH1998PLC113150
671	आयुलेट ज्वेल्स प्रा.लि.	B04085551	U36910MH1998PTC113520
672	डीकॉम कन्सलटंसी सर्विसेस इंडिया। प्रा.लि.	B04056388	U74210MH1998PTC114428
673	श्री गायत्री गारमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा.लि.	B04108445	U18101MH1998PTC117638
674	सर्वम इन्फोमीस प्रा.लि.	B04081121	U74140MH1999PTC118393
675	फर्स्ट कॉल अडवाइसरी	B04141784	U74140MH1999PTC118540
676	शंत्री कंप्यूटर इन्स्टीट्यूट प्रा.लि.	B04086856	U80302MH1999PTC119010
677	क्रिझम इन्फोटेक लि.	B04127114	U74300MH1999PLC120496
678	विशाल कुमार टेक्स्टाईल प्रा.लि.	B04139325	U17110MH1999PTC121067
679	कैलीटो फायनांसींग प्रा.लि.	B04128880	U65990MH1999PTC121106
680	विपु ऑटोमेशन प्रा.लि.	B04132262	U74920MH1999PTC121490
681	पायल नेटवर्क प्रा.लि.	B04119129	U92114MH2000PTC123474
682	केएएम फायनांस सर्विसेस प्रा.लि.	B04048617	U67190MH2000PTC124939
683	क्रिस्टल मिलेनियम ट्रेडिंग एन्ड मार्केटिंग प्रा.लि.	B04133989	U51900MH2000PTC125169
684	आयकॉन टेक्निकल सर्विसेस प्रा.लि.	B04098984	U72900MH2000PTC126997
685	शुभचिंतक स्टिल प्रा.लि.	B04142790	U28113MH2000PTC127854
686	पैक्स टेक लि.	B04158275	U72200MH2000PLC129299
687	यॉर्क इंडिया। कन्सलटींग सर्विसेस प्रा.लि.	B04120408	U72300MH2000PTC129465
688	वाय एल साबळे कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B04154571	U45201MH2000PTC129538
689	नीओटेक सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	B04056933	U72200MH2000PTC129643
690	चैनल कॉर्नर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B04108668	U99999MH2001PTC130944
691	यु-प्राइज़ट्राईट कॉम इंडिया प्रा.लि.	B04150462	U72200MH2001PTC132160
692	रैपिड एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	B04148235	U51399MH2001PTC132789
693	रिद्धि ज्वेलरी प्रा.लि.	B04091039	U51398MH2001PTC133915

694	कारडे -प्रो कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.	B04122875	U45201MH2002PTC134913
695	संगणेश इन्फोटेक प्रा.लि.	B04153649	U72200MH2002PTC135165
696	रैलीएबल बल्क कॅरिअर्स इंडिया। प्रा.लि.	B04091997	U63010MH2002PTC135268
697	किसोल इन्फोटेक प्रा.लि.	B04114260	U72900MH2002PTC135754
698	हयुमनटेक सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.	B04135901	U74910MH2002PTC137218
699	अॅग्रीच एक्सपोर्ट इंडिया। प्रा.लि.	B04150918	U51909MH2002PTC137436
700	अचीएव्हर शिपिंग प्रा.लि.	B04048757	U63032MH2003PTC139447
701	अॅफो टेडर्स प्रा.लि.	B04119160	U51909MH2003PTC139593
702	कॅज्युअल बुटिक इंडिया। प्रा.लि.	B04090114	U51310MH2003PTC139630
703	रीन्स इंजिनिअर्स प्रा.लि.	B04138350	U28990MH2003PTC140118
704	भौमिक शुगर्स प्रा.लि.	B04130647	U15420MH2003PTC140425
705	शिवा डिस्ट्रिब्यूटर प्रा.लि.	B04092524	U51909MH2003PTC140565
706	लुनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टोल ऑपरेशन प्रा.लि.	B04148136	U45203MH2003PTC140695
707	एफएन स्टिल टेडिंग प्रा.लि.	B04135430	U51420MH2003PTC140779
708	सफा मेडिकेअर प्रा.लि.	B04063905	U85110MH2004PTC144408
709	सन केअर प्रा.लि.	B04111605	U26910MH2004PTC144987
710	श्वेता शुगर प्रा.लि.	B04131462	U15420MH2004PTC146094
711	सोहम हाय-टेक इंडिया प्रा.लि.	B04152062	U92190MH2004PTC148944
712	आरकॉन कन्सलटन्स प्रा.लि.	B04155107	U74910MH2004PTC149559
713	सीव्यू रेसीडन्सी प्रा.लि.	B04138061	U45200MH2005PTC150618
714	पॉलीकैब वायर्स एन्ड केबलस् प्रा.लि.	B04058053	U31300MH2005PTC154740
715	अॅसकॉट इंडिया मार्केटिंग प्रा.लि.	B04155461	U59090MH2005PTC155705
716	सुमी गेम्स प्रा.लि.	B04089926	U51398MH2005PTC155867
717	टीटॉन मशिनस् प्रा.लि.	B04144192	U51909MH2005PTC157227
718	गणराज प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04098315	U70100MH2005PTC157750
719	गिरी बालाजी मार्केटिंग कन्सलटन्स प्रा.लि.	B04126942	U74130MH1999PTC119778
720	मेसोपेटीन नेक्वीगेशन कन्सलटन्स प्रा.लि.	B04153680	U63090MH1999PTC120386
721	शॅउन टेक प्रा.लि.	B04094504	U31200MH2005PTC158149
722	बजाज बायोटेक प्रा.लि.	B04160024	U24239MH2006PTC158698
723	परिशा टेड लिंकस् प्रा.लि.	B04049045	U52190MH2006PTC159907
724	प्लॅनेट इंटरप्राइझ इंडिया प्रा.लि.	B04105953	U31109MH2006PTC160308
725	नुतन बैटरी एन्ड बैटरी प्लेट्स प्रा.लि.	B04100293	U37100MH2006PTC160359
726	डी.एल.एन. टेडिंग प्रा.लि.	B04144770	U51900MH2006PTC161421
727	डिलिंग टुल्स सर्विसेस इंडिया। प्रा.लि.	B04144671	U28939MH2006PTC161555
728	केएमएमजे अंडव्हाइजर प्रा.लि.	B04151825	U74140MH2006PTC161573
729	सलीना कन्सलटन्सी प्रा.लि.	B04058848	U74920MH2007PTC168662
730	लोटस लाईफ इन्श्युरन्स मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.	B04147450	U66010MH2007PTC169813
731	पॅनासी फुड्स एन्ड ब्रेक्करेजेस प्रा.लि.	B04151908	U15549MH2006PTC166493
732	प्रभात रिअलटी होल्डिंग प्रा.लि.	B04130381	U70102MH2007PTC167575
733	स्वेल्ट रेस्टॉरंट प्रा.लि.	B04112652	U55101MH2007PTC169280
734	फिल्म एन्ड मिडिया रिसर्च एन्ड रेटिंग एजन्सी प्रा.लि.	B04133542	U92120MH2007PTC169400
735	झाफझा दिल्ली बिजनेस वर्ल्ड इंडिया। प्रा.लि.	B04083671	U45200MH2007PTC168842
736	मोडक केबलस् इंडिया। प्रा.लि.	B04123667	U31905MH2007PTC172436
737	बॉम्बे स्कुल फॉर मीडिया एक्सलन्सी लि.	B04070595	U80220MH2007PLC173390

738	सुरेखा गेम्स प्रा.लि.	B04052932	U52393MH2007PTC174781
739	फॅब्रिकाफ्ट इंजिनिअर्स प्रा.लि.	B04140398	U29268MH2007PTC174377
740	प्रभात मिनिरलर्स प्रा.लि.	B04129508	U14200MH2008PTC178206
741	असेट रेझयुलिशन मैनेजमेंट कंपनी [इंडिया] प्रा.लि.	B04117685	U67100MH2007PTC175810
742	लिडो प्रा.लि.	B04255980	U74999MH1943PTC004011
743	अरुणा फुट वेअर इंटरप्राइजेस लि.	B04242640	U19200MH1970PLC014542
744	इंडस्ट्रिअल मैनेजमेंट कन्सलटंसी सर्विसेस प्रा.लि.	B04222105	U99999MH1970PTC014856
745	सफल सिडस प्रा.लि.	B04242699	U99999MH1973PTC016396
746	सिंग मॉलेबल कास्टिंग्स एन्ड इंजिनिअरिंग लि.	B04247896	U27300MH1980PLC023235
747	फोनीक्स डाटा रिसोर्सस प्रा.लि.	B04208393	U74140MH1982PTC026920
748	सेठी सिंटेक्स प्रा.लि.	B04226619	U99999MH1983PTC029130
749	रडार कर्मशिल लि.	B04250353	U99999MH1984PLC034286
750	क्वे इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04212171	U67120MH1985PTC036368
751	डेस्टोटो होल्डिंग प्रा.लि.	B04239836	U67120MH1985PTC036956
752	कंफर्ट रिजेन्सी इन प्रा.लि.	B04169769	U55101MH1985PTC038048
753	निओ गैलन्सीया लैबोरेटरीज प्रा.लि.	B04210670	U99999MH1986PTC039138
754	लोपा इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04237293	U99999MH1986PTC039925
755	मिलॉन प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04244844	U45200MH1986PTC040431
756	चेमनो ड्रग्स मिडीया प्रा.लि.	B04196192	U99999MH1987PTC045130
757	वास्तुसेवा बिल्डर्स प्रा.लि.	B04248597	U99999MH1988PTC048948
758	वेदर वर्क बॉम्बे प्रा.लि.	B04254371	U29190MH1988PTC049185
759	स्डिलैंड इस्टेट प्रा.लि.	B04196713	U70100MH1988PTC050164
760	पृथ्वी प्रॉडक्शन प्रा.लि.	B04174660	U92111MH1989PTC050726
761	रुपानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B04251633	U45200MH1989PTC050911
762	इम्को इंजिनिअर्स प्रा.लि.	B04229878	U28920MH1989PTC051697
763	हर्ष टिमोप्लास्ट प्रा.लि.	B04226213	U25209MH1989PTC052537
764	डेल्टा प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04203998	U45200MH1989PTC054529
765	हार्दिक इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04180923	U65990MH1990PTC056025
766	सोलिड एडेहसीव मैन्युफैक्चरर्स प्रा.लि.	B04177143	U27200MH1990PTC056694
767	सामंत खांडोलकर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	B04214417	U45200MH1990PTC057690
768	सुविधा एजन्सी प्रा.लि.	B04187712	U51209MH1990PTC057950
769	जस्मा फायनांस एन्ड लिझिंग प्रा.लि.	B04241410	U65910MH1990PTC059409
770	मेरीटाइम हेल्थ एन्ड सेफ्टी कन्सलटंस प्रा.लि.	B04235891	U74140MH1991PTC060515
771	मिड टाउन शॉपिंग सेंटर प्रा.लि.	B04251419	U52190MH1991PTC062414
772	अदनान होटल्स प्रा.लि.	B04180576	U55200MH1991PTC062591
773	जेट अक्वीऐशन प्रा.लि.	B04229944	U62100MH1992PTC066284
774	यश सेफ्टी प्रॉडक्शन [इंडिया] लि.	B04187183	U28933MH1992PLC068944
775	अंटीक्यु एंटरप्राइजेस प्रा.लि.	B04187308	U74999MH1992PTC069340
776	सहयोग हॉलीडे रिसॉर्ट प्रा.लि.	B04202511	U99999MH1992PTC069343
777	क्लिनस रॉकस् प्रा.लि.	B04218509	U51420MH1992PTC070189
778	मुलुंड फायनांस एन्ड लिझिंग प्रा.लि.	B04235958	U65910MH1992PTC070206
779	टफलगर टेड लिंक्स प्रा. लि.	B04230942	U51900MH1993PTC070734
780	वर्णेकर ज्वेलर्स प्रा.लि.	B04234019	U51398MH1993PTC074599

781	कोना कोना एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04200622	U51900MH1993PTC074717
782	जोशी पेपर्स प्रा.लि.	B04252334	U51396MH1993PTC075047
783	मिलिंद इक्युपमेंट हायर प्रा.लि.	B04199766	U63010MH1994PTC076053
784	नवकमल फायनांस एन्ड इनवेसमेंट कन्सलटंसी प्रा.लि.	B04227062	U65990MH1994PTC077273
785	डेक्सटर फायनांस एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04236535	U99999MH1994PTC077904
786	फायझ रिअल इस्टेट प्रा.लि.	B04245007	U45200MH1994PTC078443
787	फॅन्सी-घेवार प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04247615	U45200MH1994PTC079794
788	अदसा फायनांस एन्ड इनवेसमेंट प्रा.लि.	B04190609	U67120MH1994PTC080755
789	वैदेहि फार्मासिट्युकल प्रा.लि.	B04243937	U51397MH1994PTC081462
790	त्रिमुर्ती कारपेट टेड प्रा.लि.	B04217436	U51900MH1994PTC081715
791	प्लास्ट-ओ-प्लास्ट प्रा.लि.	B04232146	U25200MH1994PTC083687
792	मधुपुरी सिक्युरिटी एन्ड होल्डिंग्स प्रा.लि.	B04222337	U65990MH1994PTC084083
793	स्टर्लिंग होममार्कर्स प्रा.लि.	B04187282	U45201MH1995PTC084265
794	केसलॉन सिक्युरिटी लि.	B04243390	U67120MH1995PLC085202
795	शन्मा कंटेनर्स प्रा.लि.	B04250577	U28129MH1995PTC088131
796	माझदा प्लास्टीक प्रोफाईल्स प्रा.लि.	B04172128	U25206MH1995PTC088954
797	स्टार पॉईंट स्टॉक एन्ड सिक्युरिटी प्रा.लि.	B04189502	U67120MH1995PTC089179
798	अॅडव्हास टेकनॉलॉजी अॅप्लीकेशन [बॉम्बे] प्रा.लि.	B04226429	U72200MH1995PTC092967
799	राघवेंद्रा लिझिंग एन्ड होम फायनांस प्रा.लि.	B04244661	U65922MH1995PTC093473
800	रिअलवर्थ प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04210597	U70100MH1995PTC094773
801	टच प्लास्टिक प्रा.लि.	B04190799	U25200MH1995PTC095137
802	बॉम्बे कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रा.लि.	B04229779	U92110MH1996PTC095825
803	देवरुच टेड-एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04172912	U51900MH1996PTC099662
804	विदर्भ फोटो फिल्मस् प्रा.लि.	B04246633	U51909MH1996PTC099852
805	ल्वॉसम सॉफ्टवेयर टेकनॉलॉजी प्रा.लि.	B04251765	U99999MH1996PTC100379
806	मानस पेंट प्रा.लि.	B04181186	U24100MH1996PTC103403
807	डायसी कंप्यूटर प्रा.लि.	B04214227	U99999MH1996PTC103608
808	ओपीके इनवेसमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	B04249033	U65990MH2002PTC103700
809	इलटेक कॉन्सेशन प्रा.लि.	B04257069	U29200MH1997PTC105995
810	स्टेचनॉल एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04193983	U33100MH1997PTC107449
811	समिचा एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04220679	U52310MH1997PTC108132
812	अलाप मेलडीज प्रा.लि.	B04181582	U92100MH1997PTC109668
813	वरदहस्त होटल्स एन्ड रिसॉर्ट प्रा.लि.	B04238788	U99999MH1997PTC110332
814	दिशा हार्डिक्युलस प्रा.लि.	B04246401	U99999MH1997PTC111353
815	डोंबिवली कम्युनिकेशन प्रा.लि.	B04249579	U64204MH1997PTC111925
816	फेमस होटल्स प्रा.लि.	B04255204	U99999MH1997PTC112371
817	अमोघ इस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि.	B04217543	U70100MH1998PTC113335
818	चोसी शेल्टर प्रा.लि.	B04220745	U70101MH1998PTC114346
819	पराग कन्सलटंस प्रा.लि.	B04247060	U67190MH1998PTC114933
820	घई टेडिंग प्रा.लि.	B04190732	U51900MH1998PTC115169
821	साने अभजीत फायनांशीअल एंटरप्राइजेस लि.	B04165494	U65921MH1998PLC116220
822	मॅगो सॉफ्टवेयर लि.	B04188991	U72200MH1999PLC117962
823	वृत्तुला मोबीलीटी प्रा.लि.	B04254256	U72200MH1999PTC118489
824	सेवा सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	B04251971	U72900MH1999PTC120309

825	प्लस पॉइंट इन्फोटेक प्रा.लि.	B04235966	U80302MH1999PTC121534
826	स्कायलार्क ऑसेस सिस्टम प्रा.लि.	B04234654	U25200MH1999PTC121962
827	मिलेनियम नेटवर्क सिक्युरिटी प्रा.लि.	B04213385	U67120MH2000PTC123639
828	सीबीकेजे कन्सलटंट प्रा.लि.	B04175238	U67190MH2000PTC124075
829	अनील प्रकाश इलेक्ट्रिकल एन्ड कंप्यूटर प्रा.लि.	B04193579	U72100MH2000PTC124875
830	फेवरेट फोरचुन कॉम इंडिया लि.	B04190435	U72900MH2000PLC125723
831	टेल-सोल्युशन इंडिया प्रा.लि.	B04212338	U72200MH2000PTC128076
832	बाबा डिजिटल प्रिटींग कंपनी लि.	B04193686	U25209MH2000PLC128641
833	फास्ट एन्ड फेअर कन्सलटंट इंडिया प्रा.लि.	B04252375	U67120MH2000PTC130237
834	टिमप्लेज इंडिया प्रा.लि.	B04163218	U72900MH2001PTC130698
835	दरीलाल केम एन्ड कन्सलटंट इंडिया प्रा.लि.	B04215935	U74140MH2001PTC133048
836	प्रिमीयर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस नागपूर प्रा.लि.	B04240370	U63090MH2001PTC133464
837	स्टेला डॉन फरफ्युरल लि.	B04174777	U24297MH2002PLC134947
838	फरगो क्रियेशन प्रा.लि.	B04213468	U51909MH2002PTC135770
839	अमेरीकॉम सोल्युशन प्रा.लि.	B04188199	U72900MH2002PTC136258
840	आकार स्टक्चरल रेस्टोरेशन प्रा.लि.	B04227559	U45200MH2002PTC138351
841	अविष्कार स्टक्चरल रेस्टोरेशन प्रा.लि.	B04229829	U45200MH2002PTC138354
842	सेंट अंथासियस कन्सलटंट प्रा.लि.	B04209748	U72200MH2003PTC141121
843	युरो एज्युकेशन सेंटर प्रा.लि.	B04165676	U80300MH2003PTC141582
844	धार्मिक शुगर प्रा.लि.	B04212411	U15420MH2003PTC143533
845	होलोमार्क लेबलींग टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.	B04197752	U74999MH2004PTC145107
846	ओम मिराजी इंपेक्स प्रा.लि.	B04194585	U51430MH2004PTC146643
847	मातोश्री मैनेजमेंट सोल्युशन प्रा.लि.	B04235735	U72900MH2004PTC146681
848	सकस क्लोदिंग कंपनी प्रा.लि.	B04221768	U17100MH2004PTC147051
849	हैंट-टीक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रा.लि.	B04254603	U92400MH2004PTC147679
850	बी एस ज्वेलरी प्रा.लि.	B04200234	U36911MH2004PTC148373
851	इन्फरंस सिस्टम लि.	B04249843	U72900MH2000PLC148953
852	मायक्रोपार्क डेवलपर्स प्रा.लि.	B04192266	U45200MH2005PTC151814
853	रॉकहांडर एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04249322	U36910MH2005PTC151883
854	ओम सिध्दी अंग्रो एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04221495	U51909MH2005PTC152412
855	श्रीनाथजी कोल गुजराथ प्रा.लि.	B04214359	U10100MH2005PTC152449
856	ट्रान्सरेल इस्पात प्रा.लि.	B04255634	U27100MH2005PTC154122
857	रिनेन्सेन्स लिगल एन्ड लर्नींग सिस्टम प्रा.लि.	B04250189	U74100MH2005PTC154282
858	व्हाइट-स्पेस एक्सपोर्ट प्रा.लि.	B04256053	U51496MH2005PTC154721
859	जाजल लॉजिस्टिक सर्विसेस प्रा.लि.	B04198636	U63090MH2005PTC154729
860	ज्युवेंटस बिजनेस सोल्युशन प्रा.लि.	B04222642	U85190MH2005PTC154970
861	जी एल पी एल एपोदीकेरिस प्रा.लि.	B04191029	U85110MH2005PTC156204
862	दायप्लि क्रेडिट व्हेचर प्रा.लि.	B04212684	U65990MH2005PTC156403
863	इनोवेशन फार्मा प्रा.लि.	B04187373	U24230MH2005PTC156424
864	अवधेश कर्मशिल लि.	B04247466	U99999MH1984PLC034263
865	ए.डी. मोदी कन्सलटंट प्रा.लि.	B04194155	U99999MH1987PTC045565
866	वरुण विनियोग प्रा.लि.	B04167797	U74920MH2006PTC160191
867	डायलोर कर्मशीअल प्रा.लि.	B04231841	U24100MH2006PTC160457

868	स्पोर्ट्स लैंड मेडॉज प्रा.लि.	B04233060	U45201MH2006PTC162901
869	फ्लीटकोर्प इंडिया प्रा.लि.	B04253415	U74999MH2007PTC167765
870	सिटी रिसर्च प्रा.लि.	B04207981	U93090MH2006PTC165183
871	नॅपरोड फार्मासिट्युकल प्रा.लि.	B04245296	U24110MH2007PTC167374
872	ऑल सुट प्रॉपर्टि 1 प्रा.लि.	B04236923	U70200MH2007PTC166816
873	एनबीसीस कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि.	B04209342	U70109MH2007PTC167105
874	जे एच मेटल टेड्स प्रा.लि.	B04246906	U51420MH2007PTC171435
875	हयुमन चेस टेक्नो प्रा.लि.	B04239505	U72200MH2007PTC170196
876	मगनलाल करुभाई डेवलपर्स प्रा.लि.	B04233136	U45400MH2007PTC171117
877	युनिटी कुरैशी इंडिया प्रा.लि.	B04239786	U70200MH2007PTC172756
878	एनइसी सॉफ्टी प्रा.लि.	B04214763	U72900MH2008PTC177886
879	डाटालॅब इन्स्ट्रुमेंट प्रा.लि.	B04215083	U29220MH2008PTC177875
880	टॉमीनेंट मीनींग प्रा.लि.	B04230850	U14200MH2008PTC179162
881	कोहीनूर कॉनर होटल्स प्रा.लि.	B04257259	U55200MH1983PTC030635
882	कृष्णा कटेर्नस लि.	B04270005	U99999MH1987PLC042884
883	परशुराम डार्ज एन्ड केमीकल्स प्रा.लि.	B04270757	U99999MH1987PTC045568
884	नवराज रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा.लि.	B04275012	U50100MH1988PTC047478
885	इझीग्रो इनवेसमेंट एन्ड फायनांस प्रा.लि.	B04267548	U65990MH1988PTC048739
886	श्री धर्मा सस्ता फुड एन्ड टेकस्टाइल प्रॉडक्ट प्रा.लि.	B04277596	U15200MH1989PTC054639
887	स्टर्लींग रेकॉर्डिंग प्रा.लि.	B04263596	U92312MH1990PTC056836
888	हर्बनस्टन प्लास्ट इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	B04268470	U99999MH1990PTC058003
889	कैराली फिल्मस प्रा.लि.	B04271524	U92110MH1992PTC065921
890	ग्रोमनी फायनांस प्रा.लि.	B04276945	U67120MH1992PTC066314
891	मालुश्री फायनांस प्रा.लि.	B04258026	U65110MH1993PTC075019
892	पीडर एन्ड पीडर लिझींग एन्ड फायनांस प्रा.लि.	B04260519	U65910MH1993PTC075553
893	दुर्गा परमेश्वरी लिझींग प्रा.लि.	B04257689	U65910MH1994PTC079075
894	काप्स केम प्रा.लि.	B04271813	U24110MH1994PTC080245
895	शुद्ध प्रॉपर्टिज प्रा.लि.	B04262523	U70101MH1994PTC080984
896	सीलॉर्ड रियलटर्स प्रा.लि.	B04266755	U70100MH1994PTC083921
897	जयधारा बिल्डर्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	B04262648	U70100MH1995PTC095127
898	नॉरिड शिपिंग एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	B04259289	U61100MH1997PTC106673
899	श्री योगेश्वर कार्टन्स प्रा.लि.	B04261269	U99999MH1997PTC109961
900	योगराज इन्फोटेक अँड डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड	B04262937	U72400MH2000PTC125422
901	सीवेन्चर मरीन सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04271326	U35111MH2001PTC132669
902	श्रीकला इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	B04268868	U65993MH2001PTC132672
903	ऑर्बीट्रान्स शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04278958	U63090MH2003PTC141609
904	इनोवेटिव फ़ाइट फॉरवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	B04262440	U63000MH2004PTC148345
905	स्टर्लाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डींग प्राइवेट लिमिटेड	B04271110	U65990MH2005PTC157038
906	हन्सा राधा होल्डींग अँड ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	B04272555	U65990MH1982PTC026879
907	ब्रेवींग सीनफूल गॉडीज प्राइवेट लिमिटेड	B04268041	U15419MH2006PTC164305
908	स्लाइस मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04265567	U45200MH2007PTC168385
909	मेटाग्राप्स प्राइवेट लिमिटेड	B04353967	U27200MH1962PTC012296
910	डायनॅमिक इंडस्ट्रीयल अंडरटेकींग लिमिटेड	B04327102	U24222MH1965PLC013327
911	कन्सीलियम प्राइवेट लिमिटेड	B04360442	U74140MH1971PTC015106

912	जेलिसुल्स मेडिकैप्स प्राइवेट लिमिटेड	B04321998	U99999MH1972PTC015954
913	आदित्य पेपर्स मिल्स लिमिटेड	B04391017	U21000MH1974PLC017881
914	धनवर्षा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	B04287678	U63010MH1979PTC021217
915	कॉन्टूर अंडव्हर्टायजींग प्राइवेट लिमिटेड	B04381216	U74300MH1980PTC022701
916	गांधर्व ट्रेडींग अंड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B04364832	U67120MH1980PTC023278
917	पीके मूवीज प्राइवेट लिमिटेड	B04322574	U92100MH1980PTC023310
918	आर डब्ल्यू सावंत अंड कंपनी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट	B04394730	U63022MH1980PTC023571
919	भंडारी जेम्स प्राइवेट लिमिटेड	B04425187	U36912MH1982PTC026091
920	वानीज्य रश्मी प्राइवेट लिमिटेड	B04420618	U24110MH1982PTC026107
921	गुजरात कलर फोटो लॅब प्राइवेट लिमिटेड	B04332631	U99999MH1982PTC028896
922	अनुमल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04384301	U65990MH1982PTC028925
923	गॉर्डन स्टील अंड प्रेस वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	B04340527	U28910MH1983PTC029154
924	हिन्दुस्तान ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04401865	U39912MH1983PTC030466
925	ओरिएंट सिन्टर्स लिमिटेड	B04420907	U99999MH1984PLC031857
926	ड्राइड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	B04337416	U53100MH1985PTC035139
927	स्प्राउट ट्रेडींग अंड इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04333936	U67120MH1985PTC036202
928	ब्ल्यूचिप इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04392544	U51900MH1985PTC037190
929	पोलार बैटरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B04413100	U31402MH1985PTC037490
930	क्लेआ अंडव्हर्टायजींग अंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04364345	U99999MH1985PTC037723
931	जब होल्डींग्स अंड इन्वेस्टमेन्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B04378535	U99999MH1985PTC037937
932	अक्युमुलेटर प्रॉडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	B04398467	U99999MH1987PLC043695
933	सुर्योदया इलेक्ट्रो मेकॅनिकल प्राइवेट लिमिटेड	B04387239	U99999MH1988PTC046421
934	अपल हेल्थकेअर लिमिटेड	B04349379	U85100MH1989PLC050244
935	मेस्को ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	B04297172	U29290MH1989PTC050905
936	दिनेश केडिया इन्वेस्टमेन्ट अंड फिनान्स कन्सलटन्ट्स	B04317319	U99999MH1989PTC053145
937	टेक्सरिच फॅब्रीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04380895	U17100MH1989PTC053279
938	रेडियल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04345393	U65990MH1989PTC054188
939	अनाला फिनान्स अंड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04361150	U65920MH1990PTC055845
940	सरस फिनान्सीयल प्राइवेट लिमिटेड	B04353520	U65990MH1990PTC056037
941	जवाहर ग्रीन ग्लेड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04308573	U55200MH1990PTC056336
942	बीकॉन मार्केटिंग अंड रिडिक्शन सर्वीसेस प्राइवेट	B04319307	U51900MH1990PTC058047
943	प्रॉस्पेरस प्रॉपर्टीज अंड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04380440	U45200MH1990PTC058155
944	अर्पणा मर्कन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड	B04417770	U51900MH1990PTC058443
945	वाशी इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	B04379822	U34201MH1991PTC059674
946	पनामा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04391223	U17120MH1991PTC063948
947	वइजर ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	B04280053	U51900MH1992PTC064969
948	अनिरुद्ध टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04402715	U17120MH1992PTC066357
949	प्रतिक मायकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B04353603	U30007MH1992PTC066802
950	प्रमुख कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04370730	U74300MH1992PTC067941
951	वृशाली टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04322889	U67190MH1993PTC070302
952	उशा ऑटो स्प्रींगज प्राइवेट लिमिटेड	B04327128	U32109MH1993PTC070518
953	बलीराजा अंग्रो प्रॉडक्ट्स अंड रिसर्च लिमिटेड	B04330155	U01111MH1993PLC071536
954	लक्ष्मी छाया लिजींग अंड हायर पर्चेस प्राइवेट लिमिटेड	B04338596	U65910MH1993PTC071644

955	आर्मास मैनेजमेन्ट कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04337499	U67190MH1993PTC072077
956	मॅलोडे अॅग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04393013	U01110MH1993PTC074794
957	श्री गुरुदत्ता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04425831	U45200MH1993PTC075184
958	सौरभ बिल्डर्स अॅन्ड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04317012	U45200MH1994PTC077804
959	इकोविजन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04309753	U65990MH1994PTC078460
960	मफतलाल मेडिकल डिवायसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04316311	U93020MH1994PTC078658
961	साउथ बॉम्बे डायग्नोस्टीक सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	B04382297	U51507MH1994PTC078703
962	पनामा इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04376794	U65990MH1994PTC079542
963	स्प्लेंडर इन्टेरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04391256	U99999MH1994PTC080090
964	मिड-टाउन प्रॉपर्टी होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04315461	U45200MH1994PTC082262
965	मिनोल्टा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	B04356093	U99999MH1994PTC082567
966	रॉयल कुज लिनर्स लिमिटेड	B04347795	U63010MH1995PLC084300
967	केनवुड डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04379715	U45200MH1995PTC085542
968	एस्टीम पोर्टफोलीयो प्राइवेट लिमिटेड	B04359303	U67120MH1995PTC086339
969	इन्डिकॉन बिल्डफाइन प्राइवेट लिमिटेड	B04388674	U45200MH1995PTC087011
970	स्कायपार्क होल्डींग अॅन्ड एस्टेट डेवलेपर्स प्राइवेट	B04412045	U45200MH1995PTC087046
971	पारीजात रिसॉर्ट्स लिमिटेड	B04323457	U55101MH1995PLC087119
972	पामविहार डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04307765	U70102MH1995PTC087941
973	एम के पोलाडीया सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B04334561	U67190MH1995PTC088579
974	मिडास टच सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B04406385	U67120MH1995PTC089239
975	सौनील फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04405965	U67190MH1995PTC089271
976	वकारांगी मार्केटींग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04303962	U51900MH1995PTC089431
977	ललकार एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	B04338646	U35110MH1995PTC091003
978	न्युकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B04372074	U24110MH1995PTC091939
979	कल शेअर्स लिमिटेड	B04322459	U67120MH1995PLC092071
980	शेल वैनकॉप लिमिटेड	B04360681	U74140MH1995PLC092406
981	हीरा क्रेडिट कॅपिटल प्राइवेट लिमिटेड	B04406898	U67120MH1995PTC092716
982	विकी ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04387387	U63090MH2003PTC093397
983	गॅलेक्सी कार्गो केअर प्राइवेट लिमिटेड	B04358149	U63011MH1995PTC094035
984	नयन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B04371829	U45200MH1995PTC094276
985	पियुष पारेख शेअर अॅन्ड फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	B04401113	U67120MH1995PTC094692
986	द्वारका इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड	B04376455	U55101MH1996PLC096976
987	नायलोप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04384822	U25209MH1996PTC097393
988	मसानी फिनान्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04325494	U65923MH1996PTC097405
989	विराम इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04391330	U65923MH1996PTC097882
990	सौराष्ट्र क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड	B04372157	U67120MH1996PTC099881
991	श्री अॅन्ड श्याम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	B04425765	U67120MH1996PTC100743
992	आयडल मॉनीटरिंग रिपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04353025	U51900MH1996PTC100921
993	स्ट्राटेजी डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04384673	U99999MH1996PTC102718
994	मेडीपल्स लॅबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	B04337283	U24110MH1996PTC102958
995	विकांत सेक्युरिटी लिमिटेड	B04411484	U74920MH1996PLC103455
996	आय-सी विजन प्राइवेट लिमिटेड	B04408662	U64204MH1996PTC103689
997	निताश्री टयुब्स लिमिटेड	B04338307	U27200MH1997PLC105040
998	रिफाइन मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04287553	U51900MH1997PTC108207

999	अल्टीमेट ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04394912	U51900MH1997PTC111104
1000	हार्वैस्ट लेकोफिन लिमिटेड	B04392304	U65900MH1997PLC112203
1001	हॉलमैक्स इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04408381	U51900MH1998PTC113682
1002	इन्टेक मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04334306	U74140MH1998PTC113945
1003	केजिका अग्रो-टूरीजम प्राइवेट लिमिटेड	B04374849	U01110MH1998PTC114098
1004	शिव साई हायर फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड	B04427654	U65923MH1998PTC114353
1005	प्रोमैट मेडीकल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04395554	U33110MH1998PTC115299
1006	प्रोलीफिक हॉलीडे गेटवेज लिमिटेड	B04373577	U55101MH1998PLC116682
1007	ऑरेंज सिटी पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	B04291530	U73100MH1999PTC118795
1008	इन्दुज टेलीलाइन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	B04345583	U32109MH1999PTC118906
1009	सिल्वरसिटी रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04375325	U55100MH1999PTC119889
1010	प्रल्हाद कन्स्ट्रक्शन अँड इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	B04289211	U45201MH1999PTC121208
1011	शर्वरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	B04380135	U45200MH1999PTC121933
1012	कमला पॅलेस हॉटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04349049	U88504MH1999PTC122814
1013	अल्केमी स्पोर्ट्स प्रमोशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	B04336921	U92400MH1999PTC122941
1014	अॅक्युरा इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	B04419636	U29100MH2000PTC123793
1015	क्वेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04421004	U70100MH2000PTC125257
1016	ग्लोबल ट्रव्हलर्स कॉम लिमिटेड	B04407268	U63040MH2000PLC126568
1017	सेन्सेक्स सोल्युशन्स अँड ऑलाइड सर्वीसेस प्राइवेट	B04358644	U67190MH2000PTC126628
1018	अदीवा एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04331013	U72900MH2000PTC126723
1019	अदीवा टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	B04331963	U72900MH2000PTC127146
1020	अन्तरीक्षा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04375069	U99999MH2000PTC129187
1021	इन्डीयनमैच फिनान्सीयल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04379467	U99999MH2000PTC129618
1022	वैल्युवर्थ ट्रेडर्स लिमिटेड	B04347365	U51229MH2000PLC129915
1023	श्रद्धा इन्शुरन्स सर्वीसेस लिमिटेड	B04335428	U66010MH2000PLC129961
1024	एच आर डिसकव्हर-ए-होम एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	B04357851	U45102MH2001PTC131099
1025	चॅनेल संगम कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	B04377081	U99999MH2001PTC131328
1026	ओरीयन स्टील अँड वॉशरीज लिमिटेड	B04341905	U27101MH2001PLC132166
1027	परमेश्वर फॅशनस लिमिटेड	B04402897	U18101MH2001PLC132540
1028	सी एअर फॉरवर्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04396909	U63013MH2001PTC133266
1029	पॉप्युलर फॉरेन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड	B04390613	U65190MH2001PTC133353
1030	गेटवे ट्रेड अँड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड	B04311841	U74300MH2001PTC133500
1031	ग्रीन वॅली टेलिकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04404216	U64202MH2001PTC133878
1032	एवरग्रीन लॉजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04362372	U63010MH2002PTC134436
1033	मंगल मूर्ती सुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04394839	U15419MH2002PTC135410
1034	संतुष्टी इन्शुरन्स अँड फिनान्स कन्सलटन्ट्स प्राइवेट	B04426110	U66010MH2002PTC135420
1035	टेक्स्चर पेन्ट्स अँड कोटींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04405650	U74994MH2002PTC135994
1036	मोदी जवेरी अँड कंपनी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B04363115	U51909MH2002PTC136252
1037	प्रैक्सीस टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	B04385324	U30007MH2002PTC136963
1038	सिद्धी कमोडीटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04362885	U51398MH2002PTC137477
1039	जिन्दत्त सर्वीसेस अँड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	B04403853	U70101MH2003PTC139806
1040	आयडीयाज कन्स्ट्रक्शन अँड कौन्ट्रक्टर्स प्राइवेट	B04305678	U45200MH2003PTC139969
1041	एन्सीनो कीएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04330353	U18101MH2003PTC140446

1042	एसएमएम पॉलीविनिल प्राइवेट लिमिटेड	B04426466	U25200MH2003PTC140827
1043	जोश पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04337812	U22210MH2003PTC141747
1044	नॉर्थन इंजिनीअरींग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	B04364600	U31909MH2004PTC145799
1045	टेक्नोट्रॉक इंजिनिअर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04366852	U29300MH2004PTC145813
1046	एवरेस्ट अक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड	B04362596	U29300MH2004PTC145814
1047	हायटेक मेकॅनिका इंजिनिअरींग प्राइवेट लिमिटेड	B04364105	U31900MH2004PTC145930
1048	स्टाटेजम कन्सलटींग अॅन्ड मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04365409	U63040MH2004PTC146169
1049	इगल्स आय डिजीटल प्राइवेट लिमिटेड	B04377263	U33200MH2004PTC146460
1050	क्वान्टम पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04412961	U22120MH2004PTC146757
1051	आर्टीस्टिक विजन डेन्टल लॅबोर्टरी प्राइवेट लिमिटेड	B04351615	U51397MH2004PTC147147
1052	अॅवनेन्द्रा कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04327987	U45200MH2004PTC147244
1053	पीएलएम प्रॉपर्टी सर्वीसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04388815	U70200MH2004PTC148638
1054	जी3 मेडीया अॅसोसीएट्स प्राइवेट लिमिटेड	B04302352	U74300MH2004PTC149690
1055	आयडल इन्शुरन्स अॅन्ड मल्टीसर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04405973	U74100MH2004PTC149947
1056	रुबीशंकर एक्झीम प्राइवेट लिमिटेड	B04380671	U51909MH2004PTC150231
1057	क्लोफ ऑइल अॅन्ड गॅस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04332441	U11200MH2005PTC150531
1058	चॅम्पस शेअर्स अॅन्ड सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B04400560	U67120MH2005PTC150950
1059	डॉल्फीन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	B04417317	U63090MH2005PTC151521
1060	वी आर सर्वीस टॅक्स अॅडवीसर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04353710	U67190MH2005PTC152591
1061	न्युएज ट्रेडप्लेस प्राइवेट लिमिटेड	B04415386	U51909MH2005PTC152629
1062	ब्ल्यू मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04404992	U63032MH2005PTC153153
1063	हॉलीडे ऑटोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04383329	U63040MH2005PTC154421
1064	डेस्टीनेशन टीवी ट्रेवल मॉल प्राइवेट लिमिटेड	B04334801	U92100MH2005PTC154575
1065	श्रीवन एज्युकेशनल कन्सलटन्सी सर्वीसेस प्राइवेट	B04411351	U80100MH2005PTC155268
1066	स्वप्ना शिल्पा होम फिनान्स प्राइवेट लिमिटेड	B04416194	U46519MH2005PTC156243
1067	स्टारफायर ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड	B04354700	U36911MH2005PTC156806
1068	रावीआयपी इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B04384244	U67190MH2005PTC157646
1069	इन्टेग्रेटेड सिस्टम्स अॅन्ड सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04334967	U72900MH2001PTC131506
1070	बायो-अॅग्रोनीक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04369377	U24120MH2003PTC143287
1071	इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन रतलाम प्राइवेट लिमिटेड	B04279493	U65990MH1989PTC051896
1072	कर्नाटका विन्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	B04319877	U40100MH2005PTC158357
1073	सुविज्जा प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04322723	U22110MH2006PTC159624
1074	मॉन्टेक्स पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B04361101	U36991MH2006PTC160353
1075	विविधा स्पेशॅलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04307849	U24100MH2006PTC160690
1076	गेइ कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B04357026	U74140MH2006PTC160700
1077	गॅस्पार एन्क्लेव विंग ए प्रिमायसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04416616	U45201MH2006PTC162753
1078	एएम ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04324786	U27205MH2006PTC165061
1079	विबॉर ट्रेन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	B04331583	U51900MH2006PTC161424
1080	डॉने डे हॉटेल्स चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड	B04374658	U55101MH2006PTC163198
1081	डॉने डे हॉटेल्स कलकत्ता प्राइवेट लिमिटेड	B04374369	U55101MH2006PTC163199
1082	एन्रीच शेअर्स अॅन्ड सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B04371688	U74992MH2006PTC163804
1083	डॉने डे हॉटेल्स लखनौ प्राइवेट लिमिटेड	B04377974	U55101MH2006PTC164093
1084	डॉने डे हॉटेल्स भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड	B04371654	U55101MH2006PTC164170
1085	डॉने डे हॉटेल्स आग्रा प्राइवेट लिमिटेड	B04364881	U55101MH2006PTC164094

1086	अवेसा मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04409165	U51397MH2006PTC164538
1087	महल मिरा डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04394060	U45201MH2006PTC166001
1088	मोझ वेब सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	B04374468	U72300MH2007PTC167964
1089	शार्प सोर्सिंग टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	B04369104	U72200MH2007PTC170153
1090	रिलायन्स रिलेटर्स अँड फिनान्सीयल कन्सलटन्ट्स	B04387221	U45400MH2007PTC172417
1091	शैवी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B04335030	U45400MH2007PTC170254
1092	एफटीके मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B04407573	U74130MH2007PTC173131
1093	अभिजीत मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	B04410742	U51909MH2007PTC170499
1094	वेनी मास्कीया प्रॉपर्टी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04380457	U70102MH2007PTC171460
1095	अटलांटीक मेकॅनिका प्राइवेट लिमिटेड	B04361754	U29100MH2007PTC172134
1096	आयकेम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	B04386413	U24297MH2007PTC173584
1097	युआर रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B04410056	U74990MH2007PTC175983
1098	हाय-टेक रॉडमॅटीक प्राइवेट लिमिटेड	B04403648	U29268MH2007PTC174705
1099	रिकोचेट मॅरकॉम प्राइवेट लिमिटेड	B04355202	U74300MH2007PTC176563
1100	हिरको पनवेल सेज को-डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04425856	U45400MH2007PTC176253
1101	हिरको नाशिक सेज को-डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B04404893	U45209MH2007PTC176320
1102	हिरानन्दानी हाउसींग अहमदाबाद सेज को-डेवलेपर्स	B04385530	U45200MH2008PTC178490
1103	हेम्बाल कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B04394763	U74140MH2008PTC179322
1104	हिरानन्दानी पुणे सेज प्राइवेट लिमिटेड	B04383493	U45203MH2008PTC179702
1105	हिरानन्दानी हॉस्पिटैलीटी चेन्नई सेज को-डेवलेपर्स	B04406583	U55101MH2008PTC180378
1106	हिरानन्दानी हॉस्पिटैलीटी आयटी चेन्नई सेज	B04408936	U72900MH2008PTC180377
1107	हिरानन्दानी हॉस्पिटैलीटी आयटी नाशिक सेज	B04425740	U70102MH2008PTC180365
1108	हिरानन्दानी हॉस्पिटैलीटी आयटी चेन्नई सेज	B04407870	U72900MH2008PTC180381
1109	हिरानन्दानी एन्टरटेनमेन्ट अहमदाबाद सेज	B04405734	U70102MH2008PTC180366
1110	हिरानन्दानी हाउसींग चेन्नई सेज को-डेवलेपर्स प्राइवेट	B04427720	U45203MH2008PTC180375
1111	हिरको प्रॉपर्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B04427639	U70102MH2008PTC180040
1112	रिद्धी हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	B04791505	U70130MH1991PTC062525
1113	नोवा होल्डींग्स लिमिटेड	B04753901	U74920MH2006PLC160537
1114	कॅट स्किल्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	B04996211	U30007MH1996PTC096263
1115	मॅगनेट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B04999207	U51909MH2002PTC136925
1116	याक अँड येती इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	B05386388	U17302MH1995PTC086349
1117	गुरु सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	B05575535	U99999MH1989PTC051539
1118	नीओलक्स फिनान्स लिमिटेड	B05773064	U65920MH1986PLC038741
1119	कॉसवेदीक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड	B05891015	U99999MH1996PTC100324
1120	आर्कटीक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B05935457	U74140MH2000PTC123642
1121	कस्टमर कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B05875406	U64201MH2001PTC133597
1122	श्रीचक्र डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B06068605	U99999MH1996PTC102764
1123	एचडब्ल्यूएच नेटवर्क मार्केटींग प्राइवेट लिमिटेड	B06391932	U52390MH2007PTC170675
1124	झुनझुनवाला इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	B06701916	U32109MH1986PTC040028
1125	रिषभ रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	B06681597	U63090MH2000PTC128279
1126	रोदास सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	B06620710	U52590MH2002PTC135345
1127	टिटूस टेक्नॉलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	B06623227	U72900MH2000PTC127330
1128	कापड ट्रेडर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B06777189	U17120MH1941PTC003472

1129	विरल स्पिनर्स लिमिटेड	B06932032	U17120MH1993PLC071798
1130	पॅरामाउंट विडीओ प्राइवेट लिमिटेड	B07017858	U92113MH1984PTC033560
1131	ओरीजीन फिनान्स लिमिटेड	B07045800	U65900MH1995PLC091081
1132	आरएम इन्फोलिंक टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	B07033673	U72900MH2008PTC178674
1133	ऑरके लिजींग अँड फिनान्स लिमिटेड	B07175367	U65910MH1987PLC042191
1134	मेडीकल मार्केटींग इन्साइट्स प्राइवेट लिमिटेड	B07486657	U85110MH2006PTC166130
1135	विवस्वान बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	B07603905	U45200MH2004PTC148914
1136	जॉर्ड अँग्रो ऑइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	B07677669	U15143MH1992PLC069434
1137	मेरीडाइन टेक्नीकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B07794852	U61100MH1994PTC078440
1138	म्युरल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B07967920	U67120MH1991PTC060150
1139	टाइनी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B07941917	U65990MH1991PTC060428
1140	फल्कॉन पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B08150039	U99999MH1993PTC070467
1141	आनंदा फुड्स प्राइवेट लिमिटेड	B08121246	U15130MH2005PTC151856
1142	बैन्द्रा वेस्ट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	B08197246	U74140MH2007PTC170007
1143	सर्वोदया फिनान्सीयल कन्सलटन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B08276610	U67190MH1988PTC050002
1144	वार्न एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	B08262040	U45200MH1994PTC083949
1145	श्री अँगल्स इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B08285256	U65993MH1997PTC108149
1146	झोरबा फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	B08236176	U92110MH2004PTC144272
1147	सुशैला इंजिनिअरिंग प्राइवेट लिमिटेड	B08351157	U28920MH2004PTC029349
1148	वर्सा ट्रीप सक्क्युट ब्रेकर्स मैन्युफैक्चरींग कंपनी प्राइवेट	B08471583	U31200MH1978PTC020446
1149	सुयश सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	B08500514	U67120MH2004PTC149649
1150	वॉन्डर टॉयज प्राइवेट लिमिटेड	B08469645	U52398MH2005PTC158148
1151	सोएम टेक्नोलॉजीज अँड कन्सलटन्सी प्राइवेट लिमिटेड	B08547317	U72200MH2006PTC163098
1152	मुनलाइट रिसॉर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B08693459	U55200MH1996PTC099517
1153	फेलीसीटी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B08685570	U51900MH2005PTC158081
1154	रीटझ कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	B08730822	U32303MH1991PTC064288
1155	क्षमा रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड	B08698482	U45200MH1993PTC072228
1156	हसमुखलाल मथुरदास टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	B08712150	U17120MH1994PTC079845
1157	क्वीवर अँडव्हीसरी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B08749590	U74100MH2005PTC157280
1158	स्नॅप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	B08721953	U72200MH2006PTC162805
1159	सोनी कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	B08889834	U45102MH2001PTC131688
1160	फोर्ब्स स्मार्ट डाटा लिमिटेड	B08997983	U72100MH2006PLC161311
1161	ऑयस्टर कन्टेनर सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B09343542	U63090MH1998PTC116172
1162	गणेश कॉम्प्युटर एप्लिकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B09492018	U80302MH2000PTC124484
1163	प्रकाश ऑटोरायर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	B09580283	U50101MH2001PTC131973
1164	बॉक्स बोर्ड पॅकेजींग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B09780735	U25100MH1996PTC102211
1165	अँकॉर्ड एल ग्लोबल लॉजीस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	B09841214	U63090MH1997PTC111035
1166	सन्नीच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	B09875667	U74999MH1993PTC071654
1167	ट्रेंडी इन्वेस्टमेन्ट्स अँडवीसर प्राइवेट लिमिटेड	B09871054	U67110MH2005PTC152281
1168	लोधा अटेंशन बिल्डर्स अँड फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	B09886896	U45200MH2007PTC168703
1169	लोधा ट्रान्सपर्टन्ट हाय टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	B09952334	U45200MH2007PTC168734
1170	प्रबोध कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड	B09993726	U52100MH2008PTC179682
1171	ड्युबेरी ट्रेडींग प्राइवेट लिमिटेड	B09993254	U51109MH2008PTC179688
1172	शितल अर्बन हाउसींग प्राइवेट लिमिटेड	B10146207	U70101MH2004PTC147185

1173	इन्टेग्रा अर्बन स्पेस डेवलेपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B10146710	U45200MH2005PTC156639
1174	सर्ज कन्ट्रोल अँड फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड	B10311686	U74210MH1995PTC092643
1175	डायप्लस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	B10322337	U51398MH1998PTC115817
1176	दी बॉम्बे रजिस्टर्ड पाइप डिलर्स सिंडीकेट लिमिटेड	B10381119	U99999MH1948PLC006238
1177	अँदेज सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	B10344554	U72200MH1983PTC031468
1178	अर्श फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	B10401677	U15100MH1986PTC040522
1179	रॉयल प्लान्ट हायर्स प्राइवेट लिमिटेड	B10387991	U29241MH1991PTC061795
1180	न्यु एज स्टील ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	B10383776	U51102MH2006PTC161821
1181	गैलेक्सी इन्टेरीयर्स प्राइवेट लिमिटेड	B10488799	U74994MH1991PTC063526
1182	एज अमेरीकन इन्टर्नेशनल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	B10472389	U66010MH2002PTC136086
1183	लोक अकाउंटिंग अँड टेक्नीकल सर्विसेस प्राइवेट	B10725497	U74999MH1987PTC043131
1184	केएसएम इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	B10745719	U67120MH1999PTC121614
1185	आर अँड डब्ल्यू साउंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	B10753309	U92140MH1999PTC122866
1186	शेखर कपूर एन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	B10762334	U92100MH2003PTC143091
1187	देव रिऑलिटी अँड डेवलपर्स लिमिटेड	B10756302	U45200MH2008PLC177608
1188	रामुका केबल्स प्राइवेट लिमिटेड	B10827384	U31300MH1991PTC059790
1189	राइटवे बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	B10827848	U45201MH2006PTC163132
1190	दिवेश अँग्री प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	B10828325	U70101MH2006PTC166351

हेनरी रिचर्ड
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डिफूसा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी-403001, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. कर/560(3)/1118--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डिफूसा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फलेरो इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पणजी-403001, दिनांक 8 अगस्त 2011

सं. कर/560(3)/1121--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फलेरो इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 4 अगस्त 2011

सं. 3(109)/560(5)/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	2100	मैसर्स जे. एण्ड बी. इन्टीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	2228	मैसर्स फस्ट इन्साइट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पान्डि डिजाइन एडीसन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. 3(109)/560(3)/2011/2429--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पान्डि डिजाइन एडीसन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पावरसेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. 3(109)/560(3)/2011/1008--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पावरसेट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. स्वामीदासन
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. कर.प.ब./ईईएस-560/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	099167	मैसर्स राखी ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
2.	099175	मैसर्स साकेत क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	089219	मैसर्स शिखा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	150587	मैसर्स ड्रीमसायल नेटमार्क सोल्युशन (इंडिया) लिमिटेड

1	2	3
5.	086790	मैसर्स एग्रीको इन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
6.	153555	मैसर्स जागो बंगला मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. 560(5)/6485--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	008001	मैसर्स बोडोलैंड सिक्वोरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2.	000726	मैसर्स आसाम राईस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	008445	मैसर्स विक्की एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
4.	006485	मैसर्स वी. केयर डायग्नोसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड

पी. एस. सेएम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिल्वरलाईन एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. एफ-3/ईईएस-2010/कं.र/9300/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिल्वरलाईन एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अलुम्यूटिल फाईनेशियल इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. एफ-3/ईईएस-2010/कं.र/9300/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलुम्यूटिल फाईनेशियल इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पयनियर सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. एफ-3/ईईएस-2011/कं.र/9299/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पयनियर सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फैंप्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. कं.र/9299/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फैंप्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. जी. जोसफ जाक्सन
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स न्यू ट्रेवलमार्ट (के) ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 2 जून 2011

सं. कं.र/9298/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू

ट्रेवलमार्ट (के) ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स थनिमा कन्सट्रक्शन्स एण्ड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 2 जून 2011

सं. कं.रं/9298/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स थनिमा कन्सट्रक्शन्स एण्ड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स प्रचारिणी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-एरणाकुलम/एसईसी/560/2011/00229--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रचारिणी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फेयर डील प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-एरणाकुलम/एसईसी/560/2011/00227--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फेयर डील प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डिवाइन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. कं.रं/9302/2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डिवाइन प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल और लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

चैन्ने, दिनांक 16 अगस्त 2011

सं. 066 से 65441 तक/560(5)/ईईएस-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	00066	मैसर्स अन्दमान कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	06374	मैसर्स मरीना पैकेजिंग एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	11658	मैसर्स जेगी एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	13303	मैसर्स प्रवीन सेल्स एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
5.	15651	मैसर्स मोडी ट्रेवलर्स एण्ड ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	20124	मैसर्स सम्युक्ता फिल्मस लिमिटेड
7.	24520	मैसर्स मानाम् इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	26623	मैसर्स कलारा ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड
9.	29086	मैसर्स ग्रान्डट्रस्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
10.	35578	मैसर्स रचना ट्रांसक्रिप्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	36774	मैसर्स रामी एग्रो ऑयल्स लिमिटेड
12.	37857	मैसर्स अम्बाल फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स चेन्नई लिमिटेड
13.	37974	मैसर्स फिरदौस इस्लामिक फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (मद्रास) प्राईवेट लिमिटेड
14.	38524	मैसर्स नगप्पा पैट्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
15.	39340	मैसर्स ट्रेडेक्स पिल एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	27.	51057	मैसर्स अनै पॉलिमर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
16.	41247	मैसर्स हमीडिया एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	28.	51869	मैसर्स इन्फो करमा सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	41361	मैसर्स के-इन्ट'एल टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	29.	52333	मैसर्स एस. एस. एस. कन्ट्रेक्टर्स एण्ड फाउण्डेशन प्राईवेट लिमिटेड
18.	42394	मैसर्स माक्सप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	30.	52577	मैसर्स जी. के. इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
19.	44291	मैसर्स आब्जेक्टप्रो सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	31.	54064	मैसर्स जीनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	45359	मैसर्स आशान फूड्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	32.	54694	मैसर्स वीन रिसर्च एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
21.	45481	मैसर्स टैरटली टैक्नोलॉजिस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	33.	60241	मैसर्स है सर्व कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	45855	मैसर्स हरीजीत आटो प्राईवेट लिमिटेड	34.	60271	मैसर्स स्लीक्कुवोड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
23.	46921	मैसर्स वीविन एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड	35.	63519	मैसर्स सार ट्रान्सक्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	49784	मैसर्स मोडल्स ब्राइट फ्यूचर पर्सनलिटी डवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड	36.	65441	मैसर्स मोहन माइक्रोबेस प्राईवेट लिमिटेड
25.	50766	मैसर्स हैपरजीस्टीक्स कम्प्यूटिंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड			
26.	50914	मैसर्स एस. के. पी. मार्केटिंग (चेन्नई) प्राईवेट लिमिटेड			

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 10th August 2011

No. O. II-5719/2011-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of resignation from Government Service by the competent authority, Shri Pradeep Kumar, Dy. Commandant (IRLA-5719) of 113 Bn, CRPF has relinquished his post on 19.07.2011 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 19.07.2011 (AN).

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

No. O. II-4054/2011-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri B. N. Sidh, Dy. Commandant (IRLA-4054) of 37 Bn, has relinquished his post on 01.05.2011 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.05.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

The 11th August 2011

No. O. II-3882/2011-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Pranabjyoti Deka as Specialist Medical Officer (Deputy Commandant) (Pathology) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/- in temporary capacity from the forenoon of 02.08.2011 till further orders. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Jammu.

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

No. O. II-3640/2011-Pers—The Govt. of India have appointed Shri Chiranjeev Prasad, IPS (MH : 96) as Deputy Inspector General (DIG) in CRPF on deputation in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,900/- for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Deputy Inspector General, CRPF on the forenoon of 08.08.2011.

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

No. O. II-5828/2011-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri P. K. Hari Kumar, Dy. Commandant (IRLA-5828) of 206 CoBRA Bn has relinquished his post on 02.07.2011 (FN). Accordingly,

his name stands deleted from the Role of the force with effect from 02.07.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

No. O. II-3876/2011-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sandhya N. S. as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 11.07.2011 till further orders. She has reported/joined in CH CRPF Pallipuram.

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

No. O. II-3875/2011-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sachin Kumar as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 21.06.2011 till further orders. He is posted to 9th Bn, CRPF.

R. N. MISRA
DIGP (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 11th August 2011

No. Admn. (CA)17-2(AO)/Vol-VII/1030—In pursuance of OOC No. 420 dated 28.07.2011 communicated vide Memo No. Admn. (CA)-17-2(AO)/Vol.-VII/914 dated 28.07.2011 the following Asst. Audit Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date as indicated against each.

Name	Date of taking over charge as Audit Officer
Bichitrananda Biswal	01.08.2011(FN)

R. K. DAS
Sr. Audit Officer/Admn.(CA)

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)

New Delhi, the 8th August 2011

No. A-19018/1787/2010-A (G)—On attaining the age of superannuation, Shri Manohar Lal, Assistant Director, Grade-I

(IES) in the Office of Development Commissioner, Micro, Small & Medium Enterprises, New Delhi retired from Government service on the afternoon of 31.07.2011.

MAHINDER SINGH

Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 16th August 2011

No. A-19011/537/97 Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri L. H. Chhangte, Asstt. Controller of Mines, is promoted to the post Senior Asstt. Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Bangalore, w.e.f. 27.07.2011 (A.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

The 18th August 2011

No. A-19011/614/2011-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri Jaykrishna Babu Varigonda, to the post of Regional Controller of Mines in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.06.2011 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

Nagpur, the 18th August 2011

No. A-19011/202/2010-Estt. APP—Dr. A. K. Srivastava, Chief Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.7.2011 on attaining the age of superannuation.

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Admn. Officer

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 16th August 2011

No. AERB/Adm./1/77/3217—The President is pleased to appoint Smt. Rajeshri Hrishikesh Pai as Scientific Officer (D) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) at the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Mumbai with effect from the forenoon of December 1, 2010 until further orders.

S. KRISHNAN
Chief Admn. Officer

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 16th August 2011

No. RRCAT/Admn./2011/R-805/960—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer/F (PB : 4, Rs. 37,400—67,000/- Grade Pay Rs. 8,700/-) as Scientific Officer/G (PB : 4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/-) with effect from Forenoon of 01.07.2011 in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sr. No.	CC No.	Name	Div./Section
		S/Shri/Dr./Smt.	
1.	5	P. C. Jain	C&SD
2.	60	V. K. Bhatnagar	ACDFS
3.	65	P. Renukanath	PSAID
4.	174	Beena Jain	LBAID
5.	323	Y. B. S. R. Prasad	LPD
6.	382	R. K. Gupta	IOAPDD
7.	486	Prashant Khare	CCDS
8.	516	K. Ranganathan	SSLD
9.	558	Avijit Chowdhary	Tr. School
10.	750	D. V. Ghodke	PLSCD
11.	791	Vilas Sathe	UHVID
12.	803	Abhay Kumar	IMAS
13.	804	Apollo Kasliwal	PSAID
14.	805	Alok Dubey	LBAID
15.	815	K. S. Bartwal	LMDDD
16.	816	M. K. Badapanda	RFSD
17.	941	Vinit Kumar	ACBDD
18.	943	Om Prakash	LSES
19.	953	S. S. Tomar	C D
20.	1070	Tapas Ganguli	ISUD
21.	1091	M. B. Borage	PSAID
22.	1166	K. K. Pant	SSLD
23.	1385	Aparna Chakrabarti	ISUD

B. K. JENA
Chief Admn. Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kafco Private Limited

New Delhi-110019, the 19th February 2011

No. 560(5)/011086—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Kafco Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinanu Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 11th April 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00157—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vinanu Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Excelled Sheepskin and Leather Coat (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 21st April 2011

No. 560(5)/109294—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excelled Sheepskin and Leather Coat (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Westfalia Surge India Private Limited

New Delhi-110019, the 28th June 2011

No. 560(5)/177844—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Westfalia Surge India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Interlaken Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00359—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Interlaken Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zermatt Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 4th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00355—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zermatt Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Future Bonds and Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Future Bonds and Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Vikas Services Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shakti Vikas Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panther Machines Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/36676—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panther Machines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E. H. Strategic Consulting Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/67330—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E. H. Strategic Consulting Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Roop Bharati Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/2691—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Roop Bharati Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aubona Global Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/95704—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aubona Global Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patna Waste Management Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/163013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patna Waste Management Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pace Garments Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/165472—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pace Garments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Horizon Ites Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/126568—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Horizon Ites Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. High Speed Construction and Marketing Private
Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/86220—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. High Speed Construction and Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Remedies Bioceuticals Private Limited

New Delhi-110019, the 6th July 2011

No. 560(5)/117939—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Remedies Bioceuticals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunflag Forgings Private Limited

New Delhi-110019, the 11th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00403—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunflag Forgings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Powergrid IL&FS Transmission Private Limited

New Delhi-110019, the 20th July 2011

No. 560(5)/170796—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Powergrid IL&FS Transmission Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Payas Finance & Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 25th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00506—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Payas Finance & Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nano Cores (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00032—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nano Cores (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Metalexport-S India Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/178455—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Metalexport-S India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jeevan Dhara Network Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/179116—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeevan Dhara Network Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinanu Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/185904—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vinanu Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Four Seasons Hotels Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/10013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Four Seasons Hotels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tanya Technology Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/103572—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tanya Technology Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uniconnect Edutech Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/175823—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uniconnect Edutech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vinanu Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/185904—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vinanu Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. White Sea Beverages and Food Processing Private
Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/135859—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. White Sea Beverages and Food Processing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sivananda Ayurvedic Remedies Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/094640—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sivananda Ayurvedic Remedies Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aryavart Creations Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/137262—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aryavart Creations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. K. U. Export Consultants and Services Private
Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/038918—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. U. Export Consultants and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Trutopia Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/181817—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Trutopia Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaycee Chalmers India Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/105201—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaycee Chalmers India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stanford Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/41733—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stanford Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gardez Bien Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/105514—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gardez Bien Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glitter Steels Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/130930—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glitter Steels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Om Universal Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/180803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Om Universal Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yashudha Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/106290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yashudha Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shopcorn Online Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/178086—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shopcorn Online Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Sai Surveyors Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/181219—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Sai Surveyors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swaroop Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/93070—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swaroop Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ASPU Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/87405—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ASPU Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dilkushh Finance Company Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/048027—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dilkushh Finance Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neole Retail Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/147572—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Neole Retail Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cubellis India Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/182477—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cubellis India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karina Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00114—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Karina Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grand Speed Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/102230—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Grand Speed Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. GMJ IT Distribution Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec. 560/2011/00108—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. GMJ IT Distribution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unicon Sales Network Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/183855—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unicon Sales Network Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advine Invest and Trading Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/065998—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Advine Invest and Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Agro Forestry Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/58309—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Green Agro Forestry Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adcept Wealth Care Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/182865—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adcept Wealth Care Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Malangtoli Minerals Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/187543—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Malangtoli Minerals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vedatma Herbalways Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/038631—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vedatma Herbalways Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elite Planners & Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/058565—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elite Planners & Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhillon Manesar Hospitality Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/039356—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhillon Manesar Hospitality Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. MKS Products Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/102102—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. MKS Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Platina Steel & Alloys Private Limited

New Delhi-110019, the 28th July 2011

No. 560(5)/201209—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Platina Steel & Alloys Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pulse Cargo and Logistics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/120197—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pulse Cargo and Logistics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Econotech Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/50035—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Econotech Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/104964—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anand Couriers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. T. Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/127289—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. T. Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bergen Blakell (India) Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/041645—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bergen Blakell (India) Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Achal Steels Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/120433—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Achal Steels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sundeepi Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/136963—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sundeepi Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanex Import and Export Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/124474—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanex Import and Export Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwakrama Home Makers Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/118797—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwakrama Home Makers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hyatt-Biz Online Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/111681—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hyatt-Biz Online Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhilwara Infoway Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/104400—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhilwara Infoway Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Virmani Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/040977—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Virmani Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chirag Infrabuild Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/170624—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chirag Infrabuild Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uttarakhand Hydropower Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/188012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uttarakhand Hydropower Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpha Infosoft Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/164843—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alpha Infosoft Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. T. Texo Fab Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/37912—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. T. Texo Fab Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambience IT Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/138041—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambience IT Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hexford Laboratories Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/195575—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hexford Laboratories Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fylfot Manufacturing Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/83701—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fylfot Manufacturing Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P. Sehgal Chit Fund Company Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/26043—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P. Sehgal Chit Fund Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daddy Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/61564—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Daddy Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Orient Computronics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/165491—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orient Computronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Butterfly Informatics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/114471—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Butterfly Informatics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Blubol Controls India Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/12694—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Blubol Controls India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lifestyle Plastics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/72276—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lifestyle Plastics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chrysalis International Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/44026—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chrysalis International Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. H. Technobuild Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/163248—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. H. Technobuild Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Verzonee Manpower Services Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/177923—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Verzonee Manpower Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ritech Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/113897—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ritech Electronics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Woodcock Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 6th August 2011

No. 560(5)/178382—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Woodcock Infotech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elastomer Technologies and Consulting India
Private Limited

New Delhi-110019, the 8th August 2011

No. 560(5)/159967—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elastomer Technologies and Consulting India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Milan Event Management Private Limited

New Delhi-110019, the 8th August 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2011/00339—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Milan Event Management Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marigold Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 8th August 2011

No. 560(5)/78828—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marigold Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Agrofoods Private Limited

New Delhi-110019, the 8th August 2011

No. 560(5)/177194—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aravali Agrofoods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sibal Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 9th August 2011

No. 560(5)/018216—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sibal Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

New Delhi-110019, the 17th August 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2010/Part-II/7424—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company	Name
1	2	3	
1.	061190	M/s. Strip-N-Metal Machinery Private Limited	(India)
2.	056663	M/s. Yoganj Investments Private Limited	
3.	122341	M/s. Yaksh Biotech India Private Limited	
4.	015651	M/s. Omega Constructions Private Limited	
5.	043178	M/s. Instant Builders Private Limited	
6.	032571	M/s. Jackno Electrical Industries Private Limited	
7.	052674	M/s. Jagrook Holdings Private Limited	

1	2	3
8.	062892	M/s. Retreat Estates Private Limited
9.	014808	M/s. New Era Finance and Investment Private Limited
10.	066688	M/s. Pravik Holdings and Leasing Private Limited
11.	075978	M/s. Reliant Finlease Limited
12.	030094	M/s. Sahyog Associates Private Limited
13.	026939	M/s. Sumangal Agencies Private Limited
14.	071109	M/s. Sidha Baba Finance and Leasing Private Limited
15.	073200	M/s. Jhankar Leasefin Private Limited
16.	066318	M/s. Solid Fincap Private Limited
17.	066234	M/s. Kajla Frinvest Limited
18.	057676	M/s. Harinder Leasing and Finance Limited
19.	056653	M/s. Mudra Constructions Private Limited
20.	039217	M/s. Girraj Credits Limited
21.	083211	M/s. Tanusri Western Finsec Private Limited
22.	016519	M/s. Maxworth Techno Projects Limited
23.	069980	M/s. Saumya Spinning Mills Limited
24.	066263	M/s. Silverline Financial Services Limited
25.	058778	M/s. Vichitra Investments Private Limited

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 17th August 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2011/Part-II/7425—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register of the Registrar of Companies, Delhi and Haryana and are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1	2	3
1.	089118	M/s. Sarvodaya Computer Services Private Limited

1	2	3
2.	124992	M/s. Shyam Milk Private Limited
3.	124909	M/s. Das Restaurants and Hotels Private Limited
4.	163863	M/s. Maa Medicare Company Private Limited
5.	103439	M/s. Panasoft Info.Com Private Limited
6.	144053	M/s. Kone Travel Services Private Limited
7.	039205	M/s. Himalaya Sales Private Limited
8.	083393	M/s. Suraj Mukhi Chemicals Private Limited
9.	103931	M/s. Webquity E-Marketing Private Limited
10.	066007	M/s. Team Four Hospitality Services Private Limited
11.	028762	M/s. Asia Testing and Constructions Private Limited
12.	128124	M/s. Aditya Creations Private Limited
13.	024654	M/s. New Wave Leasing Limited
14.	033743	M/s. Technoguard India Private Limited
15.	083826	M/s. Zee G Finance and Leasing Private Limited
16.	126199	M/s. Nandeetas Designs Private Limited
17.	115708	M/s. Vinmax Direct Sellerz Private Limited
18.	120236	M/s. Dhan Raksha Solutions Private Limited
19.	121689	M/s. Real Value Jewellery Private Limited
20.	023625	M/s. Gautam Kochhar Consultancy Services Private Limited
21.	141383	M/s. Straightdrive E-Solutions Private Limited
22.	121253	M/s. Call Shift Business Process Outsourcing Private Limited
23.	114124	M/s. MC Prints Media Private Limited
24.	057013	M/s. Shelly Associates Limited
25.	124576	M/s. Shree Krishna Towers Private Limited
26.	090665	M/s. NRK Microelectronics Private Limited
27.	050321	M/s. Aeon Export Private Limited
28.	012166	M/s. Samyukta Enterprises Private Limited

1	2	3	1	2	3
29.	140398	M/s. Siddhant Ayurvedic Medicare Private Limited	55.	097299	M/s. Ultimate Data-Systems Solutions Private Limited
30.	136895	M/s. Everest Buildtech Private Limited	56.	098587	M/s. Diva Manufacturers Private Limited
31.	173405	M/s. E Rights Consulting Private Limited	57.	040871	M/s. Genie Chit Fund Private Limited
32.	111259	M/s. Karan Gastronomie Private Limited	58.	151579	M/s. LVD India Private Limited
33.	062433	M/s. Dangsons Mercantile Private Limited	59.	172012	M/s. Arazi Marketing Private Limited
34.	091053	M/s. Koshaarmet Finance Co. Private Limited	60.	015026	M/s. Vanson Chit Fund Private Limited
35.	051037	M/s. Bhartiya Udyog Limited	61.	040967	M/s. Sikri Chits Private Limited
36.	050799	M/s. Claude Advertising Private Limited	62.	036917	M/s. T. R. Marketing and Manufacturing Private Limited
37.	115918	M/s. Hydronix Energy Generation Private Limited	63.	041792	M/s. Prem Nath Engine Private Limited
38.	105791	M/s. Alphatech Solutions Private Limited	64.	090539	M/s. Actuaries Panorama Private Limited
39.	100146	M/s. Smridh India Private Limited	65.	028933	M/s. Shanta Engineers Private Limited
40.	104328	M/s. Diligent Data Solutions Private Limited	66.	094010	M/s. ACE Exim India Private Limited
41.	096754	M/s. Chopra Projects Limited	67.	107044	M/s. Versha Infotec Private Limited
42.	115811	M/s. Sri Lalitambika Engineers Private Limited	68.	031227	M/s. Bishandas Steel Tubes Private Limited
43.	086291	M/s. Lotus Green Valleys & Marketing Private Limited	69.	168813	M/s. Global Travelco (India) Private Limited
44.	115149	M/s. Mechem Techno Air Equipments Private Limited	70.	159830	M/s. Vintech Systems (India) Private Limited
45.	129644	M/s. Buz Import Export Private Limited	71.	120527	M/s. Guards-24-Security and Facility Management Private Limited
46.	077638	M/s. Axis Infotech Private Limited	72.	014065	M/s. Gitanjali Leathers Private Limited
47.	051161	M/s. Satnam Gas Service Limited	73.	150825	M/s. First Resorts Private Limited
48.	118841	M/s. Satya Sai Technical Services Private Limited	74.	035273	M/s. Malik Ice and Food Industries Private Limited
49.	155116	M/s. VOS Contracting Private Limited	75.	116685	M/s. K. B. Roadlines Private Limited
50.	109241	M/s. Aster Computers Private Limited	76.	053881	M/s. Mahajan Capital and Financing Private Limited
51.	168367	M/s. Fusion Holding (India) Private Limited	77.	091331	M/s. NFC Investments Limited
52.	037778	M/s. Cosmos Overseas Projects Private Limited	78.	067647	M/s. Harikrishna Computers Private Limited
53.	100097	M/s. Essex Aluminium System (India) Private Limited	79.	109314	M/s. ANM Overseas Private Limited
54.	156285	M/s. Eversmart Techno Solution Private Limited	80.	092518	M/s. Oriental Non Conventional Energy Resources Private Limited
			81.	118831	M/s. Zed Manpower Solutions Private Limited

1	2	3
82.	102782	M/s. Hi-Care Software Technologies Private Limited
83.	166310	M/s. Salvo India Overseas Trading Private Limited
84.	089541	M/s. Rendezvous Trading Private Limited
85.	114599	M/s. Upul Travels and Holidays Private Limited
86.	128005	M/s. Vista Tours (India) Private Limited
87.	128167	M/s. D. G. Exim Private Limited
88.	073369	M/s. Sayog Finlease and Securities Private Limited
89.	168053	M/s. Krishana Infrsolution Private Limited
90.	116157	M/s. Pro Media Equipment Private Limited
91.	127491	M/s. Accela Media Private Limited
92.	174512	M/s. Surbhi Animation Private Limited
93.	086801	M/s. Disney Resorts Limited
94.	078275	M/s. Dogma Auto Industries Limited
95.	132875	M/s. Golden Valley Vintner Private Limited
96.	031332	M/s. Season's Chits Private Limited
97.	112746	M/s. Yuvraja Construction Private Limited
98.	153979	M/s. Mayur Movies Private Limited
99.	171555	M/s. AD Solar Private Limited
100.	097541	M/s. Batra Appliances Limited

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vibhuti Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 30th May 2011

No. 560(5)/31502—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vibhuti Chit Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ANITA KLAIR
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Elegant Gold Private Limited

New Delhi-110019, the 25th July 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/00358—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Elegant Gold Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ASHOK KUMAR BEHL
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Brickred Consultancy Services Private Limited

New Delhi-110019, the 5th August 2011

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/Sec 560/2011/00391—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brickred Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ASHOK KUMAR BEHL
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kunrun India Finance Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/144223—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kunrun India Finance Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sethi Plastic Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/28555—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sethi Plastic Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai-400002, the 19th August 2011

No. RoC/EES-2010/560(5)/4390—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off the register and the said company are dissolved :—

SR. NO	COMPANY NAME	SRN NO	संख्या CIN NO.
1	RELIANCE INFOCOMM MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED,	A87375382	U72900MH2000PTC127501
2	METRO SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	A87598017	U24300MH1988PTC047217
3	IONIC HOTELS PRIVATE LIMITED	A87601266	U55200MH1990PTC058600
4	BLUE ROSE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A87564860	U67120MH2006PTC162405
5	ATLANTA COSMETICS PRIVATE LIMITED	A88075999	U24246MH1997PTC110675
6	P AND O INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	A88199591	U74999MH2003PTC139913
7	MJFT TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A88300587	U72900MH2001PTC131064
8	CASABLANCA RESORTS PRIVATE LIMITED	A88629381	U55100MH1998PTC117562
9	SECURE INVESTMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED	A88646146	U67190MH2000PTC126111
10	QUANTINFORMATIX (INDIA) PRIVATE LIMITED	A88722301	U72200MH2000PTC129478
11	LEO TAPES PRIVATE LIMITED	A88909817	U25199MH2002PTC135305
12	PROMEDIA AUDIO VIDEO PRIVATE LIMITED	A88933684	U52335MH2004PTC148276
13	M SONS ENGINEERING LIMITED	A88958863	U99999MH1982PLC026986
14	KILLICK POWER LIMITED	A89053029	U67120MH1987PLC043934
15	RATAN FINTECH PRIVATE LIMITED	A89083018	U67120MH1996PTC102077
16	TDS PHARMA PRIVATE LIMITED	A89061352	U24230MH2003PTC139745
17	ACTIVE PHARMA PRIVATE LIMITED	A89291132	U51397MH1997PTC107983
18	ADVANI BROTHERS HOLDINGS PRIVATE LIMITED	A89462857	U65990MH1982PTC026983
19	SOLUS BIO VENTURES PRIVATE LIMITED	A89611560	U74140MH2005PTC155305
20	SYMPHONY HOMES PVT LTD	A89708523	U70101MH1992PTC068650
21	STARWAR INVESTMENT PRIVATE LIMITED	A89724256	U67120MH1995PTC091018
22	ONEX SECURITIES PRIVATE LIMITED	A89663132	U65993MH1995PTC093996
23	MJP BOILERS ECONOMISERS SUPERHEATERS PRIVATE LIMITED	A89905772	U74210MH1976PTC018835
24	SHRIPATI IMPEX PRIVATE LIMITED	A89937239	U51900MH1992PTC067153
25	SUDHIR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A89936298	U74140MH1997PTC109023
26	OPEX TRADING PRIVATE LIMITED	A89941017	U51900MH1998PTC115485
27	K S CHEMICAL PRIVATE LIMITED	A89903611	U24100MH1999PTC121231
28	JEAL ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED	A90066051	U51909MH1997PTC107325
29	OP AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	A90126525	U29290MH1988PTC047611
30	DANZAS FREIGHT (INDIA) PRIVATE LIMITED	A90229550	U60300MH1992PTC065178
31	BIPIN VORA SHARE AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	A90278318	U67120MH2002PTC137517
32	SATYAGIRI EYEWOW INTERNATIONAL PROJECTS PRIVATE LIMITED	A90296120	U45200MH2005PTC152653
33	EURO ASIA FINANCE LIMITED	A90343385	U65900MH1998PLC117260
34	ARTICULAR TRADING PRIVATE LIMITED	A90356080	U51310MH2007PTC171800
35	VIDHATA TEXTILES PVT LTD	A90425836	U17120MH1982PTC027869
36	RELTECH VENTURE CAPITAL PRIVATE LIMITED	A90448721	U74999MH2000PTC126925
37	RELIANCE BROADCOM PRIVATE LIMITED	A90449299	U64200MH2000PTC127626
38	NETIZEN UTTAR PRADESH PRIVATE LIMITED	A90447707	U72900MH2000PTC128377
39	FAIRS AND MORE (INDIA) PRIVATE LIMITED	A90390592	U74999MH2003PTC138744
40	E CIRCLE TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A90448358	U74999MH2000PTC126805
41	SAMIRA MANORS PRIVATE LIMITED	A90431297	U45200MH2008PTC178056
42	SAMIRA BAY COMPANY PRIVATE LIMITED	A90429812	U63032MH2008PTC177966

43	R D CHEMICAL-CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A90518630	U99999MH1982PTC026746
44	PRAMKO FINANCIAL INVESTMENT AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	A90458662	U65990MH1982PTC029001
45	SAVANI IMPEX PRIVATE LIMITED	A90484668	U51900MH1983PTC029972
46	YOGENDRA ENGINEERING AND PLASTICS PVT LTD	A90512989	U28920MH1987PTC044191
47	BBC FRUITS AND VEGETABLES COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	A90529488	U63022MH2002PTC136439
48	MATE CONSTRUWEL PRIVATE LIMITED	A90538109	U70101MH2003PTC140647
49	PARRYS BEARINGS LIMITED	A90551243	U29130MH1972PLC015893
50	PARK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A90606872	U65990MH1976PTC018930
51	BLISS FARMS PVT LTD	A90545799	U05004MH1984PTC032282
52	PRAGATI PROPERTIES AND TRADERS PRIVATE LIMITED	A90602129	U70100MH1988PTC048311
53	SHANTI CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	A90562554	U67120MH1995PTC091888
54	MATE GREEN MEADOWS PRIVATE LIMITED	A90623273	U70101MH2003PTC140631
55	MATE REALTIES PRIVATE LIMITED	A90620410	U70101MH2003PTC140652
56	CONCORDAS INFORMATICS INDIA PRIVATE LIMITED	A90545252	U72900MH2004PTC145508
57	SURESH CHEMICALS PRIVATE LIMITED	A90632811	U24110MH1975PTC018159
58	HYD-AIR MAGNETS PRIVATE LIMITED	A90699323	U27100MH1981PTC025565
59	WEST COAST ESTATES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A90712175	U45200MH1989PTC050475
60	LODHA AND KANUNGO PROPERTIES P.LTD.	A90711128	U45200MH1992PTC064822
61	DARK HORSE ADVERTISING P.LTD.	A90703273	U74300MH1994PTC076397
62	BRABANTIA CONCEPTS MARKETING PRIVATE LIMITED	A90711805	U51909MH2004PTC148574
63	LIGHT HOUSE BUILDERS PRIVATE LIMITED	A90709221	U70100MH2005PTC155577
64	DHAN-RATNA HOUSING FINANCE LIMITED	A90779893	U65922MH1992PLC067447
65	AKASH SECURITIES PRIVATE LIMITED	A90867516	U67120MH1991PTC064553
66	MEERA SECURITIES PRIVATE LIMITED	A90867086	U67120MH1991PTC064561
67	AMOBIA SILK MILLS PVT LTD	A90990581	U99999MH1987PTC045113
68	NAVJEEVAN ENGINEERING COMPANY P LTD	A90913039	U99999MH1991PTC059792
69	VAITARANA TEXTILES PRIVATE LIMITED	A90891912	U17110MH1997PTC107959
70	ENERGY MPOWER PRIVATE LIMITED	A90928185	U74910MH2005PTC154109
71	G P Z BEARINGS PRIVATE LIMITED	A91080564	U29130MH1968PTC014135
72	PARAMICS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	A91063263	U72200MH2000PTC123614
73	ENDLESS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A91034710	U45102MH2005PTC158193
74	CONTINENTAL UNIVERSAL LOGISTICS LIMITED	A91117416	U74999MH2007PLC166845
75	BASAR CONCRETE PRIVATE LIMITED	A91082834	U74999MH2007PTC172127
76	LUBERT-ADLER INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED	A91046110	U67190MH2008PTC177578
77	GOA PROJECT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A91113811	U45203MH2007PTC176482
78	KOSMEEIN HOMOEOPATHIC PHARMACY PVT LTD	A91209130	U24100MH1982PTC028877
79	SPECSIM ENGINEERING PVT LTD	A91132290	U74210MH2004PTC043938
80	ZENITH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A91161695	U65990MH1988PTC049120
81	STREAMLINE ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	A91198929	U28920MH1989PTC051169
82	ACTIS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	A91160093	U65999MH2004PTC147345
83	MARUTINANDAN BUILDCON PRIVATE LIMITED	A91130831	U45200MH2005PTC150999
84	TORQUE MOTORCYCLES PRIVATE LIMITED	A91128348	U34200MH2006PTC158963
85	FINEEARTH EQUIPMENT PRIVATE LIMITED	A91219048	U99999MH2006PTC159321
86	WELCARE INVESTMENT PVT.LTD.	A91267542	U67120MH1992PTC064997
87	JORNADA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A91223032	U65990MH1992PTC066081
88	NIRVYAJA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	A91294702	U74140MH2006PTC159832
89	UNIFOUR AGROPACK (INDIA) PRIVATE LIMITED	A91307918	U74950MH2006PTC161338
90	AKOLA CHEMICALS AND INDUSTRIES PVT LTD	A91322073	U24110MH1982PTC028995
91	NUCLEUS INVESTMENTS LIMITED	A91399584	U67120MH1992PLC065670
92	FRUSIP PRODUCTS PRIVATE LIMITED	A91379156	U15137MH2003PTC139166
93	SINGHAL PESTICIDES PRIVATE LIMITED	A91369009	U24219MH1999PTC119250
94	LIPI SECURITIES PRIVATE LIMITED	A91369322	U67120MH2007PTC169012

95	INNOVATION INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED	A91321661	U67190MH2007PTC171996
96	TRUSTWORTHY INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED	A91554683	U99999MH1987PLC042818
97	CHANDAN EXIM (INDIA) LIMITED	A91505073	U51900MH1997PLC111321
98	CUMBALA REGION REALTORS PRIVATE LIMITED	A91491662	U70102MH2007PTC176670
99	MANGALAM CUMBALA HILL REALTY PRIVATE LIMITED	A91492520	U70102MH2007PTC176707
100	ANEK-CHEM PVT LTD	A91661397	U24246MH1982PTC026272
101	YOG AGRI COMMODITIES PRIVATE LIMITED	A91642371	U15130MH2004PTC146977
102	JAYA PRAKASH SUDHEER PVT LTD	A91665190	U16002MH1954PTC009358
103	ALLIED TECHNO SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A91665406	U24110MH1966PTC013449
104	VANAVAIBHAV FARMS PRIVATE LIMITED	A91681981	U70101MH1989PTC051041
105	PR SUPER MARKETS (INDIA) PRIVATE LIMITED	A91719880	U52190MH1998PTC115703
106	LITTLE MORE EDUCATION PRIVATE LIMITED	A91704411	U80100MH2004PTC150064
107	VAVECOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	A91750745	U72200MH2005PTC155518
108	ELPHINSTONE METAL ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED	A91813113	U27100MH1971PTC015507
109	BAID AUTO DISTRIBUTORS PVT LTD	A91760736	U71110MH1983PTC031514
110	BOMBAY AJANTA SHOWROOM PRIVATE LIMITED	A91779645	U51394MH1997PTC111246
111	KIRAN PATKI INTERIOR ARCHITECTS PRIVATE LIMITED	A91858746	U74300MH1998PTC112879
112	SG WRITING INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	A91847046	U36991MH1998PTC117361
113	PRAKASH SWIMMING POOL AND HEALTH CLUB PRIVATE LIMITED	A91857938	U53209MH2000PTC130026
114	ELPHINA BIOTECH LIMITED	A91781344	U24239MH2001PLC130918
115	MATRIX OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED	A91770396	U72900MH2001PTC153918
116	VANA-DHANA HORTICULTURE PRIVATE LIMITED	A91892489	U45202MH1989PTC051726
117	SUNRAJ GARMENTS P LTD	A91923037	U18101MH1994PTC078874
118	PARTH POLYMERS PRIVATE LIMITED	A91960179	U24200MH1998PTC114402
119	AVENUES ADVERTISING PVT LTD	A92021831	U74300MH1984PTC034083
120	CORPORATE FINANCIAL AVENUES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92020981	U67190MH1993PTC071615
121	CYBER RESERVATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	A92037704	U63040MH2002PTC137638
122	CHERRY SWEETS PRIVATE LIMITED	A92045954	U15110MH2002PTC134591
123	HALDIRAM'S SHIVA ADVANCED FOOD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	A92046143	U15200MH2002PTC136965
124	ACCIS RESEARCH AND CONSULTING PRIVATE LIMITED	A92043322	U74130MH2004PTC146091
125	AMRITA PHOTO OFFSET PVT LTD	A92118884	U22100MH1986PTC040242
126	RUKHAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A92096692	U65910MH1986PTC040855
127	VIDHATA PAPER MILLS PVT LTD	A92109172	U21010MH1987PTC042705
128	LIBSCO GEM RASAYAN PRIVATE LIMITED	A92146273	U24110MH2003PTC055652
129	EMINENT SCIENTIFIC INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED	A92087535	U33125MH1995PTC085707
130	GREY MATTER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92143692	U74140MH1995PTC087963
131	HND TRADING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	A92095710	U51900MH1996PTC099331
132	AGRAJ FINEASE PRIVATE LIMITED	A92101203	U67110MH1998PTC115121
133	NICE DESIGN PRIVATE LIMITED	A92126002	U36911MH1999PTC121798
134	HIMA DYE CHEM TRADING PRIVATE LIMITED	A92081488	U51490MH2005PTC151310
135	ADVANCED TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	A92056316	U63040MH2005PTC154181
136	BINITA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	A92204692	U65900MH1991PTC060017
137	JAIVRIDHE INVESTMENTS PVT LTD	A92207844	U65990MH1991PTC064081
138	SUNDEEP MOVIES PRIVATE LIMITED	A92208909	U92110MH1992PTC066975
139	KMS DIAMONDS PRIVATE LIMITED	A92165505	U27205MH2002PTC136816

140	DATUSCO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	A92178656	U72100MH2006PTC161023
141	GENOM INFO TECH PRIVATE LIMITED	A92208776	U72200MH2007PTC169877
142	GURU GANESH ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	A92202381	U92190MH2008PTC178168
143	B B FODDER YEAST LIMITED	A92299882	U99999MH1982PLC028345
144	PREETI LAMINATES LIMITED	A92303114	U99999MH1988PLC049352
145	ATLANTIS IMPEX PRIVATE LIMITED	A92294719	U72200MH1997PTC106929
146	SWIFT SHARES AND STOCKS PRIVATE LIMITED	A92270974	U65990MH2000PTC125077
147	PRUDENCE INFOWAY PRIVATE LIMITED	A92267186	U72900MH2000PTC126679
148	GROWEL INVESTMENT PRIVATE LIMITED	A92259084	U65990MH2007PTC169327
149	ELBIT INDIA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A92303320	U45400MH2007PTC172776
150	FORTEX REMEDIES PRIVATE LIMITED	A92435114	U24230MH1981PTC025463
151	RAJIV LEASING LIMITED	A92420728	U65910MH1984PLC033632
152	HOTEL JAIPUR INTERNATIONAL LIMITED	A92441732	U55100MH1999PTC117750
153	MAYURESH TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92444710	U51228MH2000PTC129413
154	AQUARIUS IMPORTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92380823	U51430MH2003PTC141186
155	AMERICAN SCHOLAR STATIONERY (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92378587	U36991MH2004PTC149267
156	CECIL INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92379999	U67120MH1980PTC023094
157	L&T INFRA AND PROPERTY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	A92444454	U70102MH2007PTC176291
158	JAINSON CABLES PRIVATE LIMITED	A92363431	U31300MH2007PTC176742
159	UDDHAVRAM BUILDERS PRIVATE LIMITED	A92438175	U45202MH2008PTC180504
160	WONDER LAND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	A92452861	U99999MH1990PTC055365
161	NIRU ORGANICS PRIVATE LIMITED	A92540483	U24110MH1991PTC062167
162	LOKPATRA PUBLICATIONS PVT LTD	A92572445	U22120MH1991PTC062222
163	WINCO POLY-TEX PRIVATE LIMITED	A92565134	U17110MH1995PTC090742
164	PUNMIYA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A92558865	U70100MH1995PTC092642
165	SAWANT MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	A92513209	U33100MH1996PTC099316
166	ICON PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92479427	U74140MH1997PTC110300
167	FLAIR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	A92478890	U70100MH1997PTC110612
168	P R TIMBERS PRIVATE LIMITED	A92515154	U20221MH1999PTC119385
169	SIR EDWARD DUNLOP KONKAN HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE LIMITED	A92504364	U85110MH2001PLC133002
170	AQUATRIUS BIOVENTURES PRIVATE LIMITED	A92459874	U74999MH2003PTC138529
171	REVOLUTION AGRO PRIVATE LIMITED	A92582444	U01110MH2006PTC160149
172	PROTON LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A92488261	U63010MH2007PTC171750
173	MURDIA AND COMPANY PRIVATE LIMITED	A92610807	U67200MH1973PTC016567
174	ASHWIN CONSULTANTS AND BUSINESS SERVICES PVT LTD	A92692300	U65990MH1982PTC026243
175	SANTRAM TEXTILES PVT LTD	A92627561	U17110MH1982PTC026748
176	MALLINATH PROPERTIES AND INVESTMENTS P.LTD.	A92603802	U45200MH1993PTC073265
177	TRIMURTI SOUND PRIVATE LIMITED	A92639772	U32300MH1995PTC088540
178	JUVENA COSMETICS GROUP PRIVATE LIMITED	A92592963	U24246MH1995PTC089707
179	KULDEEP EXPORTS PRIVATE LIMITED	A92638378	U51900MH1996PTC097093
180	RBM TRADING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	A92593813	U74140MH1997PTC106799
181	MAHARASHTRA ALUMINIUM STEELS AND ALLOYS LIMITED	A92685734	U51420MH1998PLC114886
182	HARSHEEL TEXTILES PRIVATE LIMITED	A92683580	U99999MH1999PTC123391
183	EAZY CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92666361	U18101MH2001PTC133132
184	SCARLET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	A92591825	U30007MH2003PTC139273
185	GANESH DIAM PRIVATE LIMITED	A92645415	U36910MH2005PTC151292
186	IN 3D STEREOSCOPIC PRIVATE LIMITED	A92621929	U74300MH2005PTC155655
187	SEAM ENGINEERS PVT LTD	A92760362	U99999MH1987PTC044044
188	RAKSHA SIDDHIVINAYAK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A92706100	U70100MH1989PTC054226
189	COSMO EXPORT AND IMPORT PRIVATE LIMITED	A92711472	U51900MH1990PTC055267
190	ACI EXPRESS PRIVATE LIMITED	A92756154	U60300MH2003PTC058358
191	MEGADI SERVICES PRIVATE LIMITED	A92704808	U52322MH1994PTC077684
192	NIRMALA GIFT FOR CHILDREN PRIVATE LIMITED	A92755099	U99999MH1994PTC079562
193	KESHBIND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92738004	U51900MH1995PTC093401

194.	SUNDER BAKERY (AMRAVATI) PRIVATE LIMITED	A92699198	U15410MH1997PTC105501
195	BLUE BLEND INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED	A92702521	U20210MH1999PTC119923
196	NETFUSION TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92706720	U72900MH2000PTC125980
197	ACCORD NETWORK (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92757095	U72900MH2000PTC126465
198	MUMBAI INLAND PASSENGER WATER TRANSPORT COMPANY LIMITED	A92720077	U63012MH2003SGC140110
199	KOLHAPUR CITY ROAD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	A92724707	U45203MH2004SGC144697
200	LUVIN RESTRUCTURING MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92736040	U74140MH2004PTC145148
201	SAKHI FOODS PRIVATE LIMITED	A92729847	U15100MH2004PTC148463
202	CITYLINE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92734565	U51909MH2005PTC153286
203	TARJANI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92757855	U51420MH2005PTC155537
204	CRESCENT MINING PRIVATE LIMITED	A92699461	U14200MH2008PTC177811
205	RUGBY MINING PRIVATE LIMITED	A92700319	U14200MH2008PTC178422
206	QUANT MINING PRIVATE LIMITED	A92700004	U14200MH2008PTC179161
207	ROUND MINING PRIVATE LIMITED	A92699891	U14200MH2008PTC178668
208	BOSS COMMUNICATIONS PVT LTD	A92833771	U32200MH1987PTC043251
209	KHIARA TRADING CO PVT LTD	A92849173	U51100MH1987PTC043762
210	TRISHALA DEVELOPERS P.LTD.	A92849850	U45200MH1991PTC063979
211	RAJAT INFRA-CON PRIVATE LIMITED	A92849108	U45200MH1992PTC069057
212	PATEL SHIP AND OFFSHORE REPAIRS LIMITED	A92817287	U35112MH1993PLC074877
213	GARODIA ENERGY SYSTEMS P.LTD.	A92833631	U74999MH1994PTC078851
214	PARUL OXYGEN SERVICES PRIVATE LIMITED	A92851146	U74999MH1994PTC082323
215	HOPEWELL SECURITIES AND FINANCE PRIVATE LIMITED	A92836121	U67120MH1994PTC083406
216	WALTER BUSHNELL MARKETING PRIVATE LIMITED	A92834720	U51900MH1995PTC088522
217	INDUS AUTO-VEHICLES PRIVATE LIMITED	A92765973	U34100MH1995PTC092227
218	MADHUKAMAL TRAVELS PRIVATE LIMITED	A92763705	U63040MH1995PTC093972
219	ANGULAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	A92814102	U99999MH1998PTC113514
220	MONTEX WRITING INSTRUMENTS LIMITED	A92804681	U36991MH1999PLC121183
221	SANGHANI SECURITIES PRIVATE LIMITED	A92814292	U67120MH2000PTC124157
222	SOMETHING DIFFERENT AND DYNAMIC CONCEPTS PRIVATE LIMITED	A92832773	U51909MH2001PTC133582
223	NOBLE OFFSHORE ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	A92812825	U74999MH2003PTC139360
224	D-PAM SECURITIES PRIVATE LIMITED	A92810050	U67120MH2004PTC150063
225	REDCANNON SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED	A92811967	U72200MH2005PTC152905
226	M B C T LEARNING SYSTEM PRIVATE LIMITED	A92789684	U45200MH2005PTC156980
227	MSA (CONSULTANTS) PRIVATE LIMITED	A92939297	U74140MH1970PTC014930
228	KULKARNI STEEL AND ALLOY CASTINGS PRIVATE LIMITED	A92926716	U99999MH1974PTC017767
229	UNIVERSAL SEATRANS LIMITED	A92950369	U99999MH1977PLC020046
230	SARITA INVESTMENTS AND AGENCIES LIMITED	A92905702	U65910MH1978PLC020541
231	VIDARBHA SOLVENTS PRIVATE LIMITED	A92967652	U99999MH1979PTC021680
232	ADVANCE SHARE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92974872	U51900MH1979PTC021793
233	LAMDA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	A92941962	U29198MH1979PTC022003
234	KHADIJA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A92941574	U99999MH1981PTC025623
235	JAYANTHI FURNACES PVT LTD	A92914613	U31200MH1981PTC025741
236	SPECIALITY FOILS LIMITED	A92905405	U28120MH1981PLC025874
237	VIJAYA MERCHANDISE PVT LTD	A92971167	U99999MH1982PTC028339
238	OCL CHEMICALS PVT LTD	A92963537	U24100MH1984PTC033375
239	NISSAN CHEMICALS PVT LTD	A92891431	U24100MH1985PTC035351
240	WASMAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92953249	U74210MH1985PTC035623
241	VIBGYOR FILMS PRIVATE LIMITED	A92940857	U70200MH1985PTC036276
242	SHRENIK INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTANCY PVT LTD	A92963974	U67120MH1985PTC037666
243	SANMAN MARKETING COMPANY PVT LTD	A92927276	U28932MH1985PTC038359
244	RITA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED	A92960442	U27100MH1986PLC039549

245	FIREPOWER ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED	A92975226	U99999MH1986PTC040361
246	SAHA COMPUTERS AND COMMUNICATIONS PVT LTD.	A92970474	U30007MH1987PTC042990
247	ANSAB DAIRY FARM PVT LTD	A92929777	U01210MH1987PTC045257
248	EMPOWER MARKETING PRIVATE LIMITED	A92927151	U70100MH1988PTC046610
249	JOHN ASHLEY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	A92974864	U32200MH1989PTC050248
250	SHAKTI VIBRATORY EQUIPMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED	A92941095	U74999MH1989PTC050607
251	EAGLE MOVIE PRODUCTION AND STUDIO PRIVATE LIMITED	A92921360	U92100MH1989PTC053308
252	HIGH TECH HEAT TREATER PVT LTD	A92949643	U99999MH1989PTC053965
253	ADLABS FINANCE PRIVATE LIMITED	A92910116	U65990MH1990PTC055265
254	SARASWATI BULK CARRIERS PRIVATE LIMITED	A92964147	U60100MH1990PTC057869
255	GANDHI AND ASSOCIATES INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A92951466	U65990MH2004PTC057960
256	ARCTIC METALS (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92925767	U27200MH1991PTC062768
257	KOSIWALA EXPORTS PRIVATE LIMITED	A92939685	U51900MH1991PTC063796
258	SHREE KAJAL ARTS PRODUCTIONS P.LTD.	A92947506	U92111MH1991PTC063814
259	CORONATION ASSETS AND CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	A92963842	U67120MH1992PTC064709
260	SUN VALLEY RESORTS PVT.LTD.	A92920065	U55101MH1992PTC068079
261	NAYANSWAPNA LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	A92938927	U65910MH1992PTC068218
262	RAINBOW AUXILIARIES AND PNEUMATIC ENGINEERING SERVICES PVT.LTD.	A92969880	U74140MH1992PTC068364
263	RAILA SILK MILLS PVT.LTD.	A92909381	U99999MH1992PTC068703
264	DAMINI TRADING PVT.LTD.	A92955392	U99999MH1992PTC069830
265	SULOK FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD	A92950971	U65990MH1993PTC070492
266	R K BHATIA FINANCE PVT.LTD.	A92972298	U99999MH1993PTC072480
267	MALINI EXPORTS P.LTD.	A92971845	U51900MH1993PTC073323
268	VILLA TRADING CO PRIVATE LIMITED	A92957950	U51900MH1993PTC073447
269	LITOLIER REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	A92949304	U70101MH1993PTC074642
270	MANILA INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	A92973973	U67120MH1994PTC077263
271	VIRAJ HOLDINGS P.LTD.	A92958172	U45200MH1994PTC078362
272	MKM SECURITIES PRIVATE LIMITED	A92928019	U67120MH1996PTC078884
273	RAVRAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	A92961515	U67120MH1994PTC083306
274	COMPUTER MEDIAPRODUCTS LIMITED	A92933423	U65990MH1994PLC083324
275	HIGHTECH BALLS & ROLLERS PRIVATE LIMITED	A92888593	U99999MH1995PTC085412
276	ANKLESHWAR CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	A92973460	U67120MH1995PTC085864
277	VAIBHAV LEAFINE LIMITED	A92926583	U65910MH1995PLC086780
278	SHREE KHIDKALESHWAR LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A92970235	U70100MH1995PTC087050
279	HALAR MARITIME AGENCIES LIMITED	A92953033	U63090MH1995PLC088647
280	ASHOK CARPETS AND FABRICS PRIVATE LIMITED	A92939222	U17220MH1995PTC088848
281	ANSUYA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	A92939420	U67120MH1995PTC089322
282	ULTIMATE PLASTICS & PACKING LIMITED	A92908961	U25202MH1995PLC090546
283	SIGMA PORTFOLIOS LIMITED	A92933407	U65910MH1995PLC091691
284	DELTA COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED	A92869940	U72900MH1995PTC092266
285	RAJLILAK LAND AND DEVELOPMENTS PRIVATE LIMITED	A92947084	U65923MH1995PTC092352
286	J V DYECHEM PRIVATE LIMITED	A92962869	U24110MH1995PTC092695
287	SOLAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	A92947407	U45200MH1995PTC093380
288	GAMMEC EXPORTS PRIVATE LIMITED	A92955376	U36912MH1995PTC095686
289	TATKAL CORPORATE FINANCIAL SERVICES LIMITED	A92974922	U67190MH1996PLC096301
290	KAISER EQUITY PRIVATE LIMITED	A92938356	U67120MH1996PTC098926
291	NIJI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	A92947860	U33100MH1996PTC098945
292	LINKS AERO TRANSPORT PRIVATE LIMITED	A92932037	U63000MH1996PTC099329
293	KAYDEEJAY CONFIN PVT LIMITED	A92960947	U65990MH1996PTC099679
294	TOP IN FASHION (INDIA) LIMITED	A92925817	U99999MH1996PLC101797
295	SIPANKIT REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	A92944263	U45200MH1997PTC107338
296	SHRINATH HYDRAULICS PRIVATE LIMITED	A92947209	U27200MH1997PTC108401

297	CARL ZEISS OPTICAL INDIA PRIVATE LIMITED	A92933233	U33200MH1997PTC109046
298	SNEHAL FINANCE AND INVESTMENT (INDIA) LIMITED	A92960871	U65990MH2003PLC110273
299	CALIPER TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	A92951565	U51900MH1997PTC110684
300	NATAWAR TRADES AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	A92910520	U99999MH1997PTC111547
301	GAMCOM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A92973247	U70200MH1997PTC111916
302	PANCHWATI LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	A92962125	U45200MH1998PTC113767
303	DARSHAK CHITS PRIVATE LIMITED	A92957034	U65992MH1998PTC114607
304	AARKAY FINSTOCK LIMITED	A92938984	U65990MH1998PLC116706
305	HARSHNEEL HOLDINGS PRIVATE LIMITED	A92950310	U67120MH1998PTC117402
306	SURGITECH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	A92881028	U33110MH1998PTC117417
307	SAIL INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	A92938026	U72200MH2000PTC123924
308	ANDORA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	A92974914	U67120MH2000PTC124437
309	E-MERGING ONLINE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92857416	U64200MH2000PTC124521
310	LANOVO LABS PRIVATE LIMITED	A92951540	U24240MH2000PTC124891
311	MADHURI ENTERTAINMENT LIMITED	A92956010	U92130MH2000PLC125037
312	MONA FUTURISTIC TELECOM PRIVATE LIMITED	A92958669	U32209MH2000PTC126052
313	PREMIERE MERCANTILE AND SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92955772	U51900MH2000PTC127189
314	SAIMA MARKETING PRIVATE LIMITED	A92943471	U74992MH2000PTC129474
315	SBG MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	A92919448	U74999MH2001PTC131272
316	FANTASIA ADVERTISING PRIVATE LIMITED	A92948397	U74300MH2001PTC131819
317	MBCS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	A92944909	U74140MH2001PTC133769
318	VIDEOCON VCR SECURITIES LIMITED	A92885870	U67120MH1995PLC133952
319	EAST SURYA MEDICAL PRIVATE LIMITED	A92965730	U33110MH2002PTC135315
320	P. K. ANNA PATIL TRADING COMPANY LIMITED	A92928480	U51909MH2002PLC135513
321	NAUKA SHIPPING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	A92962653	U63090MH2002PTC135629
322	MADHAV PRAKASHAN PRIVATE LIMITED	A92973254	U22120MH2002PTC135772
323	FORESIGHT INFRASTRUCTURES LIMITED	A92921618	U45202MH2002PLC136110
324	GUJRAL SECURITY AND SERVICES PRIVATE LIMITED	A92919356	U67120MH2002PTC136665
325	OPPORTUNE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	A92964642	U74100MH2002PTC137361
326	ARK FLORAL TRADE PRIVATE LIMITED	A92949502	U51909MH2002PTC137432
327	PILLAR HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED	A92877356	U33110MH2002PTC137787
328	MEDIWHIZ HEALTH SCIENCES PRIVATE LIMITED	A92891779	U24230MH2003PTC140262
329	FORTUNE LIFE NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED	A92937978	U51909MH2003PTC141561
330	NETWORK ALLIED AVIATION PRIVATE LIMITED	A92961523	U63013MH2003PTC141831
331	DATRYX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A92927284	U72900MH2003PTC142100
332	PLANET PLASTICS TRADING PRIVATE LIMITED	A92959170	U51495MH2003PTC142314
333	RANKA FERRO AND ALLOY PRIVATE LIMITED	A92964410	U27100MH2004PTC145479
334	GVKN JEWELLERY PRIVATE LIMITED	A92915222	U36911MH2004PTC145672
335	MRESEARCH SYNTHESIS PRIVATE LIMITED	A92970565	U73100MH2004PTC147300
336	PARVATI AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	A92959766	U34100MH2004PTC147573
337	YASH CANPLAST PACKAGING PRIVATE LIMITED	A92973346	U28129MH2004PTC147896
338	BLACKGOLD PROPERTIES PRIVATE LIMITED	A92932326	U70100MH2004PTC147997
339	GEEBEES BEVERAGES & FOODS PRIVATE LIMITED	A92932656	U27100MH2004PTC148036
340	KRISHNAM FINE FAB PRIVATE LIMITED	A92967827	U17120MH2004PTC150062
341	SPA STARCH AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	A92934207	U24100MH2005PTC152313
342	TECHNO AMUSEMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	A92938422	U45200MH2005PTC152560
343	GHARRKUL REALTOR PRIVATE LIMITED	A92972744	U70100MH2005PTC152637
344	JAYKUL HOUSING PRIVATE LIMITED	A92971852	U45200MH2005PTC156950
345	PARISA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	A92968775	U45200MH2005PTC157174
346	TASTE ONE BEVERAGES PRIVATE LIMITED	A92932334	U15540MH2005PTC157318
347	CITIUS ENERGY LIMITED	A92915479	U40110MH2005PLC157403
348	EWISE INDIA PRIVATE LIMITED	A92960574	U72200MH2000PTC127496
349	SPICE ROOTS FOODS PRIVATE LIMITED	A92939404	U15111MH2005PTC158055
350	TISYA JEWELLERY PRIVATE LIMITED	A92938471	U51398MH2006PTC160087
351	LITOLIER HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED	A92948835	U55101MH2006PTC163162
352	GESA INDIA PRIVATE LIMITED	A92961671	U29199MH2006PTC165024
353	R.N.DEALERS PVT. LTD.	A92949585	U52393MH2006PTC163215

354	BRIDGEWEST CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92957729	U74140MH2006PTC163988
355	AFTON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	A92938802	U72200MH2007PTC167295
356	ASTRAL INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	A92909035	U45201MH2006PTC165379
357	TUMMY TIME FOODS PRIVATE LIMITED	A92947423	U15132MH2007PTC167799
358	ANITEL MARKETING PRIVATE LIMITED	A92941442	U74900MH2007PTC169542
359	WISH LUXURY AND LIFESTYLE PRIVATE LIMITED	A92950484	U18109MH2007PTC170785
360	GORAKSHAN LAND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	A92973171	U01211MH2007PTC170838
361	MV RETAIL PRIVATE LIMITED	A92950500	U70102MH2007PTC170410
362	ORION OIL MILLS PRIVATE LIMITED	A92972660	U15142MH2007PTC171715
363	INFOSOFT RECRUITMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	A92973411	U72200MH2007PTC176097
364	TANUSH INFOTECH PRIVATE LIMITED	A92963685	U72900MH2007PTC172798
365	INDO EMIRATES BUILDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	A92957711	U45202MH2007PTC173666
366	GHAH FOODS PRIVATE LIMITED	A92904010	U15122MH2007PTC175797
367	WANLESS PROPERTY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	A92891571	U70102MH2007PTC175976

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai-400002, the 19th August 2011

No. RoC/EES-2011/560(5)/4392—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

SR. NO	COMPANY NAME	SRN NO	CIN NO.
1	RADHESHYAM BANSAL ENGINEERS (INDIA) LIMITED	B02052165	U28920MH1997PLC110280
2	ROMELL HOMEMAKERS PRIVATE LIMITED	B02055606	U70102MH2003PTC140780
3	DEVOIRS FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B02289874	U65990MH1995PTC090714
4	AAN HOLDINGS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B02252021	U45200MH2005PTC155623
5	ARROWSTAR ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	B02377810	U31500MH1998PTC117214
6	ANAND MEHTA REAL ESTATES PRIVATE LIMITED	B02348118	U70102MH2007PTC168254
7	AAROHI SYNTHETICS PVT LTD	B02468544	U17120MH1985PTC037614
8	BEST BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B02464527	U70101MH1991PTC059796
9	ALL-WEATHER INVESTMENTS PVT LTD	B02463222	U67120MH1992PTC065309
10	TECHLINK MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED	B02434108	U29290MH1994PTC076307
11	SAHYOG SECURITIES P.LTD.	B02443018	U67120MH1994PTC077541
12	SHIVANAND AGRO LIMITED	B02454098	U01100MH1995PLC091904
13	ENARAI SHARES AND STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED	B02460244	U67120MH1996PTC100460
14	CHEEZERS FOOD LIMITED	B02552149	U99999MH1987PLC043303
15	RICHMAN REALITIES PRIVATE LIMITED	B02576965	U70200MH1995PTC088730
16	PULSE INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B02579225	U72100MH1995PTC091502
17	HARDFACTS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B02559094	U74140MH1999PTC123080
18	PM DAIRY FARM PRIVATE LIMITED	B02505899	U15209MH2007PTC172434
19	MAHARSHI AGRO PRIVATE LIMITED	B02728517	U01110MH1989PTC052895
20	PIRAMAL KDS SUPERSTORE PRIVATE LIMITED	B02686970	U45200MH1990PTC056331

21	APEKSHA SHARE REGISTRY PRIVATE LIMITED	B02639755	U67120MH1993PTC072005
22	SUNBRIDGE CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B02686376	U74130MH2005PTC155481
23	DIAL GLOBAL PRIVATE LIMITED	B02679454	U65190MH1995PTC092294
24	MAP DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	B02670578	U51901MH2006PTC158724
25	GMMOS SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED	B02744639	U35110MH1989PTC051494
26	SOMNATH LAND DEVELOPERS PVT LTD	B02752145	U45200MH1991PTC063886
27	CONSOLIDATED SERVICES AND SECURITIES (INDIA) LIMITED	B02816353	U65910MH1993PLC075265
28	CHOTA BYTE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B02768554	U72200MH2000PTC129974
29	KAIZEN SMART DISPENSERS PRIVATE LIMITED	B02742799	U29299MH2007PTC172702
30	ASHLAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B02852432	U45200MH1989PTC054676
31	TEJBHARATI INVESTMENT & FINANCIAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B02852143	U67190MH1991PTC060591
32	L.P. TANKS AND VESSELS PRIVATE LIMITED	B02915544	U99999MH1997PTC106997
33	INTECO AUTO CORDS AND ROPES PRIVATE LIMITED	B02861987	U27104MH1998PTC112872
34	SARAH PLAST TECH PRIVATE LIMITED	B02903425	U25200MH1999PTC122236
35	MISSION HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	B02926582	U85110MH2006PTC163034
36	WATANABE WEB PUBLISHING PRIVATE LIMITED	B02916880	U72200MH2006PTC165992
37	ANOKHI TRADING PRIVATE LIMITED	B03010998	U51900MH1994PTC080392
38	ALANKAR SHAREDEAL PRIVATE LIMITED	B02991644	U65923MH1995PTC085025
39	CONTINENTAL SECURITIES PRIVATE LIMITED	B02933349	U67120MH1995PTC086991
40	INTELINET SOFTWARE PRIVATE LIMITED	B03009453	U72200MH1999PTC121785
41	HONNESH RECRUITMENT CONSULTANCY LIMITED	B02945632	U74999MH2002PLC135545
42	ANANDA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03014180	U70102MH2007PTC167406
43	HARRISON GLASS SEAL PRIVATE LIMITED	B03088853	U26100MH1979PTC021611
44	SIMPOWER ENGINEERING PRIVATE LIMITED	B03036217	U40101MH1985PTC035581
45	TOWA RIBBONS PVT. LTD.	B03078151	U30007MH1986PTC041712
46	HIRANANDANI EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03044047	U51900MH1988PTC048342
47	RAGHUKUL TEXTILES PVT. LTD.	B03092061	U17120MH1992PTC065700
48	INDUSTRIAL ENGINEERING WORKS (DOMBIVALI) PRIVATE LIMITED	B03046950	U99999MH1995PTC094473
49	LLOYDS SHELTERS LIMITED	B03065190	U45200MH1996PLC096350
50	SHIV GANGA FINANCE LIMITED	B03035649	U65921MH1996PLC101939
51	COX AND KINGS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE PRIVATE LIMITED	B03085024	U99999MH1997PTC112386
52	ARTS PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL PRIVATE LIMITED	B03088846	U24233MH1998PTC112845
53	VIDISHA CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03064797	U45200MH1998PTC116541
54	B.V.C. HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B03062544	U67120MH2001PTC131318
55	HOME PLUS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03090826	U70101MH2003PTC139262
56	APTECH MANPOWER SERVICES LIMITED	B03072287	U74910MH2005PLC158450
57	SUNSAI ALLOY CHEM PRIVATE LIMITED	B03027075	U27100MH2006PTC160717
58	RAKAHA CONSTRUCTORS PRIVATE LIMITED	B03119716	U99999MH1979PTC021566
59	MANEK DEVELOPERS PVT LTD	B03129210	U70101MH1985PTC037959
60	MAGAURI CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B03100310	U24220MH1988PTC049671
61	FRIENDLY HOME APPLIANCES PVT LTD	B03127651	U52324MH1991PTC063518
62	ARCO PETROPRODUCTS P.LTD.	B03113560	U25200MH1991PTC064370
63	HIMGIRI ESTATE AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03127198	U45202MH1994PTC080616
64	SAMDARSHI AGROTECH PRIVATE LIMITED	B03106705	U01119MH1995PTC084419
65	BLUE SKY AGROTECH PRIVATE LIMITED	B03114204	U01111MH1995PTC084420
66	PARAMPRA AGROTECH PRIVATE LIMITED	B03116472	U01111MH2004PTC084421
67	GOLATA SPUNTEX LIMITED	B03118627	U17120MH1997PLC111236
68	ANU MALIK MUSICAL PRODUCERS PRIVATE LIMITED	B03116134	U92110MH1999PTC118586
69	PRACHI MERCANTILE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03115383	U51900MH1999PTC121997
70	SALASAR FORTUNE MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03133550	U51430MH2001PTC132836
71	SHUBAM CREATION PRIVATE LIMITED	B03126356	U17291MH2005PTC153507
72	IOPS ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED	B03136132	U74210MH2005PTC154886
73	SHEELA RAJ CHEMIPLAST TRADERS PVT. LTD.	B03142155	U51496MH1992PTC066989

74	SHARP PROTECH P LTD	B03142023	U74999MH1993PTC073525
75	EDCON MERCANTILE LIMITED	B03148350	U65990MH1995PLC095345
76	TRILING MARKETING PRIVATE LIMITED	B03235413	U51900MH1985PTC037694
77	FLOURESCENT TUBES EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03192663	U31200MH1991GAT061824
78	SHREE SOFTWARE AND ALLIED INDUSTRIAL SERVICES PVT LTD	B03213063	U72100MH1992PTC068410
79	SAJJAN PLASTICS PRIVATE LIMITED	B03186624	U25209MH1994PTC079714
80	KORDE TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B03189180	U74220MH1994PTC083769
81	SWETANK REALTY PRIVATE LIMITED	B03194032	U70100MH1995PTC095430
82	JOSEPH FIBRE GLASS PRIVATE LIMITED	B03219730	U26102MH1996PTC098448
83	INDAM TELECOM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	B03173754	U64200MH1997PTC112225
84	VENUS INDUSTRIAL FABRICS PRIVATE LIMITED	B03205630	U18101MH1998PTC116803
85	MEGA MOTION INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03173390	U72100MH2000PTC129227
86	ORION HOME MAKERS BUILDCON PRIVATE LIMITED	B03214509	U45102MH2001PTC130310
87	FOCAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	B03184504	U72900MH2001PTC132509
88	MEGA MOTION STUDIOS PRIVATE LIMITED	B03175338	U92132MH2001PTC133328
89	NETRIQUE INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03215126	U72900MH2005PTC155474
90	CORPORATE DENTAL PRACTICES PRIVATE LIMITED	B03188679	U85120MH2007PTC171584
91	D N SHROFF AND COMPANY PRIVATE LIMITED	B03297413	U51109MH1947PTC005699
92	BOMBAY LICENSED MEASURES LIMITED	B03250834	U74140MH1964PLC012855
93	DUTT TRADERS PRIVATE LIMITED	B03271095	U24100MH1964PTC012890
94	KURLA CAPS AND CLOSURES PVT LTD	B03301314	U21010MH1981PTC024403
95	MICRO MECHANICAL INDUSTRIES PVT LTD	B03248309	U29290MH1982PTC028948
96	ORANGE MEDIA PVT LTD	B03296779	U74999MH1983PTC031276
97	GODAVARI PROPERTY OWNERS PRIVATE LIMITED	B03258274	U70100MH1986PTC041630
98	CONST-TECH NASIK PRIVATE LIMITED	B03317393	U70100MH1988PTC050039
99	NAVEEN CONTAINER LINES PRIVATE LIMITED	B03329224	U60210MH1992PTC066778
100	IMBUE LEASING AND FINANCE P.LTD.	B03312485	U65910MH1993PTC075323
101	YEOLE FARMS AND RESORTS LIMITED	B03265865	U45202MH1994PLC076110
102	NISARG TRAVELS P.LTD.	B03293214	U63040MH1994PTC076373
103	TIT BIT SPICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03280369	U15130MH1994PTC083579
104	AWA COMMUNICATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03327152	U64200MH1995PTC091225
105	TECHNICOM ELECTROCOM PRIVATE LIMITED	B03317138	U64200MH1995PTC092376
106	PREMA CARRIERS PRIVATE LIMITED	B03298114	U63010MH1995PTC092840
107	GENESIS INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED	B03294279	U74300MH1995PTC093461
108	KAIZEN COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	B03306107	U92110MH1995PTC095025
109	VINMAN INFRASTRUCTURE AND STEELS COMPANY LIMITED	B03328416	U99999MH1996PLC103014
110	LEHRI DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	B03314473	U29210MH1998PTC114629
111	PARCO INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03304672	U72100MH1999PTC122111
112	AVIS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	B03290210	U67190MH1999PTC123085
113	SEAMLESS CONNECTION (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03330529	U64200MH2000PTC127600
114	PLANET B4B.COM PRIVATE LIMITED	B03327764	U72200MH2000PTC129735
115	CAT SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03239381	U72200MH2000PTC130146
116	MAARKUEST SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED	B03302361	U63012MH2001PTC132179
117	NISARG'S PARADISE SAFARI PRIVATE LIMITED	B03259991	U63034MH2002PTC137789
118	UNADKAT CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B03263019	U45200MH2004PTC146307
119	NASHIK WINDFARMS LIMITED	B03316817	U40100MH2004PLC146661
120	SHREE S. CHOUDHARY TRAVELS PRIVATE LIMITED	B03299906	U63040MH2004PTC149499
121	LAXMI MARITIME CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B03250149	U74210MH2005PTC150700
122	I2INET (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03309176	U64200MH1999PTC121526
123	SHREE JEWELLERY TRADING PRIVATE LIMITED	B03274065	U52393MH2006PTC162870
124	INLAO INDUSTRIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03332087	U25209MH2008PTC177295
125	TRUEWORTH SECURITIES & INVESTMENTS LIMITED	B03309945	U65993MH2008PLC179074
126	PUMED REALTORS PRIVATE LIMITED	B03305034	U45202MH2008PTC177594
127	URJANKUR KISAN VEER POWER COMPANY LIMITED	B03306065	U40101MH2008PLC180289
128	P S IMPEX PRIVATE LIMITED	B03403557	U51900MH1982PTC027591
129	MAGNUM STEELS PVT LTD	B03384047	U27106MH1983PTC031014

130	PRAAG SALES PVT LTD	B03350048	U51900MH1988PTC049266
131	RED WOOD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03371564	U92400MH1988PTC049367
132	NIKUNJ BUILDERS PVT LTD	B03417953	U45202MH1989PTC052808
133	MASTER SYNTAX PRIVATE LIMITED	B03426343	U17120MH1990PTC057833
134	PRAMOD OVERSEAS PVT. LTD.	B03343068	U51900MH1992PTC068622
135	PENINSULA HOLDING AND DEVELOPERS P LTD	B03419298	U67120MH1994PTC077016
136	KUSUM INFIN PRIVATE LIMITED	B03344587	U45200MH1994PTC080075
137	MAGNUM SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03389368	U01120MH1995PTC090669
138	PRATIK INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03347788	U51505MH1996PTC100376
139	SEZ PROJECTS LIMITED	B03399557	U67190MH1996PLC101326
140	KARLA HOLIDAY RESORTS PRIVATE LIMITED	B03404290	U55101MH1996PTC104234
141	INDIA FLOOR CARE AND APPLIANCES LIMITED	B03396942	U29304MH1997PLC107701
142	SETHI COMMODITIES PRIVATE LIMITED	B03418084	U92200MH1997PTC109659
143	IDEAL AUTOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED	B03388709	U50100MH1998PTC115470
144	PRAMOD TEXTILES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03351012	U51311MH1999PTC120135
145	EASY DIAMOND PRIVATE LIMITED	B03361177	U36912MH2000PTC126053
146	KAPOOR AND KAUSHIK ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B03407046	U92110MH2000PTC128246
147	MAGIC MEDIA CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED	B03404043	U72900MH2000PTC129511
148	SYRIAN COMMERCIAL CENTRE PRIVATE LIMITED	B03383890	U51311MH2001PTC131104
149	ALTEX PAINTS AND PACKAGING PRIVATE LIMITED	B03371028	U21014MH2001PTC134081
150	SHIVOHAM EXIM PRIVATE LIMITED	B03366309	U51909MH2004PTC145993
151	LIFEBRIDGE HEALTH AND BIOTECH PRIVATE LIMITED	B03386976	U24230MH2004PTC148552
152	ONENATURETEC VENTURES PRIVATE LIMITED	B03333747	U74999MH2005PTC151383
153	SHREY SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	B03406667	U17120MH2005PTC155595
154	HEXAGON OILCO PRIVATE LIMITED	B03402666	U11200MH2005PTC157813
155	SCALAR SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED	B03350923	U72900MH2006PTC159226
156	VRA-1 DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03417821	U45200MH2006PTC160997
157	NATYA MANDAR PRIVATE LIMITED	B03406519	U92140MH2007PTC170541
158	WSC V PUNE BAUR REALTY INDIA PRIVATE LIMITED	B03408614	U70200MH2007PTC166926
159	FORESIGHT TECHNICALS PRIVATE LIMITED	B03411915	U67120MH2007PTC175290
160	D.BENTLEY WATCH & JEWELLERY PRIVATE LIMITED	B03365087	U33300MH2008PTC179982
161	TRIDENT METAL PROFILES PRIVATE LIMITED	B03473741	U27200MH1973PTC016232
162	RIDHI SIDHI TEXTILES LIMITED	B03504735	U17120MH1973PLC017029
163	RIMA STRAPS PVT LTD	B03499712	U33302MH1982PTC027740
164	P.S. OFFSHORE INTERLAND SERVICES PVT LTD	B03438918	U74210MH1982PTC028211
165	MULTRONICS PRIVATE LIMITED	B03503026	U32200MH1989PTC050903
166	CHETNA HOUSING FINANCE COMPANY PVT LTD.	B03498789	U65922MH1989PTC051527
167	MAHARASHTRA ORGANO CHEMICALS LTD.	B03511615	U24100MH1993PLC072084
168	CAVINAS EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03490794	U51900MH1993PTC074322
169	TOBIAS INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B03494002	U65990MH1993PTC075118
170	GAGANGIRI REALTORS BOMBAY P.LTD.	B03448024	U45200MH1994PTC076815
171	INTRODUCTIONS EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED	B03501079	U74300MH1994PTC080442
172	SANDAKAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03473279	U70101MH1994PTC080650
173	OMBHARTI AGROBASED PRIVATE LIMITED	B03471927	U01110MH1995PTC087071
174	SAROVAR STRUCTURES PRIVATE LIMITED	B03452158	U45200MH1995PTC087251
175	ANYTIME MONEY CAPITAL AND FINANCE LIMITED	B03463379	U65923MH1995PLC092775
176	ARDEE EQUFIN PRIVATE LIMITED	B03477627	U67120MH1995PTC092980
177	FOCUS VIEW PRIVATE LIMITED	B03461894	U92110MH1995PTC093156
178	LAXMANRAO YADAV LEASING AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	B03502150	U65920MH1995PTC094119
179	BIDAR INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	B03468303	U65990MH1997PTC106014
180	INVESTAR NEWS SERVICES PRIVATE LIMITED	B03471190	U22120MH1997PTC112181
181	SPEEDLINK SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED	B03496452	U63090MH1998PTC113407
182	CARBON INSPECT INDIA PRIVATE LIMITED	B03455151	U73100MH1999PTC118185
183	ADVIKA CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	B03518305	U99999MH1999PTC119392

184	ASHOKA SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED	B03524402	U15420MH1999PTC121523
185	VENUS BARREL SUPPLY COMPANY PRIVATE LIMITED	B03475746	U28129MH1999PTC121559
186	MASTER MIND MARKETING PRIVATE LIMITED	B03479987	U74300MH2000PTC128562
187	INTELLPRO EDUCATION (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03519998	U72200MH2001PTC132335
188	AUTOSCREEN (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03449410	U24223MH2003PTC143352
189	RAJDEVI AUTO SUPPLY LIMITED	B03501913	U50500MH2004PLC144765
190	KASP ADVERTISING PRIVATE LIMITED	B03441987	U74300MH2004PTC147551
191	RAJ AVIATION (INDIA) LIMITED	B03503315	U63033MH2005PLC154069
192	VINAV FOOD PRODUCTS LIMITED	B03518222	U99999MH1984PLC033607
193	SHREERAJ FOREX PRIVATE LIMITED	B03506698	U99999MH2005PTC158062
194	ROMAN PACKAGING PRIVATE LIMITED	B03470291	U51102MH2006PTC164174
195	S.K.D. SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED	B03431921	U61100MH2007PTC170345
196	MTM ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03489614	U52100MH2007PTC173371
197	SHAHFAYA EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03502259	U52300MH2007PTC174871
198	AJANTA PRINT ARTS PRIVATE LIMITED	B03465614	U22219MH2007PTC176277
199	SUNSHINE METAL AND ALLOYS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B03562097	U27200MH1980PTC022499
200	FITRIT TRADING AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B03538501	U65990MH1980PTC022784
201	CHOKHANI MACHINERY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B03557147	U29290MH1981PTC024590
202	PRESTO PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B03604113	U25209MH1981PTC025899
203	MASOOM INVESTMENT AND TRADING CO PVT LTD	B03570678	U67120MH1984PTC033462
204	WATER AID ENGINEERS (INDIA) PVT LTD	B03585015	U29120MH1985PTC037084
205	VIDEOZONE NETWORKS PRIVATE LIMITED	B03611639	U67190MH1986PTC041284
206	MARVEL GLOVES INDUSTRIES PVT. LTD.	B03618675	U99999MH1986PTC041781
207	PHIN-O-CHEM INDUSTRIES PVT LTD	B03585296	U99999MH1988PTC048257
208	SURYA-KANTI SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B03567732	U24292MH1989PTC053461
209	JAYANT WIRE INDUSTRIES PVT LTD	B03586450	U27200MH1989PTC054022
210	SHREYAS COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	B03611167	U36911MH1990PTC055149
211	PLASTCON ENGINEERING PRIVATE LIMITED	B03604188	U74210MH1991PTC061189
212	MADHU-MARK PRODUCTS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03559374	U65990MH1991PTC061292
213	SARAN AGRO PRODUCTS PVT LTD	B03611456	U01110MH1991PTC063392
214	MAHESHWARI REFINERS PVT LTD	B03620689	U15200MH1992PTC065162
215	KHARA IMPEX PVT LTD	B03590742	U51900MH1992PTC066595
216	SITA SECURITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B03575248	U74920MH1994PTC080463
217	SAI SHIRDI LEA-FIN PRIVATE LIMITED	B03619871	U65990MH1994PTC083346
218	KRIJAL BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED	B03545217	U67120MH1995PTC093991
219	BOMBAY GAS CABLECOM PRIVATE LIMITED	B03538469	U51900MH1995PTC095553
220	IBIS MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	B03573268	U51109MH1996PTC098792
221	VIDHARBHA ALKOHAL LIMITED	B03558905	U99999MH1997PLC105553
222	SHAMBHU MARKETING PRIVATE LIMITED	B03544327	U51900MH2000PTC124546
223	VR TECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED	B03612942	U72200MH2000PTC129138
224	ALLWARE POLYPACK PRIVATE LIMITED	B03623543	U65993MH2004PTC132095
225	JUPIO SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03612900	U72900MH2001PTC132316
226	CARATAGE INDIA PRIVATE LIMITED	B03617537	U36911MH2002PTC136236
227	CRAINS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03582376	U30009MH2002PTC138012
228	INDAUST IMW SHIPYARD PRIVATE LIMITED	B03550175	U35110MH2003PTC139008
229	ACC INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	B03595238	U72900MH2003PTC139519
230	SHRIPATI TRADING PRIVATE LIMITED	B03624806	U51909MH2004PTC147058
231	METAADYNAMICS LIFE SCIENCES LIMITED	B03611787	U24230MH2004PLC148134
232	SOLANA CREATIONS PRIVATE LIMITED	B03618808	U74994MH2005PTC155008
233	PANORAMA FOUNDATION (EDUCATION) PRIVATE LIMITED	B03610102	U80200MH2005PTC155981
234	THAKKAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03579182	U70100MH1983PTC029725
235	DHANGALA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03595394	U65990MH1990PTC057943
236	JABEE LOGISTICS PRIVATE LIMITED	B03589033	U61200MH2007PTC176119
237	SILVER-SPOON FOODS PRIVATE LIMITED	B03642279	U15410MH1985PTC035728
238	GYPSY FURNITURES PRIVATE LIMITED	B03639457	U36100MH1986PTC041962

239	EAURO GLASS MACHINERIES PRIVATE LIMITED	B03643145	U29290MH1991PTC061827
240	MAINGI MARITIME CONSULTANTS PRIVATE LIMITED.	B03627270	U74140MH1991PTC061840
241	NAM ARCHITECTURE AND DESIGN PRIVATE LIMITED	B03637360	U74300MH1999PTC117852
242	GOGIA INTERIOR SERVICES PRIVATE LIMITED	B03640471	U74210MH1999PTC122119
243	INNOVISIONS INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03639671	U72200MH2000PTC126748
244	FLAMINGO INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	B03636487	U51900MH2000PTC127665
245	INTERNATIONAL EXPRESS CONTAINERS LINES PRIVATE LIMITED	B03631025	U99999MH2001PTC134187
246	CATALYST DATA PROCESSING PRIVATE LIMITED	B03633914	U72300MH2002PTC136897
247	NARENDRA-N-PANKAJ ROLLER BEARINGS PRIVATE LIMITED	B03650942	U99999MH1980PTC023432
248	SWASTIK VYAPAR PRIVATE LIMITED	B03654712	U51900MH1991PTC062612
249	LAKSHMIPATHI INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	B03654001	U65990MH1991PTC063440
250	SUMANGAL FINVEST PRIVATE LIMITED	B03654597	U65944MH1991PTC063441
251	SATYAM FINVEST PRIVATE LIMITED	B03654969	U65944MH1991PTC063467
252	KYOCERA SOUNDPLAST PVT.LTD.	B03644366	U25209MH1991PTC063790
253	RIDHI SIDHI FINVEST P.LTD.	B03654506	U67120MH1991PTC064410
254	LOTUS FINVEST (BOMBAY) P.LTD.	B03653821	U67120MH1991PTC064411
255	OJAS FINANCE AND TRADING P.LTD.	B03654415	U65910MH1991PTC064566
256	BLANCO ASSETS AND CAPITAL MANAGEMENT P.LTD.	B03653326	U67120MH1992PTC064710
257	NIRMOH INVESTMENT PVT.LTD.	B03654290	U65990MH1992PTC064833
258	NIKHARVA INVESTMENT PVT.LTD.	B03654175	U67120MH1992PTC065160
259	CHARUDATTA FINANCE AND TRADING PVT.LTD.	B03653482	U99999MH1992PTC065174
260	ROYAL STATIONERS PRIVATE LIMITED	B03654381	U36998MH1999PTC123158
261	VARTAK SALES PRIVATE LIMITED	B03655271	U51900MH2000PTC123453
262	SALZ CLUB (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	B03655321	U85190MH2002PTC135534
263	SMIT OUTSOURCING SERVICES PRIVATE LIMITED	B03646221	U72900MH2004PTC144269
264	GUJRAL AUTO CENTER PRIVATE LIMITED	B03647278	U51410MH2005PTC155874
265	I2I SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B03655396	U30007MH2003PTC141229
266	SĀIAASTHA COMMODITIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B03650975	U74930MH2007PTC171434
267	SAM KNITS PRIVATE LIMITED	B03752748	U18100MH1977PTC019944
268	KOREGAON POLYMER PVT LTD	B03706637	U25200MH1982PTC027341
269	DYCON TECHNOCRATS PVT LTD	B03783990	U74210MH1982PTC027816
270	MARC SALES PVT LTD	B03778396	U51496MH1986PTC038653
271	SIGNET ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	B03737194	U28920MH1986PTC039081
272	MURUGAN SHIPPING PRIVATE LIMITED	B03744554	U17120MH1986PTC041645
273	MARY MAGDALENE HOUSING COMPLEX PVT LTD	B03775343	U99999MH1987PTC042617
274	MARKS CONTROLS AND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	B03728888	U32100MH1987PTC043805
275	SPECTRUM ADMARK PRIVATE LIMITED	B03768108	U72300MH1988PTC048025
276	MONALI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B03740693	U45200MH1989PTC050343
277	PREM BUILDWELL TECHNOCRATS PVT LTD	B03760584	U70102MH1989PTC052624
278	MERCHANT SHOE BAZAR PRIVATE LIMITED	B03688082	U51310MH1990PTC057538
279	CHANDRAPRABHA TECHNICAL AND FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B03776713	U67190MH1992PTC070150
280	CHANNEL FINANCIAL CONSULTANTS P.LTD.	B03771136	U67190MH1993PTC072717
281	ENVICO EXPORTS HOUSE (INDIA) P.LTD.	B03776135	U51900MH1993PTC074805
282	SANTKRIPA CONSTRUCTION AND HOUSING DEVELOPERS CO.P.LTD.	B03748910	U45202MH1993PTC075706
283	TAVISHA TRADERS P.LTD.	B03770302	U51900MH1994PTC076162
284	RASHMI ZAVERI CAPITAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B03682572	U74140MH1994PTC079728
285	EXPRESS SECURITIES LIMITED	B03755329	U67120MH1994PLC082883
286	BATRA GULATI PROJECTS LIMITED	B03717451	U85622MH1995PLC085622
287	GHANESHWAS PROPERTIES (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	B03738705	U70101MH1995PTC085814
288	MASTERBUILD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B03722907	U45200MH1995PTC086283
289	CARAVELLE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B03717972	U45200MH1995PTC086314
290	YENOM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B03723418	U70100MH1995PTC086346
291	TAKILA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B03723178	U70100MH1995PTC086807
292	AHAN FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03780723	U67190MH1995PTC089124

293	VASTRA MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED	B03784444	U33204MH1995PTC089945
294	BHAIRAV FASHIONS PRIVATE LIMITED	B03778214	U18100MH1995PTC090355
295	SHAINA EXIM PRIVATE LIMITED	B03739455	U51909MH1995PTC090487
296	PRASAD TELECOM PRIVATE LIMITED	B03768827	U64200MH1995PTC090864
297	PROSPEROUS MERCANTILE PRIVATE LIMITED	B03725694	U51900MH1995PTC091586
298	VASUDEV PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03689718	U70100MH1995PTC091851
299	APPLY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	B03777729	U74300MH1995PTC093174
300	METRO REALTY PRIVATE LIMITED	B03689361	U70100MH1995PTC093758
301	TRUPTI TRAVEL HOUSE LIMITED	B03761012	U60220MH1996PLC102665
302	NEW LIFE STEEL STRUCTURES PRIVATE LIMITED	B03735008	U99999MH1996PTC103553
303	SHRIRAM J. STOCK AND SHARE BROKERS LIMITED	B03743259	U67120MH1997PLC105335
304	AUGUST HOLIDAYS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03777703	U55100MH1997PTC109696
305	NISHANT BALL BEARINGS PRIVATE LIMITED	B03783412	U24130MH1998PTC115436
306	AURO AUDIO CASSETTES PRIVATE LIMITED	B03701307	U32300MH1998PTC115497
307	TRANSPACK CARRIERS PRIVATE LIMITED	B03749496	U63090MH1999PTC120142
308	AMRUTA EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03776119	U51900MH1999PTC121698
309	UNITY ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED	B03755899	U74300MH1999PTC121952
310	KNAV CONSULTING PRIVATE LIMITED	B03754025	U74140MH1999PTC122201
311	AEROCARE CARGO PRIVATE LIMITED	B03769197	U63090MH1999PTC122264
312	REGAL MILLENNIUM MERCHANDISE PRIVATE LIMITED	B03747631	U51900MH2000PTC125349
313	INTELISYS INDIA LIMITED	B03706975	U52392MH2000PLC126150
314	MULTILINK INDSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03780293	U72200MH2000PTC128547
315	BUILDCON SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	B03690344	U72200MH2000PTC129033
316	N S SHETTY LOGISTICS PRIVATE LIMITED	B03729738	U63090MH2001PTC132290
317	POOJA BISCUITS PRIVATE LIMITED	B03782141	U15412MH2001PTC132709
318	TRENDY FINANCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B03775236	U67190MH2003PTC138941
319	SHRADDHA GOLD PRIVATE LIMITED	B03773256	U51398MH2004PTC145319
320	AAHANA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03775426	U45200MH2004PTC146072
321	SUNSOFT MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	B03767027	U51909MH2004PTC149244
322	TRUEGOLD TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B03767308	U51909MH2004PTC149371
323	SUMADHUR HOTELS PRIVATE LIMITED	B03753290	U55100MH2005PTC152388
324	RUTU FOODS PRIVATE LIMITED	B03770567	U15100MH2005PTC155266
325	BIOSEEK DIABETES CARE (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03677317	U85195MH2002PTC137667
326	TRAVELMATE REPRESENTATIONS PRIVATE LIMITED	B03700622	U63040MH2006PTC160754
327	GATEWAY FUND ADVISORS PRIVATE LIMITED	B03688066	U74140MH2006PTC160948
328	PROWL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03707569	U74300MH2006PTC164148
329	HN TECH PRIVATE LIMITED	B03712957	U72900MH2006PTC165493
330	KALPAVRUKSHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03695467	U45201MH2006PTC166356
331	OPERA WINES PRIVATE LIMITED	B03779865	U15532MH2007PTC170025
332	BHANSALI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	B03778446	U15543MH2008PTC178802
333	SKIL TOURISM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	B03725579	U63040MH2007PTC169606
334	SKIL WATER PROJECTS PRIVATE LIMITED	B03724879	U74999MH2007PTC170546
335	EZ WEB SERVICES PRIVATE LIMITED	B03702883	U72900MH2007PTC176692
336	HINDUSTAN MATERIALS PRIVATE LIMITED	B03840196	U29280MH1954PTC009209
337	BOMBAY AUTO ANCILLARY AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B03872280	U29130MH1976PTC019000
338	DEVANG TEXTILES PRIVATE LIMITED	B03867710	U17100MH1978PTC020240
339	LA TAKNIC ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD	B03885969	U99999MH1982PTC026195
340	IRIS EXPORTS AND PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	B03841665	U51900MH1983PTC030486
341	BROADWAY INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B03822103	U67120MH1984PTC033704
342	BHAVESH POLY-PLAST PVT LTD	B03897972	U25200MH2004PTC034031
343	SANJU INVESTMENTS PVT. LTD	B03878378	U67120MH1986PTC039168
344	DEEPRIL PVT LTD	B03847662	U99999MH1987PTC045266
345	DATTANI INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B03891132	U65990MH1988PTC045852
346	RAJENDRA PUBLISHING HOUSE PRIVATE LIMITED	B03807336	U22100MH1988PTC046989

347	SANJAY FABRICS PRIVATE LIMITED	B03886819	U17110MH1988PTC049082
348	MANISH POLYSTER FABRICS PRIVATE LIMITED	B03893013	U17120MH1989PTC050410
349	OGALE METALTECH PVT. LTD.	B03892536	U28930MH1989PTC052220
350	AHURA MAZDA COMPU-CREATIONS PRIVATE LIMITED	B03850237	U99999MH1990PTC056739
351	MANISHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03820107	U65990MH1990PTC056927
352	MAHNOT EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03887288	U51900MH1990PTC057559
353	KANMOOR FOODS LIMITED	B03861788	U15100MH1991PLC060075
354	DALCHAND TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03851656	U51900MH1991PTC060244
355	SURUCHI PLASTICS PVT LTD	B03891934	U25200MH1991PTC063090
356	VAIDYA CONSTRUCTIONS (BOMBAY) PVT LTD	B03889995	U45200MH1992PTC065038
357	ARYAN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	B03840741	U74210MH1992PTC065362
358	MASTERPIECE ADVERTISING PVT LTD	B03829330	U74300MH1992PTC065992
359	ROSHAN SECURITIES PRIVATE LIMITED	B03800661	U65990MH1993PTC070389
360	MHO-CABLE ACCESSORIES (INDIA) PVT LTD	B03789781	U31300MH1993PTC071350
361	OMTEC CONSTRUCTION PVT.LTD.	B03892858	U45200MH1993PTC071575
362	B AND A CHEMICALS LTD.	B03822087	U24110MH1993PLC073067
363	IFTEX SALES PVT LTD	B03872629	U51900MH1994PTC077988
364	NESKO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03847126	U67120MH1994PTC081371
365	JEWEL PLANTATIONS LIMITED	B03829157	U01110MH1994PLC082478
366	SHREE SARVESH FARMS PRIVATE LIMITED	B03865458	U01220MH1995PTC085451
367	COMPUCART FURNITURE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B03893807	U36100MH1995PTC087013
368	SIGMA TELECOM PRIVATE LIMITED	B03868296	U74999MH1995PTC088999
369	NATELCO SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B03867298	U99999MH1995PTC089022
370	OMNI ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B03811460	U28920MH1995PTC089070
371	AMEET COLEX PRIVATE LIMITED	B03884574	U51900MH1995PTC089219
372	MUNSHI INVESTMENTS AND LEASING PRIVATE LIMITED	B03817848	U65900MH1995PTC089631
373	SHREE GHANTAKARNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B03820008	U67120MH1995PTC089632
374	RASHI SECURITIES PRIVATE LIMITED	B03859733	U36911MH1995PTC090507
375	NASU PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03824513	U70100MH2003PTC096194
376	ASTLE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B03811874	U67120MH1996PTC100302
377	INDRAPURI MEDICAL DIAGNOSIS AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	B03839941	U99999MH1996PTC103782
378	KULKARNI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03798303	U70100MH1997PTC105967
379	BHAINT ONLINE PRIVATE LIMITED	B03884236	U72100MH1998PTC115339
380	JAM-E-JAMSHED PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	B03848421	U22129MH1998PTC115478
381	AMAN BUILD CON PRIVATE LIMITED	B03866944	U70100MH1999PTC118099
382	PURE FLOW INDIA PRIVATE LIMITED	B03871662	U28920MH1999PTC122156
383	PRATHAM MEDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B03878501	U92140MH1999PTC123025
384	ROYAL MILLENNIUM MERCHANDISE PRIVATE LIMITED	B03840162	U51900MH2000PTC125353
385	MATIZ REALTORS PRIVATE LIMITED	B03800943	U70100MH2000PTC125394
386	BSA EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03785607	U17120MH2000PTC126779
387	PRATHMESH RESIDENCY PRIVATE LIMITED	B03819042	U70100MH2000PTC126885
388	SUYASH CLASSES PRIVATE LIMITED	B03868858	U80903MH2000PTC129191
389	M C S AGENCIES PRIVATE LIMITED	B03880119	U63090MH2002PTC134911
390	ALLIANCE MULTITRADE PRIVATE LIMITED	B03883931	U51909MH2002PTC135833
391	JAI HASTI LAND DEVELOPERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	B03866746	U45201MH2002PTC136919
392	BLUOM MARKETING PRIVATE LIMITED	B03839313	U51909MH2002PTC137203
393	NIKETA MARK CONCEPTS PRIVATE LIMITED	B03880507	U51909MH2002PTC137755
394	MEDIATORS POWER DISTRIBUTION NETWORK PRIVATE LIMITED	B03857968	U31200MH2003PTC141034
395	NISH GEMS PRIVATE LIMITED	B03864790	U51398MH2003PTC141248
396	MAGIC MEDIA CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED	B03864733	U74300MH2003PTC142402
397	SHREE ASH BRICKS PRIVATE LIMITED	B03860012	U26910MH2003PTC143104
398	OBEDIENT PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03807815	U45200MH2004PTC144696
399	GLORIA SHIPPING PRIVATE LIMITED	B03805686	U35100MH2004PTC145522

400	EXPO STEELEX PRIVATE LIMITED	B03866639	U27100MH2004PTC146754
401	NASHIK LIFE-SCAN CENTRE PRIVATE LIMITED	B03814522	U85195MH2004PTC146964
402	VIDESH INFOTECH LIMITED	B03810504	U72900MH2004PLC148593
403	VALJI SECURITIES PRIVATE LIMITED	B03843018	U67120MH2004PTC149309
404	RAJYOG RESTAURANT PRIVATE LIMITED	B03883881	U55100MH2004PTC150081
405	ANNAPURNA HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED	B03832110	U55100MH2005PTC152301
406	METIS INFOTECH PRIVATE LIMITED	B03890324	U30000MH2005PTC154063
407	SYSTEMS ASSURANCE INSTITUTE PRIVATE LIMITED	B03875218	U72900MH2005PTC154692
408	VALUEADDZ NETWORK PRIVATE LIMITED	B03821964	U92100MH2005PTC154737
409	CIRA LAB PRIVATE LIMITED	B03834561	U51397MH2005PTC155235
410	SAGUN GAME AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B03842275	U92190MH2005PTC156538
411	NILE BREWERIES PRIVATE LIMITED	B03866415	U51228MH1999PTC120546
412	MAAN BUILDERS PRIVATE LIMITED	B03831294	U45200MH2002PTC137657
413	ARNAV TRADERS PRIVATE LIMITED	B03813433	U51900MH2006PTC159016
414	PROZONE (THANE) DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03877560	U70100MH2006PTC159710
415	PROZONE MALL MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	B03877057	U70100MH2006PTC160957
416	SWAN MARITIME SERVICES PRIVATE LIMITED	B03840980	U93090MH2006PTC164575
417	SAMARTH ALKALIS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B03805074	U24232MH2007PTC170643
418	BABA GOLD DIGITAL CINEMA PRIVATE LIMITED	B03867157	U74900MH2008PTC180107
419	PAVSHE EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03909264	U51900MH1977PTC019581
420	MANIKYA EXPORTS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B03912615	U51900MH1980PTC022243
421	CANMORE INVESTMENT AND AGENCIES PVT LTD	B03916533	U65990MH1981PTC025023
422	ZUFAR CONSTRUCTION PVT LTD	B03908902	U45200MH2004PTC028359
423	RATANTEX FABRICS LIMITED	B03906583	U99999MH1985PLC035843
424	SIEMAG HI-TECH FILTERS PRIVATE LIMITED	B03898285	U29290MH1989PTC053343
425	TIFFANY DEVELOPERS P.LTD.	B03919545	U99999MH1994PTC076748
426	AL-TARA BUILDCON PRIVATE LIMITED	B03907631	U45201MH1995PTC085612
427	PEOPLE'S PLANET (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03911633	U74910MH1997PTC109388
428	BALBIR ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED	B03923521	U29100MH1997PTC112528
429	JUNIORBUZZ.COM INDIA PRIVATE LIMITED	B03916921	U72900MH2000PTC129737
430	NYSA COMPUTERS PRIVATE LIMITED	B03902202	U52392MH2004PTC145756
431	RITESHOP MERCANTILE COMPANY PRIVATE LIMITED	B03911690	U51909MH2005PTC152618
432	MBM MARKETING PRIVATE LIMITED	B03914934	U51900MH2006PTC159407
433	REAL EXOTICA JUICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03921301	U15134MH2007PTC174216
434	HARBANSLAL AGRAWAL INDIA PVT TD	B03962792	U51900MH1947PTC005890
435	THE SILICATES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03964202	U24130MH1954PTC009245
436	KAMUNJA FIELDS PRIVATE LIMITED	B04042859	U99999MH1950PTC010476
437	ALLIED PAINTS PVT LTD	B04015863	U24100MH1981PTC024191
438	K S J FOODS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B04044053	U15410MH1981PTC024235
439	CYBERTECH ALLOYS PRIVATE LIMITED	B03996378	U27100MH1982PTC026002
440	ASHA CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO PVT LTD	B03950748	U45200MH1983PTC029825
441	SURAJ WEAVERS PRIVATE LIMITED	B04013736	U17120MH1984PTC032430
442	NEEKU TEXTILE MILLS PVT LTD	B03930427	U99999MH1985PTC035272
443	MAKHIJA PLASTOPACK PVT LTD	B04020376	U99999MH1985PTC036694
444	THAPAR SONS CONSTRUCTIONS PVT LTD	B03998903	U99999MH1985PTC037595
445	THE BARON CHEMTECH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B03927134	U29250MH1986PTC038672
446	HITECH TAPES PVT. LTD.	B03989381	U99999MH1986PTC040639
447	RAJ EXECUTIVE HOTELS LIMITED	B03943123	U45200MH1987PLC042877
448	PRO-FIT GARMENTS PVT LTD	B04016689	U18101MH1987PTC043778
449	LEGEND DIAMOND PVT LTD	B04012613	U36900MH1987PTC044912
450	SHANGHVI TRADE LINK (INDIA) PVT LTD	B04002838	U24710MH1987PTC045469
451	AJIT EARTH MOVERS AND CIVIL ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04027645	U99999MH1988PTC046649
452	MARTAGON ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04017166	U28920MH1988PTC047494
453	PANCH-RATNA CHITRA PRIVATE LIMITED	B03955812	U92110MH1988PTC048820
454	KESHER FARMS PVT. LTD.	B03985959	U51909MH1988PTC049649
455	EPRO BIO-TECHNOLOGIES LIMITED	B04021663	U15140MH1989PLC050997

456	AKSHAR MARBLE AND TILES PRIVATE LIMITED	B03995651	U26940MH1989PTC052812
457	SILICON DEVICES PRIVATE LIMITED	B04039574	U99999MH1989PTC053134
458	INTERNET PHARMA CHEM PRIVATE LIMITED	B04025300	U24239MH1989PTC054109
459	DAHANU METAL PRIVATE LIMITED	B04031662	U28920MH1990PTC054818
460	EQUIFIN (INDIA) LIMITED	B04033270	U99999MH1990PLC055963
461	ALIBAUG KHANNA HOTELS AND RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	B03953403	U99999MH1990PTC056838
462	SHREE SHIVLING BUILDERS PRIVATE LIMITED	B03975679	U99999MH1990PTC057148
463	HARDEV ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B03940624	U99999MH1990PTC057490
464	TRIUMPH HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B03953130	U65990MH1990PTC057514
465	TOMTIT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03976065	U99999MH1990PTC057645
466	PRATIMA PROPERTIES AND TRADERS PRIVATE LIMITED	B04027009	U45200MH1990PTC058876
467	HRISHI BUSINESS FORMS LIMITED	B03966819	U99999MH1991PLC061714
468	MUKTADEEP INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03940681	U67120MH1991PTC061858
469	ETERNITY RESORTS PRIVATE LIMITED	B03985116	U55200MH1991PTC062000
470	VIRAJ FUELS PRIVATE LIMITED	B04005500	U23010MH1991PTC062034
471	MIDWEST MOVERS AND COURIERS PRIVATE LIMITED	B04014700	U64120MH1991PTC062349
472	MARZDI FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD	B04002564	U65990MH1991PTC062543
473	KARVI REALTORS PRIVATE LIMITED	B04036711	U36930MH1991PTC063483
474	TEK EDGE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B03953437	U74200MH1992PTC065011
475	SOLAR AGRO PRODUCTS LIMITED	B03970084	U01110MH1992PLC065435
476	NIKHIL PUNCHES AND DIES PVT.LTD.	B04020608	U99999MH1992PTC067206
477	FREIGHTAINER SERVICES PVT LTD	B04021978	U60300MH1993PTC071543
478	LAKSHAVEDHI INVESTMENT PVT LTD	B03932522	U67120MH1993PTC071643
479	KEVAL INVESTMENTS P LTD	B03972536	U65990MH1994PTC077358
480	SHANKHESHWAR CONSTRUCTIONS PRIVATE LTD	B03998747	U45200MH1994PTC077870
481	W D CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED	B03936879	U51900MH1994PTC078793
482	DECCAN PUREWATER AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED	B03959103	U71993MH1994PTC079736
483	PARIMAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B03947280	U45200MH1994PTC080749
484	OM GASSERS PRIVATE LIMITED	B03941754	U23201MH1994PTC080753
485	AQUASAGUS TRADING PRIVATE LIMITED	B03975497	U51905MH1994PTC080849
486	VIEIRAS MARKETING ORIENTATION SERVICES PRIVATE LIMITED	B03991916	U51900MH1994PTC081336
487	SANDILYA BHAVAN NIRMAN PRIVATE LIMITED	B03927233	U45200MH1994PTC082686
488	SAMURAI FINANCIAL CONSULTANCY AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B03971728	U67120MH1994PTC083538
489	AJINKYA SECURITIES PRIVATE LIMITED	B03976925	U67120MH1994PTC084047
490	UNISTAR CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B03971926	U67120MH1995PTC084271
491	SAMPATI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04002739	U45200MH1995PTC085442
492	BRAHMECHA GRAPES EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03964475	U01110MH1995PTC086428
493	TARAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B04003836	U45200MH1995PTC088740
494	SWETA TRAD EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04027363	U17114MH1995PTC089422
495	ANAPLAST INTERIORS PRIVATE LIMITED	B03973724	U36100MH1995PTC091059
496	POWER ALLOY STEEL PRIVATE LIMITED	B04014304	U27100MH1995PTC091149
497	COMPUNIX HITECH PRIVATE LIMITED	B03982436	U72900MH1995PTC093790
498	PIONEER CATV PRODUCTS PRIVATE LIMITED	B04018909	U32100MH1995PTC094386
499	CHOICE FASTRAK (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04018040	U64120MH1995PTC094560
500	RIGHTCHOICE SHELTERS PRIVATE LIMITED	B04031928	U70100MH1995PTC094792
501	BIGDEAL TRADERS PRIVATE LIMITED	B04034658	U51900MH1995PTC095736
502	BIOTECHNOLOGY RESOURCE CENTRE LIMITED	B03927688	U24129MH1996PLC095904
503	AARTI IMPEX PRIVATE LIMITED	B03998580	U51900MH1996PTC095992
504	PARTH INDENTS PRIVATE LIMITED	B03997905	U65990MH1996PTC098501
505	ALPS INFOVISION PRIVATE LIMITED	B04026100	U72200MH1996PTC099184
506	FINANCIAL AVENUES PRIVATE LIMITED	B04010823	U74140MH1996PTC099751
507	NASDAQ FINANCIAL TECHNOLOGIES LIMITED	B03939311	U67120MH1996PLC101133
508	SAHIL REALTY PRIVATE LIMITED	B04017562	U70100MH1996PTC104678
509	MODI FILMS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	B03993029	U92110MH1997PTC104951
510	NEHAPAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04011342	U25201MH1997PTC105145

511	UNITAS CREATIVE TELEVISION LIMITED	B03987559	U99999MH1997PLC105152
512	SAMTA SERVICES (KAKINADA) PRIVATE LIMITED	B04034062	U63090MH1997PTC106902
513	APPLE PRIMARY SECURITIES LIMITED	B03991155	U99999MH1997PLC108458
514	P R GOEL CARRIERS PRIVATE LIMITED	B03948247	U63040MH1997PTC109792
515	OPAL SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B04043485	U72200MH1997PTC111023
516	CHAITRA STONES LIMITED	B04008751	U26993MH1997PLC112235
517	KHOPOLI CONCRETE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	B03963055	U26940MH1998PTC113928
518	PAM EMPRESS TRADERS PRIVATE LIMITED	B03927324	U51200MH1998PTC116782
519	ANMOL AGRO FORESTS LIMITED	B04043378	U01100MH1998PLC117612
520	SAMSON SHIPPING AND MARINE CONTRACTORS (INDIA) LIMITED	B03957768	U35110MH1999PLC118535
521	M M S ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	B04006755	U74210MH1999PTC119537
522	FAXMAN COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	B03934338	U64200MH1999PTC122951
523	PERFECT TELE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B03948601	U72300MH1999PTC123329
524	DHANOO PROPERTY AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B03968666	U45200MH2000PTC124268
525	INFO AVENUES INDIA PRIVATE LIMITED	B03973757	U72900MH2000PTC126170
526	SHELTER SINGHANIA SERVICES PRIVATE LIMITED	B04017265	U74300MH2000PTC126604
527	MINDROME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B03970654	U72200MH2000PTC128549
528	LAHARI MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B03992591	U92130MH2000PTC128973
529	VISHAL MARITIME PRIVATE LIMITED	B03991767	U11101MH2000PTC128991
530	CHANNEL NEST CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04015723	U45102MH2000PTC129873
531	CHANNEL STAR COSNTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04017059	U45102MH2000PTC129885
532	I AND S ADVERTISING PRIVATE LIMITED	B04032512	U74300MH2001PTC130499
533	F P MANEKIA TRADING PRIVATE LIMITED	B03982345	U51909MH2002PTC135093
534	METRO TRANSACTION SERVICES LIMITED	B03956950	U74999MH2002PLC136380
535	MAHARAJA MULTI-CURRENCY SERVICES PRIVATE LIMITED	B03994415	U65990MH2002PTC136701
536	VIJAYTA TELE-VENTURE PRIVATE LIMITED	B04033551	U92100MH2002PTC137308
537	S I AND D FILMS PRIVATE LIMITED	B03964368	U92100MH2002PTC137321
538	NOORANI FILM PRIVATE LIMITED	B03993524	U92100MH2003PTC138611
539	BABA OVERSEAS PRIVATE LIMITED	B04002069	U51909MH2003PTC140047
540	BALTHAZAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	B03954757	U51220MH2003PTC141267
541	GECO ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04032322	U29219MH1974PTC143842
542	TUKA NAMA AGRICULTURE AND RESEARCH COMPANY PRIVATE LIMITED	B04021101	U73100MH2004PTC144077
543	MNS FOREX AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	B03964723	U63040MH2004PTC145071
544	VIRTUOSO FABRICS PRIVATE LIMITED	B04011748	U17120MH2004PTC145402
545	DEBUG NETWORKING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B03969904	U72900MH2004PTC145875
546	ROYAL MUMBAI STUDIO RESORTS PRIVATE LIMITED	B04042487	U55100MH2004PTC146343
547	PANSHET AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	B04006813	U01100MH2004PTC148435
548	NU-MEDIPHARMA (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04002598	U24230MH2005PTC153255
549	ATHERSTONE CREDIT SOLUTIONS LIMITED	B04000485	U65923MH2005PLC154420
550	NATURE S NECTAR (JUICE BAR) PRIVATE LIMITED	B03951852	U15134MH2005PTC154843
551	LARGO INFRASTRUCTURE AND TRADING PRIVATE LIMITED	B04036869	U70100MH2005PTC157878
552	RJN INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B04022000	U72900MH2006PTC162551
553	BOROLE AGRO BIO-TECH INDIA PRIVATE LTD	B03995818	U01110MH2006PTC159790
554	QI VITALITY PRIVATE LIMITED	B04026837	U29219MH2006PTC163894
555	PEEBEEKAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B03972718	U45201MH2006PTC163486
556	VARUN INFOTECH PARK LIMITED	B03937158	U72900MH2006PLC162909
557	SUPERIOR ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED	B03933314	U23209MH2006PTC166374
558	QUADRANT AGRI & EXPORTS PRIVATE LIMITED	B03987492	U01119MH2006PTC166514
559	TRING COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	B03990587	U30005MH2007PTC168556
560	SPL INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES LIMITED	B04030623	U93000MH2007PLC173259
561	SHREE HEM LABH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B03979242	U45201MH2007PTC169994
562	MEGASTORE LOGISTICS PARKS (HARYANA) PRIVATE LIMITED	B03984002	U45400MH2007PTC171766
563	NEUMAG MACHINES PRIVATE LIMITED	B03932274	U29261MH2007PTC174542

564	ALLMA MACHINES PRIVATE LIMITED	B03933587	U29269MH2007PTC174534
565	BARMAG MACHINES PRIVATE LIMITED	B03934171	U29253MH2007PTC176877
566	JIVANLAL AGRO LOGISTICS PRIVATE LIMITED	B04031175	U63000MH2008PTC180503
567	INTERNATIONAL RADIOS AND TELEVISION PVT LTD	B04082061	U92110MH1940PTC003110
568	MOHAN-IYER CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04061651	U74140MH1971PTC015003
569	W E COX AND CO RECOVERIES ASIA PRIVATE LIMITED	B04135489	U65999MH1972PTC015567
570	TOLANI ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04071148	U28920MH1975PTC018135
571	BOMBAY EDUCATIONAL PUBLISHERS PRIVATE LIMITED	B04065900	U22100MH1978PTC020252
572	K M FERTILIZERS PVT LTD	B04073136	U24120MH1981PTC024076
573	GUPTA HOUSE PROPERTIES PVT LTD	B04085106	U70100MH1982PTC027215
574	AWATRAMANI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04130621	U99999MH1982PTC028282
575	LEAD CONSULTANTS PVT LTD	B04141164	U74140MH1983PTC030263
576	HORIZON CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	B04102448	U74140MH1983PTC030644
577	B NICHLANI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04115200	U65990MH1983PTC030659
578	R RATAN EXPORTS PVT LTD	B04081477	U51909MH1983PTC030669
579	MALBROS CHEM-METS PVT LTD	B04099081	U70100MH1983PTC031196
580	CHITVALSA INVESTMENT AND FINANCES PVT LTD	B04112801	U65990MH1983PTC031493
581	SHIVKRUPA PAPER PVT LTD	B04070967	U51396MH1984PTC034396
582	SHREENATH MEDICARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04139051	U85100MH1985PTC036440
583	RIMA TRADE LINK PRIVATE LIMITED	B04153367	U51900MH1985PTC036494
584	KAYTEE WINDFARM PVT LTD	B04157210	U51900MH1985PTC037633
585	SEAWHEELS CARRIERS PVT LTD	B04055547	U63010MH1986PTC038758
586	BENATO DRUGS PVT LTD	B04158663	U99999MH1986PTC039316
587	MATRUBHOOMI INVESTMENT AND FINANCE LIMITED.	B04115556	U67120MH1986PLC039880
588	SUN UP HOME PRODUCTS PVT LTD	B04093423	U28997MH1986PTC039996
589	PATKAR FERRO ALLOYS PVT. LTD.	B04149928	U27100MH1986PTC040632
590	LOKHANDWALA HOUSING FINANCE (INDIA) PVT LTD	B04133922	U65922MH1986PTC041462
591	VIDHARBHA HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LIMITED	B04090205	U65922MH1986PLC041909
592	SHEFIELD TRUSTEESHIP COMPANY PRIVATE LIMITED	B04136271	U51900MH1986PTC042012
593	CEE SULFONS PVT LTD	B04154183	U24100MH1987PTC043708
594	AMAR CARBON PVT LTD	B04060125	U24110MH1987PTC044754
595	SHRUSHTI ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO. PVT LTD	B04099115	U28920MH1987PTC044824
596	SANJIVANI ENGINEERING AND AGENCIES PRIVATE LIMITED	B04099487	U28920MH1988PTC047149
597	SHEETAL LAND DEVELOPERS PVT LTD	B04054789	U70100MH1988PTC048246
598	SABNAM OVERSEAS PRIVATE LIMITED	B04141131	U17110MH1988PTC049500
599	MOONSTAR EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04111803	U51900MH1988PTC049951
600	VEKFAB ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04155719	U74210MH1988PTC050062
601	SIDDHI TRANSPORT PRIVATE LIMITED	B04119988	U60100MH1989PTC053182
602	HEMSA TRADING PRIVATE LIMITED	B04146031	U51900MH1990PTC054926
603	ECON POLLUTION CONTROL PRIVATE LIMITED	B04081287	U74210MH1990PTC055334
604	GALA CT SCAN CENTRE PRIVATE LIMITED	B04130019	U85195MH1990PTC057454
605	CANDLE TRADE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04103941	U99999MH1990PTC057707
606	LUMUS INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B04151478	U65990MH1990PTC057859
607	SPECTRON THIN FILMS PRIVATE LIMITED	B04068508	U29304MH1990PTC059217
608	SANVIJAY TOURIST SERVICES PRIVATE LIMITED	B04105904	U63040MH1990PTC059400
609	AURUM TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04069688	U51900MH1991PTC060070
610	PRIYANKA SILK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B04092631	U17116MH1991PTC060879
611	SHANTI GRAH NIRMAN PRIVATE LIMITED	B04063095	U45200MH1991PTC061409
612	SBAJ ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	B04154522	U99999MH1991PTC061988
613	BAYROSS TECHNOSYS AND COMPUTERS PVT LTD	B04130944	U30009MH1991PTC062640
614	CHANDAN SYNTHETICS PRIVATE LIMITED	B04111019	U17120MH1991PTC063712
615	KEDARNATH STONE CRUSHERS PRIVATE LIMITED	B04102240	U99999MH1992PTC069178
616	PIYUSH AND COMPANY PVT.LTD.	B04106654	U51310MH1992PTC069312
617	GOLDLINE COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	B04148961	U51311MH1993PTC071042
618	MORJARIA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	B04062121	U55101MH1993PTC071437

619	HUSAINI BUILDERS P.LTD.	B04144887	U45200MH1993PTC075639
620	NAGARJUNA AMC LIMITED	B04093985	U74999MH1994PLC077241
621	VITAL VEGETABLE OILS AND PROTEINS LIMITED	B04141859	U15142MH1994PLC079578
622	ANEMONE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B04149175	U45200MH1994PTC079660
623	SEAGULL FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	B04085163	U65990MH1994PTC079838
624	ROYAL PALMS RESORTS PRIVATE LIMITED	B04048351	U45200MH1994PTC080339
625	FREEZ-AIR EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04116091	U32109MH1994PTC081451
626	LEGEND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04133476	U45200MH1994PTC083589
627	SADGURU HOTELS PRIVATE LIMITED	B04090452	U99999MH1994PTC083866
628	SAMAYSAR INVESTMENT AND DEVELOPERES PRIVATE LIMITED	B04051264	U45200MH2004PTC084424
629	CHAMAK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04135463	U45200MH1995PTC085525
630	CINE TEAM COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	B04074316	U99999MH1995PTC085533
631	PAMRUCHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04101903	U45200MH1995PTC085830
632	CHAITNYA LAXMI PORTFOLIO SERVICES PRIVATE LIMITED	B04155420	U74140MH1995PTC086005
633	JAL PARBAT BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04153805	U45200MH1995PTC086044
634	WELLWORTH JEWELLERY (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04143251	U36911MH1995PTC086221
635	YOUNG TECHNOCRATS INDIA PRIVATE LIMITED	B04153904	U99999MH1995PTC086384
636	CINEMA VISION INDIA PRIVATE LIMITED	B04127684	U92100MH1995PTC087304
637	HEMRUCHI BUILDERS PRIVATE LIMITED	B04111308	U45200MH1995PTC087878
638	THOROUGHbred INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04151700	U65990MH1995PTC089520
639	OFF-BEAT FINANCE PRIVATE LIMITED	B04082111	U65910MH1995PTC090262
640	SONI GRAPHIC PRIVATE LIMITED	B04129680	U22200MH1995PTC091801
641	KOTHARI AUTOMATICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04091948	U29290MH1995PTC092035
642	DART ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED	B04112546	U28920MH1995PTC092270
643	EVERFLOW COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	B04160347	U92110MH1995PTC092978
644	TROCADERO INVESTMENTS COMPANY PRIVATE LIMITED	B04048062	U65990MH1995PTC093400
645	GEOTRONICS SERVICES PRIVATE LIMITED	B04050381	U74999MH1995PTC093827
646	BHUTA TEXPLAST PRIVATE LIMITED	B04118279	U24220MH1995PTC094785
647	GOPALASUNDERA MARKETING PRIVATE LIMITED	B04115101	U51900MH1995PTC095445
648	MAYASHREE TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED	B04144960	U17110MH1995PTC095515
649	ORBIT BUSINESS CENTRE PRIVATE LIMITED	B04146957	U74999MH1996PTC096215
650	ORTWIN CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED	B04138251	U67120MH1996PTC096264
651	MEDICARE AND HEALTH SYSTEMS COMPANY PRIVATE LIMITED	B04058731	U33120MH1996PTC096888
652	GULRAJ PROPERTIES AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04071775	U70100MH1996PTC097327
653	PROCESS DATA MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04121117	U72200MH1996PTC097675
654	SHADILAL AND SONS TOYS LIMITED	B04117057	U36940MH1996PLC098960
655	IFTX BUNKERING PRIVATE LIMITED	B04060349	U35112MH1996PTC102738
656	RAVRAJ FOODS LIMITED	B04134565	U15100MH1996PLC102773
657	MAIRANGI INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04048393	U67120MH1996PTC102936
658	SHONDELLE HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B04098901	U99999MH1996PTC104241
659	CABRIOLET INVESTMENT AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04075685	U67120MH1996PTC104274
660	ADVENT NETWORK PRIVATE LIMITED	B04159612	U92114MH1996PTC104460
661	IND - REGION SHIPPING PRIVATE LIMITED	B04154019	U61200MH1996PLC104777
662	TRICOM SHARES AND STOCK BROKER PRIVATE LIMITED	B04119756	U67120MH1997PTC105474
663	INNOVATIVE IDEAS AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04134854	U65990MH1997PTC106230
664	GREEN CITY FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED	B04088969	U99999MH1997PLC106405
665	BAWREE SAREES PRIVATE LIMITED	B04156295	U51311MH1997PTC108308
666	SPAS DESIGN AND ARCHITECTURE PRIVATE LIMITED	B04135786	U74210MH1997PTC108744
667	VINAYAK FINTRADE PRIVATE LIMITED	B04047486	U65921MH1997PTC109926
668	SEEDDHI FINANCE AND TRADING LIMITED	B04070488	U67100MH1997PLC112611
669	PAWASKAR SHIPPING AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04159760	U35110MH1998PTC112928
670	TRANSWEB SOLUTIONS (INDIA) LIMITED	B04132569	U72100MH1998PLC113150
671	AULET JEWELS PRIVATE LIMITED	B04085551	U36910MH1998PTC113520

672	DECOM CONSULTANCY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04056388	U74210MH1998PTC114428
673	SHREE GAYATRI GARMENT MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04108445	U18101MH1998PTC117638
674	SARVUM INFORMIS PRIVATE LIMITED	B04081121	U74140MH1999PTC118393
675	FIRST CALL ADVISORY PRIVATE LIMITED	B04141784	U74140MH1999PTC118540
676	SHANTERI COMPUTER INSTITUTE PRIVATE LIMITED	B04086856	U80302MH1999PTC119010
677	KRIZM INFOTECH LIMITED	B04127114	U74300MH1999PLC120496
678	VISHAL KUMAR TEXTILES PRIVATE LIMITED	B04139325	U17110MH1999PTC121067
679	CALITO FINANCING PRIVATE LIMITED	B04128880	U65990MH1999PTC121106
680	VIPU AUTOMATION PRIVATE LIMITED	B04132262	U74920MH1999PTC121490
681	PAYAL NETWORK PRIVATE LIMITED	B04119129	U92114MH2000PTC123474
682	KAM FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B04048617	U67190MH2000PTC124939
683	CRYSTAL MILLENNIUM TRADING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	B04133989	U51900MH2000PTC125169
684	ICON TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B04098984	U72900MH2000PTC126997
685	SHUBHCHINTAK STEELS PRIVATE LIMITED	B04142790	U28113MH2000PTC127854
686	PAX TEC LIMITED	B04158275	U72200MH2000PLC129299
687	YORK (INDIA) CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED	B04120408	U72300MH2000PTC129465
688	Y.L.SABLE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04154571	U45201MH2000PTC129538
689	NEOTECH SOFTWARE PRIVATE LIMITED	B04056933	U72200MH2000PTC129643
690	CHANNEL CORNER CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04108668	U99999MH2001PTC130944
691	U-PRICEITRIGHT COM INDIA PRIVATE LIMITED	B04150462	U72200MH2001PTC132160
692	RAPID EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04148235	U51399MH2001PTC132789
693	RIDDHI JEWELLERY PRIVATE LIMITED	B04091039	U51398MH2001PTC133915
694	KARADKAR - PURO CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED	B04122875	U45201MH2002PTC134913
695	SANGANESH INFOTECH PRIVATE LIMITED	B04153649	U72200MH2002PTC135165
696	RELIABLE BULK CARRIERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04091997	U63010MH2002PTC135268
697	KRISOL INFOTECH PRIVATE LIMITED	B04114260	U72900MH2002PTC135754
698	HUMANTECH SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	B04135901	U74910MH2002PTC137218
699	AGRICH EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04150918	U51909MH2002PTC137436
700	ACHIEVER SHIPPING PRIVATE LIMITED	B04048757	U63032MH2003PTC139447
701	AFRO TRADERS PRIVATE LIMITED	B04119160	U51909MH2003PTC139593
702	CASUALS BOUTIQUE (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04090114	U51310MH2003PTC139630
703	RENIS ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04138350	U28990MH2003PTC140118
704	BHAUMIK SUGARS PRIVATE LIMITED	B04130647	U15420MH2003PTC140425
705	SEVAA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	B04092524	U51909MH2003PTC140565
706	LUNI INFRASTRUCTURE AND TOLL OPERATIONS PRIVATE LIMITED	B04148136	U45203MH2003PTC140695
707	FN STEEL TRADING PRIVATE LIMITED	B04135430	U51420MH2003PTC140779
708	SAFA MEDICARE PRIVATE LIMITED	B04063905	U85110MH2004PTC144408
709	SUN CERA PRIVATE LIMITED	B04111605	U26910MH2004PTC144987
710	SHWETA SUGARS PRIVATE LIMITED	B04131462	U15420MH2004PTC146094
711	SOHAM HI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED	B04152062	U92190MH2004PTC148944
712	RCON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04155107	U74910MH2004PTC149559
713	SEAVIEW RESIDENCY PRIVATE LIMITED	B04138061	U45200MH2005PTC150618
714	POLYCAB WIRES AND CABLES PRIVATE LIMITED	B04058053	U31300MH2005PTC154740
715	ASCOT INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED	B04155461	U59090MH2005PTC155705
716	SUMI GEMS PRIVATE LIMITED	B04089926	U51398MH2005PTC155867
717	TRITON MACHINES PRIVATE LIMITED	B04144192	U51909MH2005PTC157227
718	GANRAJ PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04098315	U70100MH2005PTC157750
719	GIRI BALAJI MARKETING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04126942	U74130MH1999PTC119778
720	MESOPENTINA NAVIGATION COMPANY PRIVATE LIMITED	B04153680	U63090MH1999PTC120386
721	SHAUN TECH PRIVATE LIMITED	B04094504	U31200MH2005PTC158149
722	BAJAJ BIOTECH PRIVATE LIMITED	B04160024	U24239MH2006PTC158698
723	PRISHA TRADE LINKS PRIVATE LIMITED	B04049045	U52190MH2006PTC159907
724	PLANET ENTERPRISE INDIA PRIVATE LIMITED	B04105953	U31109MH2006PTC160308
725	NUTAN BATTERY AND BATTERY PLATES PRIVATE LIMITED	B04100293	U37100MH2006PTC160359

726	D.L.N TRADING PRIVATE LIMITED	B04144770	U51900MH2006PTC161421
727	DRILLING TOOLS SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04144671	U28939MH2006PTC161555
728	KMMJ ADVISORS PRIVATE LIMITED	B04151825	U74140MH2006PTC161573
729	SELENA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04058848	U74920MH2007PTC168662
730	LOTUS LIFE INSURANCE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	B04147450	U66010MH2007PTC169813
731	PANACEA FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED	B04151908	U15549MH2006PTC166493
732	PRABHAT REALTY HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B04130381	U70102MH2007PTC167575
733	SVELTE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED	B04112652	U55101MH2007PTC169280
734	FILM AND MEDIA RESEARCH AND RATING AGENCY PRIVATE LIMITED	B04133542	U92120MH2007PTC169400
735	JAFZA DELHI BUSINESS WORLD (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04083671	U45200MH2007PTC168842
736	MODAK CABLES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04123667	U31905MH2007PTC172436
737	BOMBAY SCHOOL FOR MEDIA EXCELLENCE LIMITED	B04070595	U80220MH2007PLC173390
738	SHUKRA GEMS PRIVATE LIMITED	B04052932	U52393MH2007PTC174781
739	FABRICRAFT ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04140398	U29268MH2007PTC174377
740	PRABHAT MINERALS PRIVATE LIMITED	B04129508	U14200MH2008PTC178206
741	ASSET RESOLUTION MANAGEMENT COMPANY (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04117685	U67100MH2007PTC175810
742	LIDO PRIVATE LIMITED	B04255980	U74999MH1943PTC004011
743	ARUNA FOOTWEAR ENTERPRISES LIMITED	B04242640	U19200MH1970PLC014542
744	INDUSTRIALANDMANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PVT LTD	B04222105	U99999MH1970PTC014856
745	SAFAL SEEDS PVT LTD	B04242699	U99999MH1973PTC016396
746	SINGH MALLEABLE CASTINGS AND ENGINEERING LIMITED	B04247896	U27300MH1980PLC023235
747	PHOENIX DATA RESOURCES PVT LTD	B04208393	U74140MH1982PTC026920
748	SETHI SYNTEX PRIVATE LIMITED	B04226619	U99999MH1983PTC029130
749	RADAR COMMERCIAL LTD	B04250353	U99999MH1984PLC034286
750	QUAY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04212171	U67120MH1985PTC036368
751	DESOTO HOLDINGS PVT LTD	B04239836	U67120MH1985PTC036956
752	COMFORT REGENCY INN PVT LTD	B04169769	U55101MH1985PTC038048
753	NEO GALENICA LABORATORIES PVT LTD	B04210670	U99999MH1986PTC039138
754	LOPA INVESTMENT PVT. LTD.	B04237293	U99999MH1986PTC039925
755	MILLON PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04244844	U45200MH1986PTC040431
756	CHEMNO DRUGS MEDICA PRIVATE LIMITED	B04196192	U99999MH1987PTC045130
757	VASTUSEVA BUILDERS PRIVATE LIMITED	B04248597	U99999MH1988PTC048948
758	WEATHER WORKS BOMBAY PRIVATE LIMITED	B04254371	U29190MH1988PTC049185
759	SEEDLAND ESTATES PRIVATE LIMITED	B04196713	U70100MH1988PTC050164
760	PRITHVI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	B04174660	U92111MH1989PTC050726
761	RUPANI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04251633	U45200MH1989PTC050911
762	IMCCO ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04229878	U28920MH1989PTC051697
763	HARSH TIMOPLAST P LTD.	B04226213	U25209MH1989PTC052537
764	DELTA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04203998	U45200MH1989PTC054529
765	HARDIK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04180923	U65990MH1990PTC056025
766	SOLID ADHESIVE MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED	B04177143	U27200MH1990PTC056694
767	SAMANT KHANDOLKAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04214417	U45200MH1990PTC057690
768	SUVIDHA AGENCIES PRIVATE LIMITED	B04187712	U51209MH1990PTC057950
769	JASMA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	B04241410	U65910MH1990PTC059409
770	MARITIME HEALTH & SAFETY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04235891	U74140MH1991PTC060515
771	MID TOWN SHOPPING CENTRE PRIVATE LIMITED	B04251419	U52190MH1991PTC062414
772	ADNAN HOTELS PVT LTD	B04180576	U55200MH1991PTC062591
773	JET AVIATION PVT LIMITED	B04229944	U62100MH1992PTC066284
774	YASH SAFETY PRODUCTS (INDIA) LIMITED	B04187183	U28933MH1992PLC068944
775	ANTIQUE ENTERPRISES PVT LTD	B04187308	U74999MH1992PTC069340
776	SAHAYOG HOLIDAY RESORTS PVT.LTD.	B04202511	U99999MH1992PTC069343
777	VENUS ROCKS PRIVATE LIMITED	B04218509	U51420MH1992PTC070189

778	MULUND FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	B04235958	U65910MH1992PTC070206
779	TRAFALGAR TRADE LINKS PVT.LTD.	B04230942	U51900MH1993PTC070734
780	VERNEKAR JEWELLERS P.LTD.	B04234019	U51398MH1993PTC074599
781	KONA KONA EXPORTS P.LTD.	B04200622	U51900MH1993PTC074717
782	JOSHI PAPERS PVT LTD	B04252334	U51396MH1993PTC075047
783	MILIND EQUIPMENT HIRER PRIVATE LIMITED	B04199766	U63010MH1994PTC076053
784	NAVKAMAL FINANCIAL AND INVESTMENTS CONSULTANTS P.LTD.	B04227062	U65990MH1994PTC077273
785	DEXTER FINANCE AND INVESTMENT P.LTD.	B04236535	U99999MH1994PTC077904
786	FAYZ REAL ESTATE P.LTD.	B04245007	U45200MH1994PTC078443
787	FANCY-GHEWAR PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04247615	U45200MH1994PTC079794
788	ADSA FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B04190609	U67120MH1994PTC080755
789	VAIDEHI PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	B04243937	U51397MH1994PTC081462
790	TRIMURTHY CARPET TRADE PRIVATE LIMITED	B04217436	U51900MH1994PTC081715
791	PLAST-O-PLAST PRIVATE LIMITED	B04232146	U25200MH1994PTC083687
792	MADHUPURI SECURITIES AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B04222337	U65990MH1994PTC084083
793	STERLING HOMEMAKERS PRIVATE LIMITED	B04187282	U45201MH1995PTC084265
794	KESLON SECURITIES LIMITED	B04243390	U67120MH1995PLC085202
795	SHANMA CONTAINERS PRIVATE LIMITED	B04250577	U28129MH1995PTC088131
796	MAZDA PLASTIC PROFILES PRIVATE LIMITED	B04172128	U25206MH1995PTC088954
797	STAR POINT STOCK AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04189502	U67120MH1995PTC089179
798	ADVANCE TECHNOLOGY APPLICATIONS (BOMBAY) PRIVATE LIMITED	B04226429	U72200MH1995PTC092967
799	RAGHAVENDRA LEASING AND HOME FINANCE PRIVATE LIMITED	B04244661	U65922MH1995PTC093473
800	REALWORTH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04210597	U70100MH1995PTC094773
801	TOUCH PLASTICS PRIVATE LIMITED	B04190799	U25200MH1995PTC095137
802	BOMBAY COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED	B04229779	U92110MH1996PTC095825
803	DEVRUCH TRADE-EXPORT PRIVATE LIMITED	B04172912	U51900MH1996PTC099662
804	VIDARBHA PHOTO FILMS PRIVATE LIMITED	B04246633	U51909MH1996PTC099852
805	BLOSSOM SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B04251765	U99999MH1996PTC100379
806	MANAS PAINTS PRIVATE LIMITED	B04181186	U24100MH1996PTC103403
807	DICE COMPUTERS PRIVATE LIMITED	B04214227	U99999MH1996PTC103608
808	OPK INVESTMENTS AND FINANCE PRIVATE LIMITED	B04249033	U65990MH2002PTC103700
809	ELTECH COMBUSTION PRIVATE LIMITED	B04257069	U29200MH1997PTC105995
810	STECHNOL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	B04193983	U33100MH1997PTC107449
811	SAMEHA EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04220679	U52310MH1997PTC108132
812	ALAP MELODIES PRIVATE LIMITED	B04181582	U92100MH1997PTC109668
813	VARADHASTA HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED	B04238788	U99999MH1997PTC110332
814	DISHA HYDRAULICS PRIVATE LIMITED	B04246401	U99999MH1997PTC111353
815	DOMBIVLI COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	B04249579	U64204MH1997PTC111925
816	FAMOUS HOTELS PRIVATE LIMITED	B04255204	U99999MH1997PTC112371
817	AMOGH ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04217543	U70100MH1998PTC113335
818	CHOICE SHELTER PRIVATE LIMITED	B04220745	U70101MH1998PTC114346
819	PRAGA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04247060	U67190MH1998PTC114933
820	GHAJ TRADING PRIVATE LIMITED	B04190732	U51900MH1998PTC115169
821	SANE ABHIJIT FINANCIAL ENTERPRISE LIMITED	B04165494	U65921MH1998PLC116220
822	MANGO SOFTWARE LIMITED	B04188991	U72200MH1999PLC117962
823	VIRTUAL MOBILITY PRIVATE LIMITED	B04254256	U72200MH1999PTC118489
824	SEVA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	B04251971	U72900MH1999PTC120309
825	PLUS POINT INFOTECH PRIVATE LIMITED	B04235966	U80302MH1999PTC121534
826	SKYLARK ACCESS SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B04234654	U25200MH1999PTC121962
827	MILLENIUM NETREND SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04213385	U67120MH2000PTC123639
828	CBKJ CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04175238	U67190MH2000PTC124075
829	ANIL PAREKH ELECTRICALS AND COMPUTERS PRIVATE LIMITED	B04193579	U72100MH2000PTC124875

830	FAVOURITE FORTUNE COM (INDIA) LIMITED	B04190435	U72900MH2000PLC125723
831	TEL-SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	B04212338	U72200MH2000PTC128076
832	BABA DIGITAL PRINTING COMPANY LIMITED	B04193686	U25209MH2000PLC128641
833	FAST AND FAIR CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04252375	U67120MH2000PTC130237
834	TEAMPLAIZ (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04163218	U72900MH2001PTC130698
835	DARIALAL CHEM AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04215935	U74140MH2001PTC133048
836	PREMIER TRANSPORT SERVICE (NAGPUR) PRIVATE LIMITED	B04240370	U63090MH2001PTC133464
837	STELLA DAWN FURFURAL LIMITED	B04174777	U24297MH2002PLC134947
838	FARRAGO CREATIONS PRIVATE LIMITED	B04213468	U51909MH2002PTC135770
839	AMERICOM KR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B04188199	U72900MH2002PTC136258
840	AAKAR STRUCTURAL RESTORATIONS PRIVATE LIMITED	B04227559	U45200MH2002PTC138351
841	AAVISHKAR STRUCTURAL RESTORATIONS PRIVATE LIMITED	B04229829	U45200MH2002PTC138354
842	ST ATHANASIOS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04209748	U72200MH2003PTC141121
843	EURO EDUCATION CENTRE PRIVATE LIMITED	B04165676	U80300MH2003PTC141582
844	DHARMIK SUGARS PRIVATE LIMITED	B04212411	U15420MH2003PTC143533
845	HOLOMARK LABELLING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B04197752	U74999MH2004PTC145107
846	OM MIRAGE IMPEX PRIVATE LIMITED	B04194585	U51430MH2004PTC146643
847	MATOSHREE MANAGEMENT SOLUTION PRIVATE LIMITED	B04235735	U72900MH2004PTC146681
848	SAKS CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED	B04221768	U17100MH2004PTC147051
849	HAT-TRICK SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	B04254603	U92400MH2004PTC147679
850	B S JEWELLERY PRIVATE LIMITED	B04200234	U36911MH2004PTC148373
851	INFERENCE SYSTEMS LIMITED	B04249843	U72900MH2000PLC148953
852	MICROPARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04192266	U45200MH2005PTC151814
853	ROCKHOUNDER EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04249322	U36910MH2005PTC151883
854	OMSIDDHI AGROEXPORT PRIVATE LIMITED	B04221495	U51909MH2005PTC152412
855	SHREENATHJI COAL (GUJRAT) PRIVATE LIMITED	B04214359	U10100MH2005PTC152449
856	TRANSRAIL ISPAT PRIVATE LIMITED	B04255634	U27100MH2005PTC154122
857	RENAISSANCE LEGAL & LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED	B04250189	U74100MH2005PTC154282
858	WHITE-SPACE EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04256053	U51496MH2005PTC154721
859	JAJAL LOGISTIC SERVICES PRIVATE LIMITED	B04198636	U63090MH2005PTC154729
860	JUVENTUS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B04222642	U85190MH2005PTC154970
861	G L P L APOTHECARYS' PRIVATE LIMITED	B04191029	U85110MH2005PTC156204
862	TRIPLEA CREDIT VENTURES PRIVATE LIMITED	B04212684	U65990MH2005PTC156403
863	INNOVATION PHARMA PRIVATE LIMITED	B04187373	U24230MH2005PTC156424
864	AVDHESH COMMERCIAL LIMITED	B04247466	U99999MH1984PLC034263
865	A.D. MODDIE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04194155	U99999MH1987PTC045565
866	VARUN VINIYOG PRIVATE LIMITED	B04167797	U74920MH2006PTC160191
867	DYLOR CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B04231841	U24100MH2006PTC160457
868	SPORTS LAND MEADOWS PRIVATE LIMITED	B04233060	U45201MH2006PTC162901
869	FLEETCORP INDIA PRIVATE LIMITED	B04253415	U74999MH2007PTC167765
870	CITY RESEARCH PRIVATE LIMITED	B04207981	U93090MH2006PTC165183
871	NAPROD PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED	B04245296	U24110MH2007PTC167374
872	ALL SUITES PROPERTY 1 PRIVATE LIMITED	B04236923	U70200MH2007PTC166816
873	NBSIS CONSTRUCTION INDIA PRIVATE LIMITED	B04209342	U70109MH2007PTC167105
874	J H METAL TRADES PRIVATE LIMITED	B04246906	U51420MH2007PTC171435
875	HUMAN CHASE TECHNO PRIVATE LIMITED	B04239505	U72200MH2007PTC170196
876	MAGANLAL KARUBHAI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04233136	U45400MH2007PTC171117
877	UNITY KURAHASHI INDIA PRIVATE LIMITED	B04239786	U70200MH2007PTC172756
878	NEC SOFTEC PRIVATE LIMITED	B04214763	U72900MH2008PTC177886
879	DATALABS INSTRUMENT PRIVATE LIMITED	B04215083	U29220MH2008PTC177875
880	TOMINENT MINING PRIVATE LIMITED	B04230850	U14200MH2008PTC179162
881	KOHINOOR CORNER HOTELS PVT LTD	B04257259	U55200MH1983PTC030635
882	KRISHNA CONTAINERS LIMITED	B04270005	U99999MH1987PLC042884
883	PARSHURAM DYES AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B04270757	U99999MH1987PTC045568
884	NAVRAJ ROAD TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED	B04275012	U50100MH1988PTC047478
885	EASYGROW INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED	B04267548	U65990MH1988PTC048739

886	SRI DHARMA SASTA FOOD AND TEXTILE PRODUCTS PRIVATE LIMITED	B04277596	U15200MH1989PTC054639
887	STERLING RECORDINGS PRIVATE LIMITED	B04263596	U92312MH1990PTC056836
888	HERBESTAN PLAST INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B04268470	U99999MH1990PTC058003
889	KAIRALI FILMS PRIVATE LIMITED	B04271524	U92110MH1992PTC065921
890	GROWMONEY FINANCE PVT LIMITED	B04276945	U67120MH1992PTC066314
891	MAULSHRI FINANCE P.LTD.	B04258026	U65110MH1993PTC075019
892	PEDDER AND PEDDER LEASING AND FINANCE P.LTD.	B04260519	U65910MH1993PTC075553
893	DURGA PARMESHWARI LEASING P. LTD	B04257689	U65910MH1994PTC079075
894	KRAPPS CHEM PRIVATE LIMITED	B04271813	U24110MH1994PTC080245
895	SHUDH PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04262523	U70101MH1994PTC080984
896	SEALORD REALTORS PRIVATE LIMITED	B04266755	U70100MH1994PTC083921
897	JAIDHARA BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04262648	U70100MH1995PTC095127
898	NORIND SHIPPING AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	B04259289	U61100MH1997PTC106673
899	SHREE YOGESHWAR CARTONS PRIVATE LIMITED	B04261269	U99999MH1997PTC109961
900	YOGRAJ INFOTECH AND DATACOM PRIVATE LIMITED	B04262937	U72400MH2000PTC125422
901	SEAVENTURE MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	B04271326	U35111MH2001PTC132669
902	SHRIKALA INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B04268868	U65993MH2001PTC132672
903	ORBITRANS SHIPPING PRIVATE LIMITED	B04278958	U63090MH2003PTC141609
904	INNOVATIVE FREIGHT FORWARDERS PRIVATE LIMITED	B04262440	U63000MH2004PTC148345
905	STERLITE INFRASTRUCTURE HOLDINGS PRIVATE LIMITED	B04271110	U65990MH2005PTC157038
906	HANSA RADHA HOLDING AND TRADING PRIVATE LIMITED	B04272555	U65990MH1982PTC026879
907	CRAVING SINFUL GOODIES PRIVATE LIMITED	B04268041	U15419MH2006PTC164305
908	SLICE MARKETING PRIVATE LIMITED	B04265567	U45200MH2007PTC168385
909	METAGRAPHS PRIVATE LIMITED	B04353967	U27200MH1962PTC012296
910	DYNAMIC INDUSTRIAL UNDERTAKING LIMITED	B04327102	U24222MH1965PLC013327
911	CONSILUM PRIVATE LIMITED	B04360442	U74140MH1971PTC015106
912	GELSULES MEDICAPS PRIVATE LIMITED	B04321998	U99999MH1972PTC015954
913	ADITYA PAPER MILLS LIMITED	B04391017	U21000MH1974PLC017881
914	DHANVARSHA ROADWAYS PRIVATE LIMITED	B04287678	U63010MH1979PTC021217
915	CONTOUR ADVERTISING PRIVATE LIMITED	B04381216	U74300MH1980PTC022701
916	GANDHARAV TRADING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	B04364832	U67120MH1980PTC023278
917	PEEKAY MOVIES PRIVATE LIMITED	B04322574	U92100MH1980PTC023310
918	R W SAWANT AND CO COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	B04394730	U63022MH1980PTC023571
919	BHANDARI GEMS PVT LTD	B04425187	U36912MH1982PTC026091
920	VANIYA RASHMI PVT LTD	B04420618	U24110MH1982PTC026107
921	GUJARAT COLOUR PHOTO LAB PRIVATE LIMITED	B04332631	U99999MH1982PTC028896
922	ANUMAL INVESTMENTS PVT LTD	B04384301	U65990MH1982PTC028925
923	GORDEN STEEL AND PRESS WORKS PVT LTD	B04340527	U28910MH1983PTC029154
924	HINDUSTAN JEWELS PRIVATE LIMITED	B04401865	U39912MH1983PTC030466
925	ORIENT SINTERS LIMITED	B04420907	U99999MH1984PLC031857
926	TRIAD FOODS PRIVATE LIMITED	B04337416	U53100MH1985PTC035139
927	SPROUT TRADING AND INVESTMENT PVT LTD	B04333936	U67120MH1985PTC036202
928	BLUECHIP IMPEX PVT LTD	B04392544	U51900MH1985PTC037190
929	POLAR BATTERY INDUSTRIES PVT LTD	B04413100	U31402MH1985PTC037490
930	CLEA ADVERTISING & MARKETING PRIVATE LIMITED	B04364345	U99999MH1985PTC037723
931	JAB HOLDINGS AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	B04378535	U99999MH1985PTC037937
932	ACCUMULATOR PRODUCTS OF INDIA LIMITED	B04398467	U99999MH1987PLC043695
933	SURYODAYA ELECTRO MECHANICAL PRIVATE LIMITED	B04387239	U99999MH1988PTC046421
934	APPLE HEALTH-CARE LIMITED	B04349379	U85100MH1989PLC050244
935	MESCO AUTO PRIVATE LIMITED	B04297172	U29290MH1989PTC050905
936	DINESH KEDIA INVESTMENT AND FINANCE CONSULTANTS PVT LTD	B04317319	U99999MH1989PTC053145
937	TEXRICH FABRICS PRIVATE LIMITED	B04380895	U17100MH1989PTC053279
938	RADIAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04345393	U65990MH1989PTC054188
939	ANALA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED	B04361150	U65920MH1990PTC055845

940	SARAS FINANCIAL PRIVATE LIMITED	B04353520	U65990MH1990PTC056037
941	JAWHAR GREEN GLADE RESORTS PRIVATE LIMITED	B04308573	U55200MH1990PTC056336
942	BEACON MARKETING AND RESERVATION SERVICES PRIVATE LIMITED	B04319307	U51900MH1990PTC058047
943	PROSPEROUS PROPERTIES AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04380440	U45200MH1990PTC058155
944	ARPANNA MERCHANDISE PRIVATE LIMITED	B04417770	U51900MH1990PTC058443
945	VASHI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	B04379822	U34201MH1991PTC059674
946	PANAMA TEXTILES PRIVATE LIMITED	B04391223	U17120MH1991PTC063948
947	VISOR TRADING PRIVATE LIMITED	B04280053	U51900MH1992PTC064969
948	ANIRUDH TEXTILES PRIVATE LIMITED	B04402715	U17120MH1992PTC066357
949	PRATIK MICROSYSTEMS PRIVATE LIMITED	B04353603	U30007MH1992PTC066802
950	PRAMUKH CONSULTANTS PVT LTD	B04370730	U74300MH1992PTC067941
951	VRUSHALI TEXTILES PRIVATE LIMITED	B04322889	U67190MH1993PTC070302
952	USHA AUTO SPRINGS PVT LTD	B04327128	U32109MH1993PTC070518
953	BALIRAJA AGRO PRODUCTS AND RESEARCH LTD.	B04330155	U01111MH1993PLC071536
954	LAXMI CHHAYA LEASING AND HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED	B04338596	U65910MH1993PTC071644
955	ARAMAES MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04337499	U67190MH1993PTC072077
956	MALODE AGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED	B04393013	U01110MH1993PTC074794
957	SHRI GURUDATT BUILDERS P LTD	B04425831	U45200MH1993PTC075184
958	SAURABH BUILDERS AND DEVELOPERS P.LTD.	B04317012	U45200MH1994PTC077804
959	ECOVISION INVESTMENTS P.LTD.	B04309753	U65990MH1994PTC078460
960	MAFATLAL MEDICAL DEVICES P LTD	B04316311	U93020MH1994PTC078658
961	SOUTH BOMBAY DIAGNOSTIC CENTRE P.LTD.	B04382297	U51507MH1994PTC078703
962	PANAMA FINVEST PRIVATE LIMITED	B04376794	U65990MH1994PTC079542
963	SPLENDOR INTERIORS PRIVATE LIMITED	B04391256	U99999MH1994PTC080090
964	MID-TOWN PROPERTY HOLDERS PRIVATE LIMITED	B04315461	U45200MH1994PTC082262
965	MINOLTA PHARMA PRIVATE LIMITED	B04356093	U99999MH1994PTC082567
966	ROYAL CRUISE LINERS LIMITED	B04347795	U63010MH1995PLC084300
967	KENWOOD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04379715	U45200MH1995PTC085542
968	ESTEEM PORTFOLIO PRIVATE LIMITED	B04359303	U67120MH1995PTC086339
969	INDICON BUILDFINE PRIVATE LIMITED	B04388674	U45200MH1995PTC087011
970	SKYPARK HOLDING AND ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04412045	U45200MH1995PTC087046
971	PARIJAT RESORTS LIMITED	B04323457	U55101MH1995PLC087119
972	PAMVIHAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04307765	U70102MH1995PTC087941
973	M K POLADIA SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04334561	U67190MH1995PTC088579
974	MIDAS TOUCH SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04406385	U67120MH1995PTC089239
975	SAUNIL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B04405965	U67190MH1995PTC089271
976	VAKARANGI MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED	B04303962	U51900MH1995PTC089431
977	LALKAR ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	B04338646	U35110MH1995PTC091003
978	NUKEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B04372074	U24110MH1995PTC091939
979	CARL SHARES LIMITED	B04322459	U67120MH1995PLC092071
980	SHELL VENCAP LIMITED	B04360681	U74140MH1995PLC092406
981	HIRA CREDIT CAPITAL PRIVATE LIMITED	B04406898	U67120MH1995PTC092716
982	VIKKY TRADELINK PRIVATE LIMITED	B04387387	U63090MH2003PTC093397
983	GALAXY CARGO CARE PRIVATE LIMITED	B04358149	U63011MH1995PTC094035
984	NAYAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04371829	U45200MH1995PTC094276
985	PIYUSH PAREKH SHARE AND FINANCE PRIVATE LIMITED	B04401113	U67120MH1995PTC094692
986	DWARKA INFRASTRUCTURE (INDIA) LIMITED	B04376455	U55101MH1996PLC096976
987	NAYLOPLAST (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04384822	U25209MH1996PTC097393
988	MASANI FINANCE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04325494	U65923MH1996PTC097405
989	VIRAM INVESTMENT PRIVATE LIMITED	B04391330	U65923MH1996PTC097882
990	SAURASHTRA CREDIT PRIVATE LIMITED	B04372157	U67120MH1996PTC099881
991	SHREE AND SHYAM STEELS PRIVATE LIMITED	B04425765	U67120MH1996PTC100743
992	IDEAL MONITORING REPORTS PRIVATE LIMITED	B04353025	U51900MH1996PTC100921
993	STRATEGY DEALERS PRIVATE LIMITED	B04384673	U99999MH1996PTC102718

994	MEDIPULSE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	B04337283	U24110MH1996PTC102958
995	VIKRANT SECUSAFE LIMITED	B04411484	U74920MH1996PLC103455
996	EYE-SEE VISION PRIVATE LIMITED	B04408662	U64204MH1996PTC103689
997	NEETASHRI TUBES LIMITED	B04338307	U27200MH1997PLC105040
998	REFINE MARKETING PRIVATE LIMITED	B04287553	U51900MH1997PTC108207
999	ULTIMATE TRADELINK PRIVATE LIMITED	B04394912	U51900MH1997PTC111104
1000	HARVEST LECOFIN LIMITED	B04392304	U65900MH1997PLC112203
1001	HALLIMAX IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04408381	U51900MH1998PTC113682
1002	INTECH MARKETING PRIVATE LIMITED	B04334306	U74140MH1998PTC113945
1003	KEJKA AGRO-TOURISM PRIVATE LIMITED	B04374849	U01110MH1998PTC114098
1004	SHIV SAI HIRE FINLEASE PRIVATE LIMITED	B04427654	U65923MH1998PTC114353
1005	PROMAT MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B04395554	U33110MH1998PTC115299
1006	PROLIFIC HOLIDAY GETAWAYS LIMITED	B04373577	U55101MH1998PLC116682
1007	ORANGE CITY PUBLICATION PRIVATE LIMITED	B04291530	U73100MH1999PTC118795
1008	INDUS TELELINE SYSTEM PRIVATE LIMITED	B04345583	U32109MH1999PTC118906
1009	SILVERCITY RESORTS PRIVATE LIMITED	B04375325	U55100MH1999PTC119889
1010	PRAHLAD CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED	B04289211	U45201MH1999PTC121208
1011	SHARVARI BUILD-CON PRIVATE LIMITED	B04380135	U45200MH1999PTC121933
1012	KAMALA PALACE HOTELS PRIVATE LIMITED	B04349049	U88504MH1999PTC122814
1013	ALCHEMY SPORTS PROMOTION NETWORK PRIVATE LIMITED	B04336921	U92400MH1999PTC122941
1014	ACCURA ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04419636	U29100MH2000PTC123793
1015	QUEST INDIA PRIVATE LIMITED	B04421004	U70100MH2000PTC125257
1016	GLOBALTRAVELLERS COM LIMITED	B04407268	U63040MH2000PLC126568
1017	SENSEX SOLUTIONS AND ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED	B04358644	U67190MH2000PTC126628
1018	ADIVA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B04331013	U72900MH2000PTC126723
1019	ADIVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B04331963	U72900MH2000PTC127146
1020	ANTARIKSHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B04375069	U99999MH2000PTC129187
1021	INDIANMATCH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED	B04379467	U99999MH2000PTC129618
1022	VALUEWORTH TRADES LIMITED	B04347365	U51229MH2000PLC129915
1023	SHRADDHA INSURANCE SERVICES LIMITED	B04335428	U66010MH2000PLC129961
1024	H R DISCOVER-A-HOME ESTATES PRIVATE LIMITED	B04357851	U45102MH2001PTC131099
1025	CHANNEL SANGAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	B04377081	U99999MH2001PTC131328
1026	ORION STEEL AND WASHERIES LIMITED	B04341905	U27101MH2001PLC132166
1027	PERMESHWAR FASHIONS LIMITED	B04402897	U18101MH2001PLC132540
1028	C AIR FORWARDERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04396909	U63013MH2001PTC133266
1029	POPULAR FOREIGN EXCHANGE PRIVATE LIMITED	B04390613	U65190MH2001PTC133353
1030	GATEWAY TRADE AND PROMOTION PRIVATE LIMITED	B04311841	U74300MH2001PTC133500
1031	GREEN VALLEY TELECOM INDIA PRIVATE LIMITED	B04404216	U64202MH2001PTC133878
1032	EVERGREEN LOGISTICS PRIVATE LIMITED	B04362372	U63010MH2002PTC134436
1033	MANGAL MURTI SUGAR MILLS PRIVATE LIMITED	B04394839	U15419MH2002PTC135410
1034	SANTUSTI INSURANCE AND FINANCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04426110	U66010MH2002PTC135420
1035	TEXTURE PAINTS AND COATINGS (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04405650	U74994MH2002PTC135994
1036	MODI JHAVERI AND COMPANY TRADING PRIVATE LIMITED	B04363115	U51909MH2002PTC136252
1037	PRAXIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B04385324	U30007MH2002PTC136963
1038	SIDDHI COMMODITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04362885	U51398MH2002PTC137477
1039	JINDUTT SERVICES AND ESTATE PRIVATE LIMITED	B04403853	U70101MH2003PTC139806
1040	IDEAS CONSTRUCTION AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	B04305678	U45200MH2003PTC139969
1041	ENCINO CREATIONS PRIVATE LIMITED	B04330353	U18101MH2003PTC140446
1042	SMM POLYVINYL PRIVATE LIMITED	B04426466	U25200MH2003PTC140827
1043	JOSH PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	B04337812	U22210MH2003PTC141747
1044	NORTHERN ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED	B04364600	U31909MH2004PTC145799
1045	TECHNOTRAK ENGINEERS PRIVATE LIMITED	B04366852	U29300MH2004PTC145813
1046	EVEREST ACCESSORIES PRIVATE LIMITED	B04362596	U29300MH2004PTC145814

1047	HITECH MECHANICA ENGINEERING PRIVATE LIMITED	B04364105	U31900MH2004PTC145930
1048	STRATEGEM CONSULTING AND MARKETING PRIVATE LIMITED	B04365409	U63040MH2004PTC146169
1049	EAGLE'S EYE DIGITAL PRIVATE LIMITED	B04377263	U33200MH2004PTC146460
1050	QUANTUM PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	B04412961	U22120MH2004PTC146757
1051	ARTISTIC VISION DENTAL LABORATORY PRIVATE LIMITED	B04351615	U51397MH2004PTC147147
1052	AVANENDRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	B04327987	U45200MH2004PTC147244
1053	PLM PROPERTY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04388815	U70200MH2004PTC148638
1054	G3 MEDIA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	B04302352	U74300MH2004PTC149690
1055	IDEAL INSURANCE AND MULTISERVICES PRIVATE LIMITED	B04405973	U74100MH2004PTC149947
1056	RUBISHANKER EXIM PRIVATE LIMITED	B04380671	U51909MH2004PTC150231
1057	CLOUGH OIL AND GAS INDIA PRIVATE LIMITED	B04332441	U11200MH2005PTC150531
1058	CHAMPS SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04400560	U67120MH2005PTC150950
1059	DOLPHIN CARGO PRIVATE LIMITED	B04417317	U63090MH2005PTC151521
1060	V R SERVICE TAX ADVISORS PRIVATE LIMITED	B04353710	U67190MH2005PTC152591
1061	NEWAGE TRADEPLACE PRIVATE LIMITED	B04415386	U51909MH2005PTC152629
1062	BLUE MARINE CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	B04404992	U63032MH2005PTC153153
1063	HOLIDAY AUTOS INDIA PRIVATE LIMITED	B04383329	U63040MH2005PTC154421
1064	DESTINATION TV TRAVEL MALL PRIVATE LIMITED	B04334801	U92100MH2005PTC154575
1065	SHRIVAN EDUCATIONAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	B04411351	U80100MH2005PTC155268
1066	SWAPNA SHILPA HOME FINANCE PRIVATE LIMITED	B04416194	U46519MH2005PTC156243
1067	STARFIRE JEWELLERY PRIVATE LIMITED	B04354700	U36911MH2005PTC156806
1068	RAHVIP INVESTMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B04384244	U67190MH2005PTC157646
1069	INTEGRATED SYSTEMS AND SERVICES PRIVATE LIMITED	B04334967	U72900MH2001PTC131506
1070	BIO-AGRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	B04369377	U24120MH2003PTC143287
1071	INVESTMENT CORPORATION (RATLAM) PRIVATE LIMITED	B04279493	U65990MH1989PTC051896
1072	KARNATAKA WIND ENERGY PVT LIMITED	B04319877	U40100MH2005PTC158357
1073	SUVIJA PRINTRIES PRIVATE LIMITED	B04322723	U22110MH2006PTC159624
1074	MONTEX PEN (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04361101	U36991MH2006PTC160353
1075	VIVIDHA SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B04307849	U24100MH2006PTC160690
1076	GEI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B04357026	U74140MH2006PTC160700
1077	GASPER ENCLAVE WING A PREMISES PRIVATE LIMITED	B04416616	U45201MH2006PTC162753
1078	AM JEWELLERS PRIVATE LIMITED	B04324786	U27205MH2006PTC165061
1079	VIBGYOR TRENDS PRIVATE LIMITED	B04331583	U51900MH2006PTC161424
1080	DAWNAY DAY HOTELS CHENNAI PRIVATE LIMITED	B04374658	U55101MH2006PTC163198
1081	DAWNAY DAY HOTELS CALCUTTA PRIVATE LIMITED	B04374369	U55101MH2006PTC163199
1082	ENRICH SHARES & SECURITIES PRIVATE LIMITED	B04371688	U74992MH2006PTC163804
1083	DAWNAY DAY HOTELS LUCKNOW PRIVATE LIMITED	B04377974	U55101MH2006PTC164093
1084	DAWNAY DAY HOTELS BHUBHANESHWAR PRIVATE LIMITED	B04371654	U55101MH2006PTC164170
1085	DAWNAY DAY HOTELS AGRA PRIVATE LIMITED	B04364881	U55101MH2006PTC164094
1086	AVESA MARKETING PRIVATE LIMITED	B04409165	U51397MH2006PTC164538
1087	MAHAL MIRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B04394060	U45201MH2006PTC166001
1088	MOUZZ WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	B04374468	U72300MH2007PTC167964
1089	SHARP SOURCING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B04369104	U72200MH2007PTC170153
1090	RELANCE REALTORS & FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B04387221	U45400MH2007PTC172417
1091	SHAIVI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B04335030	U45400MH2007PTC170254
1092	FTK MARKETING PRIVATE LIMITED	B04407573	U74130MH2007PTC173131
1093	ABHIJIT MULTITRADE PRIVATE LIMITED	B04410742	U51909MH2007PTC170499
1094	WAYNE MASCIA PROPERTY MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED	B04380457	U70102MH2007PTC171460
1095	ATLANTIC MECHANICA PRIVATE LIMITED	B04361754	U29100MH2007PTC172134
1096	ICHEM CHEMICALS PRIVATE LIMITED	B04386413	U24297MH2007PTC173584
1097	UR RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	B04410056	U74990MH2007PTC175983
1098	HY-TECH RODMATIC PRIVATE LIMITED	B04403648	U29268MH2007PTC174705
1099	RICOCHET MARCOM PRIVATE LIMITED	B04355202	U74300MH2007PTC176563
1100	HIRCO PANVEL SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04425856	U45400MH2007PTC176253

1101	HIRCO NASHIK SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04404893	U45209MH2007PTC176320
1102	HIRANANDANI HOUSING AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04385530	U45200MH2008PTC178490
1103	HEMVAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B04394763	U74140MH2008PTC179322
1104	HIRANANDANI PUNE SEZ PRIVATE LIMITED	B04383493	U45203MH2008PTC179702
1105	HIRANANDANI HOSPITALITY CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04406583	U55101MH2008PTC180378
1106	HIRANANDANI IT CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04408936	U72900MH2008PTC180377
1107	HIRANANDANI IT NASHIK SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04425740	U70102MH2008PTC180365
1108	HIRANANDANI IT AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04407870	U72900MH2008PTC180381
1109	HIRANANDANI ENTERTAINMENT AHMEDABAD SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04405734	U70102MH2008PTC180366
1110	HIRANANDANI HOUSING CHENNAI SEZ CO-DEVELOPER PRIVATE LIMITED	B04427720	U45203MH2008PTC180375
1111	HIRCO PROPERTY SERVICES PRIVATE LIMITED	B04427639	U70102MH2008PTC180040
1112	RIDDHI HOUSING PVT LTD	B04791505	U70100MH1991PTC062525
1113	NOVA HOLDINGS LIMITED	B04753901	U74920MH2006PLC160537
1114	CAT SKILLS SOFTWARE PRIVATE LIMITED	B04996211	U30007MH1996PTC096263
1115	MAGNATE IMPEX PRIVATE LIMITED	B04999207	U51909MH2002PTC136925
1116	YAK AND YETI IMPEX PRIVATE LIMITED	B05386388	U17302MH1995PTC086349
1117	GURU SILK MILLS PRIVATE LIMITED	B05575535	U99999MH1989PTC051539
1118	NEOLUXE FINANCE LIMITED	B05773064	U65920MH1986PLC038741
1119	COSVEDIC DRUGS PRIVATE LIMITED	B05891015	U99999MH1996PTC100324
1120	ARCTIC PROJECT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	B05935457	U74140MH2000PTC123642
1121	CUSTOMER CONNECT (INDIA) PRIVATE LIMITED	B05875406	U64201MH2001PTC133597
1122	SHREECHAKRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B06068605	U99999MH1996PTC102764
1123	HWH NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED	B06391932	U52390MH2007PTC170675
1124	JHUNJHUNWALA ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	B06701916	U32109MH1986PTC040028
1125	RISHABH ROADWAYS PRIVATE LIMITED	B06681597	U63090MH2000PTC128279
1126	RODAS SOFTWARES PRIVATE LIMITED	B06620710	U52590MH2002PTC135345
1127	TITUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B06623227	U72900MH2000PTC127330
1128	KAPAD TRADERS CO PVT LTD	B06777189	U17120MH1941PTC003472
1129	VIRAL SPINNERS LIMITED	B06932032	U17120MH1993PLC071798
1130	PARAMOUNT VIDEO PRIVATE LIMITED	B07017858	U92113MH1984PTC033560
1131	ORIGIN FINANCE LIMITED	B07045800	U65900MH1995PLC091081
1132	RM INFOLINK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B07033673	U72900MH2008PTC178674
1133	ORKAY LEASING AND FINANCE LIMITED	B07175367	U65910MH1987PLC042191
1134	MEDICAL MARKETING INSIGHTS PRIVATE LIMITED	B07486657	U85110MH2006PTC166130
1135	VIVASWAN BUILDERS PRIVATE LIMITED	B07603905	U45200MH2004PTC148914
1136	JORD AGRO OIL INDUSTRIES LIMITED.	B07677669	U15143MH1992PLC069434
1137	MERIDIAN TECHNICAL SERVICES P LTD	B07794852	U61100MH1994PTC078440
1138	MURAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B07967920	U67120MH1991PTC060150
1139	TINY SECURITIES PRIVATE LIMITED	B07941917	U65990MH1991PTC060428
1140	FALCON PAPER INDUSTRIES PVT.LTD.	B08150039	U99999MH1993PTC070467
1141	ANNADA FOODS PRIVATE LIMITED	B08121246	U15130MH2005PTC151856
1142	BANDRA WEST FILMS PRIVATE LIMITED	B08197246	U74140MH2007PTC170007
1143	SARVODAYA FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	B08276610	U67190MH1988PTC050002
1144	VARRAN ESTATES PRIVATE LIMITED	B08262040	U45200MH1994PTC083949
1145	THREE ANGELS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	B08285256	U65993MH1997PTC108149
1146	ZORBA FILMS PRIVATE LIMITED	B08236176	U92110MH2004PTC144272
1147	SUSHAILA ENGINEERING PVT LTD	B08351157	U28920MH2004PTC029349
1148	VERSA TRIP CIRCUIT BREAKERS MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED	B08471583	U31200MH1978PTC020446
1149	SUYASH SECURITES PRIVATE LIMITED	B08500514	U67120MH2004PTC149649
1150	WONDER TOYS PRIVATE LIMITED	B08469645	U52398MH2005PTC158148

1151	SOEM TECHNOLOGIES AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	B08547317	U72200MH2006PTC163098
1152	MOONLITE RESORT INDIA PRIVATE LIMITED	B08693459	U55200MH1996PTC099517
1153	FELICITY EXPORTS PRIVATE LIMITED	B08685570	U51900MH2005PTC158081
1154	RITZ COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED	B08730822	U32303MH1991PTC064288
1155	KSHAMA REALTORS PRIVATE LIMITED	B08698482	U45200MH1993PTC072228
1156	HASMUKHLAL MATHURADAS TEXTILES PRIVATE LIMITED	B08712150	U17120MH1994PTC079845
1157	QUIVER ADVISORY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B08749590	U74100MH2005PTC157280
1158	SNAP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	B08721953	U72200MH2006PTC162805
1159	SONIE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	B08889834	U45102MH2001PTC131688
1160	FORBES SMART DATA LIMITED	B08997983	U72100MH2006PLC161311
1161	OYSTER CONTAINER SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	B09343542	U63090MH1998PTC116172
1162	GANESH COMPUTER EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED	B09492018	U80302MH2000PTC124484
1163	PRAKASH AUTORIDERS PRIVATE LIMITED	B09580283	U50101MH2001PTC131973
1164	BOX BOARD PACKAGING (INDIA) PRIVATE LIMITED	B09780735	U25100MH1996PTC102211
1165	ACCORD L'GLOBAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED	B09841214	U63090MH1997PTC111035
1166	SUNRICH ENERGY PRIVATE LIMITED	B09875667	U74999MH1993PTC071654
1167	TRENDY INVESTMENTS ADVISOR PRIVATE LIMITED	B09871054	U67110MH2005PTC152281
1168	LODHA ATTENTION BUILDERS AND FARMS PRIVATE LIMITED.	B09886896	U45200MH2007PTC168703
1169	LODHA TRANSPARENT HI-TECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	B09952334	U45200MH2007PTC168734
1170	PRABODH COMMERCIALS PRIVATE LIMITED	B09993726	U52100MH2008PTC179582
1171	DEWBERRY TRADING PRIVATE LIMITED	B09993254	U51109MH2008PTC179688
1172	SHEETAL URBAN HOUSING PRIVATE LIMITED	B10146207	U70101MH2004PTC147185
1173	INTEGRA URBAN SPACE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	B10146710	U45200MH2005PTC156639
1174	SURGE CONTROL AND FASTENERS PRIVATE LIMITED	B10311686	U74210MH1995PTC092643
1175	DIAPLUS EXPORTS PRIVATE LIMITED	B10322337	U51398MH1998PTC115817
1176	THE BOMBAY REGISTERED PIPE DEALERS SYNDICATE LIMITED	B10381119	U99999MH1948PLC006238
1177	ADAGE SYSTEMS PVT LTD	B10344554	U72200MH1983PTC031468
1178	ARSH FOOD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	B10401677	U15100MH1986PTC040522
1179	ROYAL PLANT HIRERS PVT LTD	B10387991	U29241MH1991PTC061795
1180	NEW AGE STEEL TRADING PRIVATE LIMITED	B10383776	U51102MH2006PTC161821
1181	GALAXY INTERIORS PRIVATE LIMITED	B10488799	U74994MH1991PTC063526
1182	AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INDIA PRIVATE LIMITED	B10472389	U66010MH2002PTC136086
1183	LOK ACCOUNTING AND TECHNICAL SERVICES PVT LTD	B10725497	U74999MH1987PTC043131
1184	KSM INVESTMENT SERVICES PRIVATE LIMITED	B10745719	U67120MH1999PTC121614
1185	R AND W SOUND COMPANY PRIVATE LIMITED	B10753309	U92140MH1999PTC122866
1186	SHEKHAR KAPUR ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	B10762334	U92100MH2003PTC143091
1187	DEV REALTY AND DEVELOPERS LIMITED	B10756302	U45200MH2008PLC177608
1188	RAMUKA CABLES PRIVATE LIMITED	B10827384	U31300MH1991PTC059790
1189	RIGHTWAY BUILDCON PRIVATE LIMITED	B10827848	U45201MH2006PTC163132
1190	DIVYESH AGRI PROPERTIES PRIVATE LIMITED	B10828325	U70101MH2006PTC166351

HENRY RICHARD
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Difusa Trading Private Limited

Panaji-403001, the 8th July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/sec 560/2011/00699/1118—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Difusa Trading Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Faleiro Investments Private Limited

Panaji-403001, the 8th August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Goa/sec 560/2011/00634/1121—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Faleiro Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Puducherry-605011, the 4th August 2011

No. 3(109)/S.560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the registrar and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	2100	M/s. J. & B. Integrated Information Private Limited
2-	2228	M/s. First Insight India Private Limited

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Puducherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pondi Design Edition & Distribution Private Limited

Pondicherry-605011, the 5th August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Pondicherry/sec 560/2011/00583—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pondi Design Edition & Distribution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Pondicherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Powerset India Private Limited

Pondicherry-605011, the 17th August 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Pondicherry/sec 560/2011/00116—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Powerset India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. SWAMIDASON
Registrar of Companies
Pondicherry

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kolkata-700020, the 18th August 2011

No. RoC/WB/EES-560/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the registrar and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	099167	M/s. Rakhi Trading Co. Private Limited
2.	099175	M/s. Shaket Creations Private Limited
3.	089219	M/s. Sika Building Products Private Limited
4.	150587	M/s. Dreamsoil Netmark Solution (India) Limited
5.	086790	M/s. Agrico Enterprise Private Limited
6.	153555	M/s. Jago Bangla Media Private Limited

HARIHARA SAHOO
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. We Care Diagnostic & Research Centre
Private Limited

Shillong-793001, the 11th August 2011

No. 560(5)/6485—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. We Care Diagnostic & Research Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Bodoland Security Services Private Limited

Shillong-793001, the 11th August 2011

No. 560(5)/8001—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bodoland Security Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Assam Rice Mills Association Limited

Shillong-793001, the 11th August 2011

No. 560(5)/726—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Assam Rice Mills Association Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Vicky Exims Private Limited

Shillong-793001, the 11th August 2011

No. 560(5)/8445—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Vicky Exims Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Silverline Agro Industries Limited

Ernakulam-682021, the 21st July 2011

No. F.3/EES-2010/RoC-9300/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Silverline Agro Industries Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Alummoottil Financial Enterprises Private Limited

Ernakulam-682021, the 21st July 2011

No. F.3/EES-2010/RoC-9300/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alummoottil Financial Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Pioneer Securities Private Limited

Ernakulam-682021, the 21st July 2011

No. F.3/EES-2011/RoC-9299/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Securities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Fipron Systems Private Limited

Ernakulam-682021, the 21st July 2011

No. RoC-9299/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Fipron Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

K. G. JOSEPH JACKSON
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. New Travelmart (K) Tradelinks Private Limited

Ernakulam-682021, the 2th June 2011

No. RoC/9298/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Travelmart (K) Tradelinks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Thanima Constructions and Real Estate
Private Limited

Ernakulam-682021, the 2nd June 2011

No. RoC/9298/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thanima Constructions and Real Estate Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Pracharini Publications Private Limited

Ernakulam-682021, the 28th July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00229—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pracharini Publications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Fair Deal Plantations Private Limited

Ernakulam-682021, the 28th July 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2011/00227—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fair Deal Plantations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Divine Printers and Publishers Private Limited

Ernakulam-682021, the 28th July 2011

No. RoC/9302/2011—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Divine Printers and Publishers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

V. E. JOSEKUTTY
Dy. Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 16th August 2011

No. 66 to 65441/560(5)/EES/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the registrar and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	66	M/s. Andaman Computers Private Limited
2.	6374	M/s. Marina Packaging and Engineering Private Limited
3.	11658	M/s. Jegi Advertising Private Limited
4.	13303	M/s. Praveen Sales & Services Private Limited
5.	15651	M/s. Modi Travels and Transports Private Limited
6.	20124	M/s. Samyuktha Films Limited
7.	24520	M/s. Mangum Investments Private Limited
8.	26623	M/s. Clara Overseas Private Limited
9.	29086	M/s. Grandtrust Industries Limited
10.	35578	M/s. Rachna Transcriptions Private Limited

1	2	3	1	2	3
11.	36774	M/s. Rami Agro Oils Limited	25.	50766	M/s. Hypergistics Computing Solutions Private Limited
12.	37857	M/s. Ambal Finance & Investment Chennai Limited	26.	50914	M/s. S. K. P. Marketing (Chennai) Private Limited
13.	37974	M/s. Firdaus Islamic Finance & Investments (Madras) Private Limited	27.	51057	M/s. Annai Polymer (India) Private Limited
14.	38524	M/s. Nagappa Petro Products Private Limited	28.	51869	M/s. Info Karma Solutions Private Limited
15.	39340	M/s. Tradex Pell Agencies Private Limited	29.	52333	M/s. SSS Contractors & Foundation Private Limited
16.	41247	M/s. Hameedia Estates Private Limited	30.	52577	M/s. G. K. Entertainment Private Limited
17.	41361	M/s. K-Int'l Textiles Private Limited	31.	54064	M/s. Gnet Services Private Limited
18.	42394	M/s. Maxpro Products Limited	32.	54694	M/s. Win Research and Consultancy Services Private Limited
19.	44291	M/s. Objectpro Software Private Limited	33.	60241	M/s. Hi Serve Consultants Private Limited
20.	45359	M/s. Aashan Foods & Marketing Private Limited	34.	60271	M/s. Sleekquote Consultancy Private Limited
21.	45481	M/s. Turtle Technologies (India) Private Limited	35.	63519	M/s. Sarr Transcripts Private Limited
22.	45855	M/s. Harijit Auto Private Limited	36.	65441	M/s. Mohan Microbes Limited
23.	46921	M/s. Wewin Enterprises Private Limited			
24.	49784	M/s. Models Bright Future Personality Development Private Limited			

V. C. DAVEY

Registrar of Companies
Tamilnadu